



सत्यमेव जयते



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation

वित्तीय प्राक्कलन तथा
निष्पादन बजट
2025-2026

**Financial Estimates and
Performance Budget
2025-2026**





वित्तीय प्राक्कलन
तथा
निष्पादन बजट
2025-2026

**FINANCIAL ESTIMATES
AND
PERFORMANCE BUDGET
2025-2026**



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002
**PANCHDEEP BHAWAN, C.I.G. MARG,
NEW DELHI-110002**



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

विषय सूची		
विवरण		पृष्ठ संख्या
कार्यकारी सारांश		02-06
बजट एक नजर में		07
वर्ष 2024-2025 के परिशोधित प्राक्कलन तथा वर्ष 2025-2026 के बजट प्राक्कलन पर स्पष्टीकरण ज्ञापन		08-28
विवरण क :	राजस्व प्राक्कलन	29-34
विवरण ख :	व्यय प्राक्कलन	35-42
परिशिष्ट : -		
i)	दिनांक 31.03.2025 तथा 31.03.2026 को योजना के अंतर्गत व्याप्त कर्मचारियों की अनुमानित संख्या का विवरण	43-44
ii)	वित्त वर्ष 2000-2001 से प्रति व्यक्ति आय और व्यय दर्शाने वाला विवरण	45
iii)	वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत निर्माण का ब्योरा और बजट आवश्यकता तथा वर्ष 2025-2026 का बजट प्राक्कलन	46-57
निष्पादन बजट 2025-26		58-74
संलग्नक :-		
i)	व्याप्ति की राज्यवार स्थिति का सूचक विवरण (दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार क.रा.बी. योजना के अधीन कर्मचारियों, बीमाकृत व्यक्तियों/बीमाकृत महिलाओं तथा परिवार एककों की संख्या)	75-78
ii)	क.रा.बी. योजना के अंशदान से प्रति व्यक्ति आय और क. रा . बी. योजना के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत व्यय का विवरण	79
iii)	चिकित्सा शिक्षा संस्थानों/पाठ्यक्रमों की सूची	80
निष्पादन एक झलक में		81-83

Financial Estimates and Performance Budget 2025-2026



INDEX	
Particulars	Page Nos.
Executive Summary	02-06
Budget at a Glance	07
Explanatory Memorandum on the Revised Estimates 2024-2025 and Budget Estimates 2025-2026	08-28
Statement A: Revenue Estimates	29-34
Statement B: Expenditure Estimates	35-42
Appendices: -	
i) Statement showing the estimated number of employees covered as on 31.03.2025 and 31.03.2026	43-44
ii) Statement showing per capita income and expenditure since Financial Year 2000-2001	45
iii) Details of Capital Works and Budget requirement RE 2024-2025 & BE 2025-2026	46-57
Performance Budget 2025-26	58-74
Annexure: -	
i) Statement showing state-wise position of coverage (Number of employees, Insured Persons/Insured Women and family units, under Employees' State Insurance Scheme. as on 31.03.2024)	75-78
ii) Statement showing per capita income from contribution and expenditure under different heads of the Employees' State Insurance Scheme.	79
iii) List of Medical Education Institutions/Courses	80
Performance at a Glance	81-83



कार्यकारी सारांश

क.रा.बी. निगम का उद्देश्य बीमाकृत व्यक्तियों (IPs) एवं उनके परिवार को चिकित्सा एवं नकद हितलाभ के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

यह योजना भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं करती है बल्कि नियोजकों द्वारा भुगतान किए गए नियोजकों एवं कर्मचारियों के अंशदान से वित्तपोषित होती है। अंशदान एवं व्यय इलेक्ट्रॉनिक रोकड़ प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से की जाती है जबकि आरक्षित निधि का प्रबंधन सेबी (SEBI) अधिकृत पेशेवर प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। संपूर्ण प्रशासन एवं निगरानी क.रा.बी. मुख्यालय में बजट एवं लेखा समिति तथा निवेश समिति के अधीन किया जाता है जो स्थायी समिति एवं निगम को रिपोर्ट करती है।

इस रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2024-25 का परिशोधित प्राक्कलन, वित्त वर्ष 2025-26 का बजट प्राक्कलन का विवरण एवं वित्त वर्ष 2023-24 का वास्तविक व्यय, परिशोधित प्राक्कलन 2024-25 के सन्दर्भ में निष्पादन का अवलोकन एवं वित्त वर्ष 2025-26 के बजट प्राक्कलन हेतु तैयार महत्त्वपूर्ण प्रावधानों के विवरण सम्मिलित हैं। कुल 130 लेखा इकाइयों से समन्वय एवं आंकड़ा संग्रह की चुनौतियों के बावजूद, इस वर्ष की बजट प्रक्रिया को 06 महीने के व्यय रिकॉर्ड के आधार पर इस वर्ष के बजट अभ्यास को प्राथमिकता के अनुसार फरवरी महीने से दिसंबर महीने तक स्थगित करने का प्रयास किया गया है। ताकि विभिन्न क.रा.बी.नि. इकाइयों द्वारा परिशोधित प्राक्कलन की प्राप्ति के उपरान्त, वर्तमान वित्त वर्ष का मार्च में समापन पूर्व, ससमय व्यय की योजना बनाई जा सके।

व्याख्यात्मक नोट उस बजट शीर्ष का वर्णन करते हैं जिसके तहत प्रावधान किए गए हैं, आरई 2024-25 और बीई 2025-26 में प्रावधानों का एक अलग विवरण दिया गया है।

विवरण क अंशदान एवं राजस्व के विभिन्न स्रोतों, विभिन्न निधियों जो राशि संग्रह, जमा, अग्रिम एवं वित्त प्रेषण सहित प्राप्तियों के अनुमान को दिखाता है।

विवरण ख व्यय के विभिन्न उपादानों - हितलाभ (चिकित्सा एवं नकद), प्रशासनिक, एवं पूंजीगत तथा आरक्षित निधि के रखरखाव पर व्यय, वित्त प्रेषण आदि के अनुमानित राजस्व व्यय को विस्तृत वर्गीकृत रूप में दिखाता है।

जबकि प्रदर्शन बजट संगठन के प्रदर्शन और वास्तविक, परिशोधित प्राक्कलन और बजट प्राक्कलन में प्रावधान के माध्यम से बनाई गई योजना और कार्यक्रमों को जोड़ने का एक प्रयास है।

1. राजस्व प्राप्तियां :

राजस्व प्राप्तियों का मुख्य अवयव बीमाकृत व्यक्तियों से अंशदान एवं उसकी वसूली है। वित्त वर्ष 2023-24 हेतु वास्तविक राजस्व अंशदान का हासिल लक्ष्य रु 1831518 लाख है जो कि पिछले वर्ष 2022-23 की तुलना में रु 91213 लाख अधिक है। यद्यपि, परिशोधित प्राक्कलन 2023-24 एवं बजट प्राक्कलन 2024-25 में निर्धारित लक्ष्य में 20 प्रतिशत की कमी थी जो परवर्ती वर्षों में 10 प्रतिशत थी। उक्त कमी, उच्च आय वाले कर्मचारी वर्ग (9.35 लाख कर्मचारी) के रु 21,000 की अधिकतम सीमा से बाहर निकलने के कारण हुई। वित्त वर्ष 2025-26 बजट प्राक्कलन हेतु राजस्व प्राप्ति लक्ष्य अन्य वर्षों (वर्ष 2023-24 को छोड़कर) की तरह वास्तविक 10 प्रतिशत पर वापस लाई गई है जो निरंतर राजस्व एवं वसूली प्रक्रिया की निगरानी एवं सुदृढ़ करने के कारण हुई है।

वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व पर प्रभाव डालने वाला दूसरा कारक विविध आय में शामिल रु 27945 लाख का बीमांकिक प्राप्ति है जो क.रा.बी. कोविड-19 राहत योजना आरक्षित निधि के पुनर्समायोजन के कारण हुआ। आरक्षित निधि का पुनर्संतुलन प्रत्येक वर्ष किया जाता है जब नए तथ्यों या भविष्य हेतु अनुमानित अतिरिक्त देनदारियों के बीमांकिक अनुमानों के आधार पर पुनर्गणना की जाती है। प्रत्याशित कमी की स्थिति में आवश्यक निधि जोड़ी जाती है या लेखा मानकों के अनुसार आधिक्य की स्थिति में बीमांकिक लाभ के रूप में दर्ज की जाती है। इससे निधि की राशि प्रभावित नहीं होती है क्योंकि धनराशि आरक्षित निधि से सामान्य वर्ग में चली जाती है।

3 वर्षों की रुकावट के उपरान्त, वित्त वर्ष 2023-24 से राज्यों से किराया समायोजन पुनः आरम्भ हो गया है।



EXECUTIVE SUMMARY

The objective of ESIC is to provide social security to Insured Persons (IPs) and their families through medical and cash benefits. The scheme does not receive funds from the Government of India, but is financed through the Employers' and Employees' share of contribution payable by the Employers. The contributions and expenses are routed through an electronic Cash Management system, while the reserves are professionally managed by SEBI licensed managers. The overall administration and monitoring is done at the ESI HQs, under the aegis of the Budget and Accounts Committee and the Investment Committee, who report to the Standing Committee and the Corporation.

This report contains the details of the Revised estimates FY 2024-25, the Budget estimates FY 2025-26 and the overview of the performance with reference to the actual expenditure for FY 2023-24, RE 2024-25 and the significant provisions made for the BE FY 2025-26. In spite of the challenges of coordinating and collecting data from 130 accounting units, an attempt has been made based on 06 months' expenditure record to pre-poned this year's budget exercise to the month of December from the month of February as per precedence, to enable the various ESIC units to plan for timely expenditure after receipt of RE, before the end of the current FY in March.

Explanatory notes describe the Budget head under which the provisions are made, with a separate detail of provisions in RE 2024-25 and BE 2025-26.

Statement A provides the projection for receipts including Contribution, and various sources of Revenue, the various funds which are part of the corpus, deposits, advances and remittances.

Statement B provides details of projected Revenue expenditure under various components of expenditure broadly categorized under Benefits (medical and cash), administrative, and expenditure on Capital and maintenance of Reserve funds, remittances etc.

While the Performance Budget is an attempt to link the performance of the organization and the plan and programs made through the provision in the actuals, RE and BE.

1. Revenue Receipts:

The major component driving the revenue receipts is the contributions from IPs and recovery of the same. The actual Revenue contributions achieved for FY 2023-24, was ₹1831518 lakhs, with an increase of ₹91213 lakhs, compared to the previous year 2022-23. However, there was a shortfall in the target fixed at 20 percent in the RE 2023-24 and BE 2024-25 as compared to 10 percent in the preceding years. The shortfall is identified due to the fact that in many of the states the minimum wages have gone above the wage limit of ₹21,000 resulting in higher income employees (9.35 lakhs workers) moving out of the ₹21,000 ceiling. Revenue Receipts target for the BE, FY 2025-26 has been reverted to a realistic 10 percent as in other years (except 2023-24), with consistent monitoring and strengthening of Revenue and Recovery processes being done.

The second component having an impact on revenue FY 2023-24 is the actuarial gain of ₹27945 lakhs included in the miscellaneous income due to re adjustment of the ESI Covid-19 Relief Scheme Reserve Funds. A rebalancing of the reserve funds (permanent) takes place every year when the actuarial projections are recalculated based on new facts or additional liabilities projected for the future. Required funds are added in case of anticipated shortfalls or booked as actuarial profits in case of excess in accordance with Accounting Standards. This does not affect the corpus amount as the fund moves from the reserved fund to the general category.

Also, after a moratorium of 3 years, rent adjustments from states have resumed from FY 2023-24.



2. चिकित्सा हितलाभ

2.1. क.रा.बी.निगम

चिकित्सा सुविधाएं बेहतर बनाने के उद्देश्य से, 2023 -24 के वास्तविक आंकड़ों की तुलना में विभिन्न घटकों जैसे - अति विशिष्ट उपचार(एसएसटी), बीमित महिलाओं को प्रसूति व्यय, अस्पतालों की मरम्मत एवं रखरखाव, एमईयूडी, आईएमपी, स्वच्छता कार्य योजना तथा चिकित्सा शिक्षा (जिसमें वर्तमान में मौजूद कराबीनि अस्पतालों में 10 नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना शामिल है देखें (पृष्ठ 19) के कारण परिशोधित प्राक्कलन 2024-25 में राजस्व व्यय के बजट प्रावधानों में समग्र रूप से 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। परिशोधित प्राक्कलन 2024-25 में ₹ 1552986 लाख का प्रावधान किया गया है जो 2024-25 के अनुमानित अंशदान आय का 77 प्रतिशत है तथा 2025-26 के चिकित्सा बजट अनुमान में ₹1781054 लाख का प्रावधान किया गया है जिसमें अनुमानित अंशदान आय का 80 प्रतिशत शामिल है।

इसके अलावा, नई और चल रही परियोजना और गैर-परियोजना पूंजीगत वस्तुओं के लिए पूंजीगत व्यय प्रावधान किए गए हैं जिनमें से एक बड़ा हिस्सा अस्पताल उपकरणों की खरीद के लिए आवंटन शामिल है (संदर्भ पृष्ठ संख्या 47)

इसके अलावा आगे भी, नवीन एवं चालू परियोजनाओं तथा गैर-परियोजना पूंजीगत वस्तुओं (इसमें अस्पतालों के उपकरणों की खरीद के लिए आबंटित एक बड़ा हिस्सा भी शामिल है देखें (पृष्ठ 47) के लिए पूंजीगत व्यय के प्रावधान किये गए हैं।

क रा बी निगम अस्पतालों एवं औषधालयों के लिए अद्यतन मानव संसाधन के मानदंडों के आधार पर जनशक्ति की आवश्यकता में संशोधन किया जा रहा है। तथापि, इसे वर्तमान बजट में शामिल नहीं किया जा रहा है क्योंकि यह प्रक्रिया अभी प्रारंभिक चरणों में है तथा इसका असर देखना अभी बाकी है।

2.2. क.रा.बी.योजना

अपने-अपने राज्यों में बीमाकृत व्यक्तियों को प्राथमिक तथा द्वितीयक उपचार उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। कराबीनि अपना बजट प्रति बीमाकृत व्यक्ति फार्मूला के आधार पर बनाता है तथा इसके व्यय की समीक्षा लेखा परीक्षा प्रमाणपत्रों के आधार पर करता है (विस्तृत ब्यौरे पृष्ठ संख्या 63) खाते पर भुगतान (ओएपी) में विस्तृत तौर पर प्रशासनिक, चिकित्सा सेवाएं, सुधार व द्वितीयक रेफरल व्यय शामिल हैं। यह बजट, परियोजना आधारित सेवाओं में सुधार के लिए परियोजना कार्यान्वयन प्रस्ताव के लिए भी राशि उपलब्ध करवाता है। ऐसा देखा गया है कि राज्यों के साथ नियमित समीक्षा और चर्चा के परिणामस्वरूप, पिछले 01 वर्ष में क रा बी योजना व्यय में वृद्धि हुई है। राज्यों ने वित्त वर्ष 2022-23 में 393549 लाख, वित्त वर्ष 2023-24 में 470574 लाख व्यय किये हैं। अब, परिशोधित प्राक्कलन 2024-25 एवं बजट अनुमान 2025-26 में क्रमशः राज्य सरकार कराबी योजना/संस्था को क्रमशः ₹574196 लाख व ₹680994 के ओएपी का आबंटन किया गया है। इसमें उत्तर पूर्वी राज्यों व सिक्किम (असम को छोड़कर) के लिए 40 लाख रुपए प्रतिवर्ष प्रति औषधालय (100 प्रतिशत ओएपी बजट आबंटन के अलावा) की अतिरिक्त वित्तीय सहायता (अ.वि.स.) भी शामिल है।

3. नकद हितलाभ

इस शीर्ष के अधीन आने वाले हितलाभों में स्थायी हितलाभ जैसे स्थायी अपंगता हितलाभ (स्था.अ.हि.), आश्रित हितलाभ (आ.हि.) व कराबीनि कोविड-19 राहत योजना हैं, जिनके लिए निधि का संरक्षण किया जाता है तथा अस्थायी हितलाभ जैसे अस्थायी अपंगता हितलाभ (अ.अ.हि.), राजीव गाँधी श्रमिक कल्याण योजना (रा.गा.श्र.क.यो.), अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (अ.बी.व्य.क.यो.), बीमारी हितलाभ, मातृत्व हितलाभ, अंत्येष्टि व्यय इत्यादि शामिल हैं। जबकि यह देखा गया है कि परिशोधित प्राक्कलन 2024-25 में वार्षिक अदायगी में वृद्धि हुई है, वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में समग्र हितलाभ व्यय (संरक्षित निधियों के प्रावधानों सहित) में आंशिक कमी आई है जो स्थायी हितलाभों के लिए अनुरक्षित की गई निधि की आवश्यकता की पुनर्गणना और पुनर्संतुलन के कारण है। किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए आरक्षित निधि को राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है।



2. Medical Benefits

2.1 ESIC

In keeping with the vision to improve medical services, there has been an overall increase of 22 percent in budgetary provisions for revenue expenditure in the RE 2024-25 as compared to the actuals of 2023-24 as seen in the various components-SST, confinement allowance to women IP, repairs and maintenance of hospitals, MEUD, IMP, Swachhata Action Plan and Medical education (which includes establishment of 10 new medical colleges in the existing ESIC hospitals refer (pg no.19). A provision of ₹ 1552986 Lakhs in RE 2024-25, which is 77 percent of projected contribution income for 2024-25 and a provision of ₹ 1781054 Lakhs in the Medical Budget Estimates 2025-26, comprising 80 percent of the projected contribution income. These include projects inaugurated by the hon'ble Prime Minister on 29.10.2024 for upgradation of additional 500 beds in ESI hospital in Indore, stone laying for 100 bedded hospitals in Bommasandra, Narsapura, Meerut, Acchitapuram and upgrading of Faridabad hospital by an additional 500 beds.

Over and above this, Capital expenditure provisions have been made for new and ongoing project, and non-projects capital items (a large part of which comprises allocation for procurement of hospital equipment, (ref. pg no.47).

Revised Manpower requirement is being worked out based on the latest Human Resource Norms for ESIC hospitals and dispensaries. However, this has not been included in the current budget as the exercise is in the early stages and the implication is yet to be arrived at.

2.2 ESIS

The State Governments are responsible for providing Primary and Secondary health care to the insured persons in their respective states. The ESI Corporation formulates the budget based on a per IP formulae and reviews expenditure based on audit certificates (details at Page. No.63). On account payment (OAP) covers broadly, administrative, medical services and Secondary referral costs. The Budget also provides for Project Implementation Proposal, for project-based improvement in services. It is seen that as a result of regular review and interaction with the states, there has been an upswing in the ESIS expenditure in the last 1 year. States expended Rs. 393549 lakhs in FY 2022-23, Rs.470574 lakhs in FY 2023-24. Now, an OAP allocation of ₹ 574196 Lakh and ₹ 680994 Lakhs has been made towards State ESI Scheme/Society in the RE 2024-2025 and BE 2025-2026 respectively. This also includes an Additional Financial Assistance (AFA) of ₹ 40 Lakhs per dispensary annually (besides 100 percent allotment of OAP budget) for North Eastern States and Sikkim (except Assam).

3. Cash Benefit

Benefits under this head comprise of permanent benefits like Permanent Disablement Benefit (PDB), Dependent's Benefit (DB) and ESIC Covid-19 Relief Scheme (CRS) for which reserve funds are maintained and temporary benefits like Temporary Disablement Benefit (TDB), Rajiv Gandhi Shramik Kalyan Yojna (RGSKV), Atal Bimit Vyakti Kalyan Yogna (ABVKY), Sickness benefit, Maternity benefit, funeral expenses etc. while it is seen that the actual payouts have increased in RE 2024-25, there is a marginal reduction in the overall Cash benefit expenditure (includes provision to Reserve Funds) in comparison to FY 2023-24, which is due to the re-calculation and re-balancing of the requirement of reserved funds to be maintained for permanent benefits. Funds reserved for a specific purpose is charged as revenue expenditure.



4. प्रशासनिक लागत

वर्ष 2023-24 के दौरान कुल आय के एक भाग के रूप में प्रशासनिक लागत 8 प्रतिशत थी। यह चालू वर्ष (2024-2025) में लगभग 9 प्रतिशत और अगले वित्त वर्ष (2025-2026) में 8 प्रतिशत होने की उम्मीद है, जो मुख्य रूप से वेतन एवं भत्ते तथा कर्मचारियों से संबंधित हितलाभ निधियों में प्रावधान के फलस्वरूप स्थापना लागत में वृद्धि के कारण है। यह नियम 31ए के तहत प्रशासनिक खर्चों के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 15 प्रतिशत की सीमा के भीतर है।

मुख्यालय और क्षेत्र इकाइयों के लिए प्रशासनिक लागत में स्थापना लागत और प्रशासनिक कार्यालयों के रख-रखाव के लिए आवश्यक अन्य लागत शामिल हैं। चिकित्सा स्थापना और अस्पतालों को चलाने के लिए लागत चिकित्सा सेवाओं की लागत का एक अलग हिस्सा है, न कि प्रशासनिक लागत का हिस्सा है। सामान्य खर्चों के तहत ईबीआरएफ निधियों के पुनर्संतुलन के कारण, परिशोधित प्राक्कलन वित्त वर्ष 2023-34 के अनुपात में, बजट अनुमान 2025-26 में 11 प्रतिशत की मामूली कमी हुई है। यह प्रत्येक वर्ष होता है, जब भविष्य के लिए अनुमानित नए तथ्यों या अतिरिक्त देनदारियों के आधार पर बीमांकिक अनुमानों की पुनर्गणना की जाती है। प्रत्याशित कमी के मामले में आवश्यक धनराशि जोड़ी जाती है या अधिक के मामले में बीमांकिक लाभ के रूप में दर्ज की जाती है। यह समग्र (कॉर्पस) राशि को प्रभावित नहीं करता है क्योंकि यह आरक्षित से सामान्य (धन की अधिकता के मामले में) श्रेणी या इसके विपरीत (अपर्याप्त धन के मामले में) में जाता है।

अन्य प्रशासनिक खर्चों में, हालांकि बजट अनुमान 2024-25 से परिशोधित प्राक्कलन 2024-25 में 22 प्रतिशत की कमी है, वित्त वर्ष 2023-24 के वास्तविक आकड़ों से 59 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसमें ज्यादातर प्रशिक्षण के लिए उच्च प्रावधानों, कार्यालय और स्टाफ क्वार्टर के मरम्मत एवं रखरखाव, विज्ञापन और प्रचार, स्वच्छता, किराया, हाउसकीपिंग सेवाएं, समितियों और कर्मचारियों के यात्रा और परिवहन शुल्क एवं अन्य उपयोगिता और वैधानिक बकाया को जिम्मेदार ठहराया गया।

बैंक प्रभारों की समीक्षा की गई है। संग्रह दर को शून्य शुल्क तक कम करने के लिए सभी भागीदार बैंकों के साथ नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो 2024-25 के बजट अनुमान की तुलना में 82 प्रतिशत की कमी से परिशोधित प्राक्कलन 2024-25 के प्रावधानों को प्रभावित करेंगे।

5. पूंजीगत लागत

संपदा प्रबंधन प्रभाग ने पूंजीगत परियोजनाओं में बजट अनुमान 2024-25 से परिशोधित प्राक्कलन 2024-25 में 59 प्रतिशत की कमी का अनुमान लगाया है। संपदा प्रबंधन प्रभाग द्वारा उन परियोजनाओं को छोड़ने के लिए एक समीक्षा की गई थी जहां भूमि आवंटन की अभी तक पुष्टि नहीं की गई है और जहां काम शुरू नहीं हुआ है। इसी तरह, पीएमडी द्वारा औचित्य की जांच के बाद विशेष मरम्मत के लिए फील्ड इकाइयों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों में 54 प्रतिशत की कमी की गई।

गैर-परियोजना पूंजीगत लागत के प्रावधान क्षेत्रीय कार्यालयों और चिकित्सा संस्थानों द्वारा प्रस्तावित हैं। वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान की तुलना में परिशोधित प्राक्कलन में 23 प्रतिशत की वृद्धि और वर्ष 2023-24 के वास्तविक आकड़ों की तुलना में 321 प्रतिशत उपकरण, फर्नीचर फिक्स्चर और कंप्यूटर के लिए प्रदान किया जाता है। क.रा.बी.निगम की संशोधित उपकरण नीति के बाद, उपकरणों की खरीद की मांग में वृद्धि हुई है जो चिकित्सा सेवा को प्रभावित करेगी।

भवनों की पूंजीगत लागत के अलावा, प्लिंथ क्षेत्र के आधार पर वार्षिक रखरखाव और मरम्मत के लिए एक यथार्थवादी कार्यप्रदर्शन का अनुमान लगाया गया है।



4. Administrative Costs

The administrative cost as a part of the total income was at 8 percent during the year 2023-24. It is expected to be approximately 9 percent in the current year (2024-2025) and 8 percent in next financial year (2025-2026) mainly due to increased establishment cost on account of pay and allowances and provision in Employees' related Benefit Funds. This is well within the ceiling of 15 percent as prescribed by the Central Government for administrative expenses under Rule 31A.

Administrative cost for Headquarters and field units includes Establishment cost and other costs required to maintain administrative offices. Medical Establishment and cost for running hospitals form a separate part of the medical services cost, not part of administration cost. There is a marginal reduction of, 11 percent in the BE 2025-26, in proportion to RE FY 2023-34, due to the rebalancing of the Employees Benefit Reserve fund (EBRF) under common expenses. This takes place every year, when the actuarial projections are recalculated based on new facts or additional liabilities projected for the future. Required funds are added in case of anticipated shortfalls or booked as actuarial profits in case of excess. This does not affect the corpus amount as it moves from the reserved to the general (in case excess of funds) category or vice versa (in case of insufficient funds).

In other administrative expenses, though there is a reduction by 22 percent in the RE 2024-25 from the BE 2024-25, there is a rise from the actuals of FY 2023-24 by 59 percent, mostly attributed to higher provisions for training, Repairs and maintenance of office and staff quarters, advertisement and publicity, Swachhta, Rent, Housekeeping services, Travelling and conveyance charges of Committees and employees, and other utility and statutory dues.

Bank Charges have been reviewed. Fresh agreements have been signed with all partner banks to reduce the collection rate to **Nil** charges which will impact the RE 2024-25 provisions by 82 percent reduction as against BE 2024-25.

5. Capital Costs

The PMD Division has projected a reduction in the RE 2024-25 from the BE 2024-25 in the Capital projects by 59 percent. A review was carried out by PMD Division to leave out projects where land allocation is not yet confirmed and where work has not started. Similarly, project proposals from field units for Special Repairs were reduced by 54 percent after screening of justification by PMD.

Provisions for Non-project Capital costs are proposed by the Regional Offices and Medical institutions. Increase of 23 percent in the RE compared to BE 2024-25 and 321 percent compared to actuals of 2023-24 is provided for equipment, furniture fixtures, and computers. Following the revised equipment policy of the ESIC, there is an increase in the demand for procurement of equipment's which will impact the medical care service delivery.

Besides Capital cost of buildings, a realistic projection for annual maintenance and repairs have been projected based on the plinth area.



6. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी)

संबंधित प्रशासनिक शीर्ष के तहत आईटी संसाधनों, रखरखाव और बुनियादी ढांचे पर व्यय के लिए क्षेत्रीय इकाइयों (प्रशासनिक और चिकित्सा) के लिए परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2024-25 में ₹.10527 लाख और बजट अनुमान वर्ष 2025-26 में ₹.7132 लाख की राशि आवंटित की गई है। पंचदीप 1.0 की लागत को चिकित्सा और प्रशासनिक लागत में विभाजित किया गया है। पंचदीप 2.0 के लिए परियोजना प्रबंधन के लिए एक परामर्श इकाई को काम पर रखा गया है। अनुबंध की शर्तों के अनुसार संशोधित अनुमानों 2024-25 में ₹.883 लाख का आवंटन शामिल है, जबकि 2025-26 के बजट अनुमानों में यथानुपात आधार पर ₹.805 लाख का प्रावधान किया गया है।

7. क.रा.बी. योजना का विस्तार

क.रा.बी. योजना का काफी विस्तार हुआ है, जिसमें 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। 31 अगस्त, 2024 तक, यह 674 जिलों तक फैला हुआ है, जिसमें 571 पूरी तरह से अधिसूचित और 103 आंशिक रूप से अधिसूचित जिले शामिल हैं, जो जिला मुख्यालय और औद्योगिक केंद्रों पर केंद्रित हैं, जबकि 104 जिले गैर-अधिसूचित हैं। चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, क.रा.बी.यो. व्याप्ति में तेजी लाने के लिए राज्यों के साथ सहयोग करता है और प्राथमिक एवं द्वितीयक सेवाओं को बढ़ाने के लिए चिकित्सा देखभाल को पूरक बनाता है। प्रशासनिक उपस्थिति की स्थापना और क.रा.बी.नि. संपर्क बिंदुओं जैसे उप क्षेत्रीय कार्यालयों, शिविर कार्यालयों, शाखा कार्यालयों, डीसीबीओ के माध्यम से व्याप्ति को विस्तार देने की योजना बनाई गई है और जहां वर्तमान में अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं हैं वहाँ पीएचसी, सीएचसी, पीएमजेएवाई के साथ अनुबंध के माध्यम से चिकित्सा व्याप्ति को और विस्तार देने की योजना बनाई गई है।



6. Information and Communication Technology (ICT)


A sum of ₹ 10527 Lakhs in RE 2024-25 and ₹ 7132 Lakhs in BE 2025-26 have been allocated for field units (Administrative and medical) for expenditure on IT resources, maintenance and infrastructure under respective administrative heads. Costs towards Panchdeep 1.0 are apportioned to Medical and Administrative cost. A consulting entity for the project management for Panchdeep 2.0 has been hired. In accordance with the terms of the contract the Revised Estimates 2024-25 includes an allocation of ₹ 883 lakh, while the Budget Estimates for 2025-26 has provisioned ₹ 805 lakhs.

7. Expansion of ESI Scheme


The ESI Scheme has expanded significantly, covering 36 states and Union Territories. As of August 31, 2024, it extends to 674 districts, including 571 fully notified and 103 partially notified districts, focusing on district headquarters and industrial hubs, while 104 districts remain non-notified. ESIC collaborates with states to accelerate coverage, given health is a state subject, and supplements medical care to enhance primary and secondary services. Further expansion of Coverage has been planned through establishment of administrative presence and ESIC touch points, i.e. Sub Regional Offices, Camp offices, Branch offices, DCBOs and medical coverage through tie ups with PHCs, CHCs, PMJAY where there are insufficient medical facilities currently.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026



चित्र सं 01 : व्यय अंश



चित्र सं 02 : राजस्व का अंश




Figure No.1: Share of Expenditure




Figure No.2: Share of Revenue



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

क.रा.बी. निगम - बजट एक नज़र में					
लेखा शीर्ष	वास्तविक 2023 -2024	बजट प्राक्कलन 2024 -2025	परिशोधित प्राक्कलन 2024 -2025	बजट प्राक्कलन 2025 -2026	
क. राजस्व प्राप्तियां					(₹ लाखों में)
i)	अंशदान	1831518.45	2296800.00	2018700.00	2220600.00
ii)	निगम द्वारा प्रारम्भ में चिकित्सा हितलाभ पर किये गए खर्च में राज्य सरकारों का हिस्सा।	0.00	0.00	0.00	0.00
iii)	क्षतिपूर्ति	0.00	0.00	0.00	0.00
iv)	ब्याज	743296.15	791134.00	814346.00	873735.00
v)	किराया, दरें और कर	7409.12	24786.00	7600.00	8300.00
vi)	शुल्क, जुर्माना और ज़ब्ती	5381.54	6150.00	6150.00	6150.00
vii)	चिकित्सा शिक्षा प्राप्तियां	6566.74	7100.00	7100.00	7100.00
viii)	विविध	31029.46	4500.00	4500.00	4500.00
	कुल राजस्व प्राप्ति:	2625201.46	3130470.00	2858396.00	3120385.00
ख	राजस्व व्यय				
क	हितलाभ				
i)	चिकित्सा हितलाभ :	1273990.04	1638029.00	1552986.01	1781054.45
ii)	नकद हितलाभ :	308283.21	256680.00	304936.00	254598.00
iii)	अन्य हितलाभ :	257.92	290.00	380.00	390.00
	कुल हितलाभ :	1582531.18	1894999.00	1858302.01	2036042.45
ख)	प्रशासनिक व्यय	205419.33	257823.00	245005.00	252781.20
ग)	पूँजीगत निर्माण के लिए प्रावधान	18315.00	0.00	20187.00	22206.00
	कुल राजस्व व्यय (क+ख+ग)	1806265.51	2152822.00	2123494.01	2311029.65
ग	पूँजीगत व्यय				(₹ लाखों में)
i)	निगम के कार्यालय (कर्मचारी क्वार्टरों सहित)	932.60	10523.00	3613.00	8225.00
ii)	अस्पताल एवं औषधालय	114384.70	331090.00	152972.00	303442.00
iii)	चिकित्सा शिक्षा परियोजनाएं	1752.83	56205.00	6552.00	20018.00
iv)	अन्य परिसंपत्तियां	18017.00	62331.00	76899.00	92941.00
	कुल पूँजीगत व्यय	135087.13	460149.00	240036.00	424626.00
	कुल व्यय (ख+ग)	1941352.64	2612971.00	2363530.01	2735655.65
	राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व आय की अधिकता (क-ख)	818935.95	977648.00	734901.99	809355.35

Financial Estimates and Performance Budget 2025-2026



सत्यमेव जयते



E.S.I.C. - BUDGET AT A GLANCE					
	Head of Account	Actuals 2023-2024	Budget Estimates 2024-2025	Revised Estimates 2024-2025	Budget Estimates 2025-2026
A. REVENUE RECEIPTS					(₹ in Lakhs)
i)	Contribution	1831518.45	2296800.00	2018700.00	2220600.00
ii)	State Govts. Share towards medical benefit initially incurred by the Corporation.	0.00	0.00	0.00	0.00
iii)	Compensation	0.00	0.00	0.00	0.00
iv)	Interest	743296.15	791134.00	814346.00	873735.00
v)	Rent, Rates & Taxes	7409.12	24786.00	7600.00	8300.00
vi)	Fees, Fines & Forfeiture	5381.54	6150.00	6150.00	6150.00
vii)	Medical Education Receipts	6566.74	7100.00	7100.00	7100.00
viii)	Miscellaneous	31029.46	4500.00	4500.00	4500.00
	TOTAL REVENUE RECEIPT:	2625201.46	3130470.00	2858396.00	3120385.00
B. REVENUE EXPENDITURE					
a) BENEFITS:					
i)	Medical Benefits:	1273990.04	1638029.00	1552986.01	1781054.45
ii)	Cash Benefits:	308283.21	256680.00	304936.00	254598.00
iii)	Other Benefits:	257.92	290.00	380.00	390.00
	Total Benefits:	1582531.18	1894999.00	1858302.01	2036042.45
b)	ADMINISTRATIVE EXPENDITURE	205419.33	257823.00	245005.00	252781.20
c)	Provision for Capital Construction	18315.00	0.00	20187.00	22206.00
	TOTAL REVENUE EXPENDITURE (a+b+c)	1806265.51	2152822.00	2123494.01	2311029.65
C CAPITAL EXPENDITURE					(₹ in Lakhs)
i)	Offices of the Corporation (with staff quarters)	932.60	10523.00	3613.00	8225.00
ii)	Hospitals & Dispensaries	114384.70	331090.00	152972.00	303442.00
iii)	Medical Education Projects	1752.83	56205.00	6552.00	20018.00
iv)	Other Assets	18017.00	62331.00	76899.00	92941.00
	TOTAL CAPITAL EXPENDITURE	135087.13	460149.00	240036.00	424626.00
	TOTAL EXPENDITURE (B+C)	1941352.64	2612971.00	2363530.01	2735655.65
	EXCESS OF REVENUE INCOME OVER REVENUE EXPENDITURE (A-B)	818935.95	977648.00	734901.99	809355.35



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

वर्ष 2024-2025 के परिशोधित प्राक्कलन और वर्ष 2025-2026 के बजट प्राक्कलन हेतु स्पष्टीकरण ज्ञापन

वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम की प्राप्तियों और व्यय के बजट प्राक्कलन को बजट और लेखा उप-समिति और स्थायी समिति द्वारा क्रमशः 29.01.2024 और 31.01.2024 को अनुमोदित किया गया। इन प्राक्कलनों को क. रा. बी. निगम द्वारा दिनांक 09.02.2024 और 10.02.2024 को आयोजित 193वीं बैठक में अंगीकृत किया गया। केंद्र सरकार ने दिनांक 13.03.2024 के अपने पत्र संख्या जी-20017/02/2023-एसएस-1 माध्यम से बजट को मंजूरी दी।

वर्ष 2024-2025 का परिशोधित प्राक्कलन और 2025-2026 के बजट प्राक्कलन निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं: -

8 राजस्व आय

8.1 अंशदान आय

- I. नियोक्ता और कर्मचारी के अंशदान का भुगतान कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 51 द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार नियोक्ता द्वारा किया जाएगा। वर्ष 2023-2024 के लिए नियोक्ता के अंशदान की दर कर्मचारी को देय वेतन का 3.25 प्रतिशत और कर्मचारी का अंशदान 0.75 प्रतिशत है, जो 01.07.2019 से लागू है। वर्तमान में रु 176/- प्रतिदिन तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को उक्त नियमावली के नियम 52 के तहत, दिनांक 06.09.2019 से उनके अंशदान के भुगतान से छूट दी गई है, प्रभावी अंशदान की दर समान होगी अर्थात् कर्मचारी को देय वेतन का 4 प्रतिशत।
- II. वर्ष 2024-2025 के पहले छह महीनों के दौरान देखे गए रुझानों को ध्यान में रखा गया है।
- III. वर्ष 2024-2025 के दौरान बकाया वसूली के लिए 123500 लाख का लक्ष्य था और 04/2024 से 09/2024 की अवधि की वास्तविक प्राप्ति 23361 लाख है।

8.2 ब्याज आय

- I. इसमें कर्मचारी राज्य बीमा सामान्य आरक्षित निधि, आकस्मिकता आरक्षित निधि और पूजीगत निर्माण आरक्षित निधि के निवेश पर ब्याज से अर्जित आय शामिल है। चिह्नित आरक्षित निधि पर ब्याज संबंधित आरक्षित निधि के तहत आवंटित और दर्ज किया जाता है।
- II. वर्ष 2023-2024 के वास्तविक प्राक्कलन में पिछली अवधि की मदों को शामिल नहीं किया गया है।

8.3 क्षतिपूर्ति

यदि किसी राज्य में बीमाकृत व्यक्तियों को बीमारी हितलाभ भुगतान की घटना दर अखिल भारतीय औसत के 150 प्रतिशत से अधिक पाई जाती है और बीमारी हितलाभ दिनों की औसत संख्या 3 दिनों से अधिक है तो ऐसे व्यय की राशि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 58 (2) के तहत एक समझौते द्वारा यथा निर्धारित राज्य सरकार और निगम के बीच साझा की जाती है, चूंकि बीमारी हितलाभ की घटना दर निर्धारित सीमा के भीतर थी, इसलिए वर्ष 2024-25 के परिशोधित प्राक्कलन और वर्ष 2025-26 के बजट प्राक्कलन में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।



EXPLANATORY MEMORANDUM TO THE REVISED ESTIMATES FOR THE YEAR 2024-2025 AND THE BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 2025-2026

The Budget Estimates of receipts and expenditure of the Employees' State Insurance Corporation for the financial year 2024-2025 were approved by the Budget & Accounts Sub-Committee and Standing Committee on 29.01.2024 and 31.01.2024 respectively. These estimates were adopted by the ESI Corporation in its 193th meeting held on 09.02.2024 & 10.02.2024. The Central Government approved the Budget vide their letter No. G-20017/02/2023-SS-I dated 13.03.2024.

The Revised Estimates for 2024-2025 and Budget Estimates for 2025-2026 have been prepared considering the following: -

8 Revenue Income

8.1 Contribution Income

- I. Employer's and employee's shares of contribution are payable by the employers as per the rates prescribed by Rule 51 of the Employees State Insurance (Central) Rule, 1950. For the year 2023-2024, the rate of employer's contribution is 3.25 percent of the wages payable to an employee and the employee's contribution of 0.75 percent effective from 01.07.2019. Employees drawing wages up to ₹ 176/- per day are presently exempted from payment of their contribution, under Rule 52 of the ibid Rules, effective from 06.09.2019, the rate of contribution shall be same i.e., 4 percent of the wages payable to an employee.
- II. Trends noticed during the first six months of 2024-2025 have been taken into consideration.
- III. Target of ₹ 123500 Lakhs for Recovery of arrear during 2024-2025 and actual receipt of ₹ 23361 lakhs for the period 04/2024 to 09/2024.

8.2 Interest Income

- I. This includes income earned from interest on the investment of the E.S.I. General Reserve, Contingency Reserve Fund, and Capital Construction Reserve Fund. Interest on Earmarked Reserve Funds is allocated and recorded under the respective Earmarked Reserve Funds.
- II. Prior period items are not included in the actuals 2023-2024.

8.3 Compensation

Where the incidence of sickness benefits payment to Insured Persons in any state is found to exceed 150 percent of the all India Average and the average number of sickness benefit days in that state is more than 3 days, the amount of such expense is shared between the State Government and the Corporation as may be fixed by an Agreement, U/S 58 (2) of E.S.I. Act. As incidence of sickness benefit was within the prescribed limit, no provision has been made in the Revised Estimates 2024-2025 and Budget Estimates 2025-2026.



8.4 किराया, दरें और कर

किराए, दरें और कर (i) कार्यालय भवनों (कर्मचारी क्वार्टरों सहित), और (ii) अस्पतालों और औषधालयों (कर्मचारी क्वार्टरों सहित) के लिए वसूली योग्य हैं। निगम के स्वामित्व वाले अस्पताल और डिस्पेंसरी भवनों का किराया साझा करने योग्य व्यय का हिस्सा है लेकिन सीमा से बाहर है। तदनुसार, कार्यालय भवनों और कर्मचारी क्वार्टरों के संबंध में किराए के अलावा संशोधित अनुमान 2024-2025 और बजट अनुमान 2025-26 में किराए की आनुपातिक कटौती पर विचार किया गया है।

8.5 राज्य सरकार का हिस्सा

दिल्ली में, जहां योजना को सीधे क.रा.बी. निगम द्वारा प्रशासित किया जाता है, चिकित्सा देखभाल पर संपूर्ण व्यय प्रारंभ में निगम द्वारा किया गया और बाद में दिल्ली सरकार के साथ साझा रखा गया। क.रा.बी. निगम द्वारा वहन की जा सकने वाली राशि से अधिक होने पर व्यय बाद में दिल्ली सरकार से वसूली योग्य है। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 1989-90 तक चिकित्सा देखभाल तथा यह सीमा से अधिक होने पर खर्च का 1/8 हिस्सा साझा और भुगतान कर रही थी। 1990-91 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने यह कहते हुए अपने हिस्से का भुगतान नहीं किया कि वे समझौते के अभाव में सीमा से परे खर्च का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से वसूल की जाने वाली राशि ₹ 348389 लाख है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से वसूली की राशि का निर्धारण वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद विभिन्न अस्पतालों से प्राप्त व्यय विवरणों के आधार पर किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, विभिन्न अस्पतालों से व्यय विवरण 28.10.2024 तक प्राप्त किए गए हैं और इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से वसूली जाने वाली राशि की गणना प्रगति पर है।

8.6 शुल्क, जुर्माने और जब्तियाँ

यह शीर्षक उन हर्जानों की प्राप्तियों को शामिल करता है जो नियोक्ताओं पर उनके द्वारा समय पर निगम को अंशदान न का भुगतान नहीं करने के कारण लगाया गया है, जिसमें नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का हिस्सा शामिल है।

8.7 चिकित्सा शिक्षा प्राप्तियाँ

चिकित्सा शिक्षा की प्राप्तियाँ छात्रों द्वारा दी गई फीस को शामिल करती हैं, जैसे ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस और चिकित्सा शिक्षा के लिए प्राप्त कोई अन्य राशि।

8.8 विविध प्राप्तियाँ

इनमें अनुलिपि (डुप्लिकेट) पहचान पत्रों की लागत, छुट्टी वेतन और पेंशन योगदान की वसूली, अदालती मुकदमों की लागत की वसूली जिसमें अदालतों द्वारा दी गई डिक्रियों की राशि शामिल है, अन्य मौजूदा शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं की जा सकने वाली प्राप्तियाँ, अधिक भुगतान और लेखा परीक्षा द्वारा गैर-देयता (डिस अलॉउंस) की वसूली, और पिछले वर्षों में सेवा व्ययों के खर्च की वसूलियाँ नगद हितलाभों की वसूलियाँ, भर्ती के लिए आवेदकों द्वारा जमा किए गए शुल्क, क.रा.बी.निगम कर्मचारियों के चिकित्सा लाभ के लिए योगदान आदि।



8.4 Rent, Rates and Taxes

Rents, Rates and Taxes are recoverable for (i) Office buildings (including staff quarters), and (ii) Hospitals and dispensaries (including staff quarters). The rent for hospital and dispensary buildings owned by the Corporation forms part of the shareable expenditure but outside the ceiling. Accordingly, proportionate deduction of rent has been considered in Revised Estimates 2024-2025 and Budget Estimates 2025-26 besides rent in respect of Office buildings and staff quarters.

8.5 State Govt. Share

In Delhi, where the Scheme is directly administered by the E.S.I. Corporation, the entire expenditure on medical care was incurred initially by the Corporation and subsequently sharable with Government of Delhi. Expenditure incurred beyond the amount bearable by ESIC is recoverable from the Government of Delhi. The Govt. of NCT of Delhi had been sharing and paying 1/8th share of expenditure on medical care plus expenses incurred over and above the ceiling up to the year 1989-90. From the year 1990-91 the Govt. of NCT of Delhi did not pay their share on the plea that they are not liable to pay the expenditure beyond the ceiling in the absence of agreement. Amount to be recovered from GNCTD for their share till the FY 2022-23 is ₹ 348389 lakhs Calculation of amount recoverable from GNCTD is done after the financial year is over, based on the expenditure statements received from various hospitals. For the FY 2023-24, the expenditure details from various hospitals have been received till 28.10.2024 and thus, calculation of amount recoverable from GNCTD for the financial year 2023-24 is under process.

8.6 Fees, Fines & Forfeitures

This Head includes receipts on account of damages levied on the employers due to their failure to pay contribution, both employers' and employees' share, to the Corporation in time.

8.7 Medical Education Receipts

Medical education receipts include the fee paid by the students, like tuition fee, hostel fee and any other amount received on account of medical education.

8.8 Miscellaneous Receipts

These include receipts on account of cost of duplicate identity cards, recoveries of leave salary and pension contributions, recovery of cost of law suits including amounts of decrees by courts, receipts which cannot be classified under the other existing heads, recoveries of over-payments and dis-allowance in audit; recoveries of service expenditure incurred in previous years and recoveries of cash benefits, fees deposited by the applicants for recruitment, contribution towards medical benefit of ESI Employees and any actuarial gain after the annual re-balancing of the reserved funds created for IP and employee benefits.



9 व्यय

9.1 चिकित्सा हितलाभ

9.1.1 राज्य सरकार को भुगतान

‘चिकित्सा हितलाभ’ शीर्षक के तहत व्यय, दिल्ली और नोएडा (उ.प्र.) में स्थित औषधालयों के अलावा जहां योजना का प्रबंधन सीधे निगम द्वारा किया जाता है, व्यय निगम और संबंधित राज्य सरकारों के बीच निर्धारित अनुपात 7:1 में साझा किया जाता है।

राज्य सरकारों को क.रा.बी.निगम लाभार्थियों के लिए चिकित्सा सेवाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान करने में सुविधा प्रदान करने के लिए, निगम ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रति वर्ष 3,000/- की सीमा पर प्रतिपूर्ति को मंजूरी दी है। सीमा विवरण इस प्रकार है:

क्रम संख्या	शीर्षक	बजटीय सीमा
(i)	मानक चिकित्सा देखभाल: □ 1,300/- प्रति खर्च ‘प्रशासन’ और ‘अन्य’ पर 2 किस्तों में 45 प्रतिशत तक जारी किए जाते हैं जबकि 10 प्रतिशत शेष राशि ऑडिट प्रमाणन के बाद फंड निपटान के दौरान जारी की जाएगी।	₹ 2,600/- प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रति वर्ष
(ii)*	सेवाओं को बढ़ाने के लिए परियोजना कार्यान्वयन योजना	₹ 200/- प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रति वर्ष
(iii)*	क.रा.बी.योजना अस्पतालों और औषधालों में क.रा.बी.निगम आईटी मॉड्यूल ‘धनवंतरी’ के कार्यान्वयन के स्तर के आधार पर यथा-अनुपात भुगतान।	₹ 200/- प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रति वर्ष

*राज्य क.रा.बी योजना/सामाजिक संस्थाओं को मार्गदर्शिकाओं का अनुपालन करते हुए अपनी प्रस्ताव/दावों को प्रस्तुत करना होगा।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों को यह भी अधिकृत किया गया है कि वे ₹ 200/- प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रति वर्ष प्रोत्साहन के रूप में, □ 3,000/- प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रति वर्ष की सीमा के ऊपर, उस वर्ष के दौरान उन उस राज्य क.रा.बी.योजना अस्पतालों के लिए दावा कर सकते हैं जहां बिस्तर अधिभोग 70 प्रतिशत से अधिक हों और ₹ 20/- प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रति वर्ष निवारक और प्रोत्साहक व स्वास्थ्य सेवाओं के तहत व्यय के रूप में दावा कर सकते हैं।

बजटीय अनुमान

प्रत्येक वित्तीय वर्ष, ‘ऑन अकाउंट’ भुगतान के तहत निधियों का आवंटन क.रा.बी. निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों को आंबटन किया जाता है ताकि वे राज्य क.रा.बी. योजनाओं/सोसायटियों को प्रति द्वि-वार्षिक किस्तों की गणना कर व जारी कर सकें।

गणना के तरीके

राज्य क.रा.बी. योजनाओं/सोसायटियों का प्रारंभिक बजट आवंटन पिछले तीन वित्तीय वर्षों में प्रति बीमाकृत व्यक्ति वास्तविक व्यय के औसत के आधार पर परिगणित किया जाता है। प्रति बीमाकृत व्यक्ति का वास्तविक व्यय का यह औसत 10 प्रतिशत, जो मुद्रास्फीति की लागत और बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, अधिकतम सीमा पर, जो उपरोक्त तालिका के (i) में सूचीबद्ध है, के अनुसार बढ़ाया जाता है।

राज्य सरकारें व्यय के लिए अतिरिक्त निधि की मांग कर सकती हैं जिसके साथ व्यय का समुचित कारण हो तथा साथ ही उपयोग प्रमाण पत्र वर्तमान वर्ष का 31 अक्टूबर तक का भी हो। संशोधित बजटीय अनुमान क.रा.बी निगम द्वारा अनुमोदित किया गया है।

पूर्ण एवं अंतिम निपटान

व्यय पर बचे हुए 10 प्रतिशत राशि की गणना ‘पूर्ण एवं अंतिम’ निपटान के बाद संबंधित लेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखा-परीक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त करने पर जारी किया जाता है, जो अनिवार्य है।



9 Expenditure

9.1 Medical Benefit

9.1.1 Payment to State Government

The expenditure under the Head 'Medical Benefit', except in Delhi and dispensaries in Noida (U.P.) where the Scheme is directly administered by the Corporation, is shared between the Corporation and the concerned State Governments in the prescribed ratio of 7:1 up-to the ceiling.

In order to facilitate State Governments for making adequate provision of medical services to ESI beneficiaries, the Corporation has approved the reimbursement at a ceiling rate of ₹3,000/- per IP per annum w.e.f. FY 2021-22. The ceiling structure is as under:

Sl. No.	Head	Budgetary Ceiling
(i)	Standard Medical Care: ₹1,300/- each for expenditure on 'Administration' & 'Others' released in 2 installments upto 45 percent each while 10 percent residuary amount to be released during fund settlement after Audit Certification.	₹2,600/- per IP per annum
(ii)*	Project Implementation Plan for enhancing services	₹200/- per IP per annum
(iii)*	Pro-rata payment based on the extent of implementation of ESIC IT module 'Dhanwantri' in ESIS hospitals and dispensaries.	₹200/- per IP per annum

**State ESI Scheme/Society has to submit their proposals/claims duly complying with the guidelines.*

In addition, State Governments are also authorised to claim ₹200/- per IP per annum as incentive, beyond the ceiling of ₹3,000/- per IP per annum, where the bed occupancy in all the State ESI hospitals is more than 70 percent during the concluded financial year and ₹20/- per IP per annum for expenditure under Preventive & Promotive Health Services.

Budgetary Estimation

Each financial year, allocation of funds under 'On Account' payment is communicated to Regional Offices of ESI Corporation for calculations & release of bi-annual instalments to State ESI Schemes / Societies.

Calculation Modalities

Initial Budget allocation of State ESI Schemes/Societies is calculated based on the average actual per IP expenditure incurred during previous three financial years. This average of actual per IP expenditure is enhanced by 10 percent taking into consideration cost of inflation and increase in nos. of IPs, subject to the maximum ceiling enumerated at (i) of the Table above.

State Governments can further demand additional fund up to the ceiling with justification of expenditure and utilization certificate by 31st October of the current year. The Revised Budgetary Estimates is approved by the ESI Corporation.

Full & Final Settlement

The calculation of residuary 10 percent amount on expenditure is released after the 'Full & Final' settlement on receipt of the Audit Certificate duly issued by respective Accountant General, which



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

छमाही किस्तों को जारी करने का कार्य मुख्यालय द्वारा बजट आवंटन प्राप्त करने के बाद संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा संसाधित किया जाता है।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए विशेष वित्तीय प्रावधान (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, जिसमें असम के अलावा सिक्किम भी शामिल है)

क.रा.बी. निगम ने 19-20 फरवरी, 2023 को आयोजित 190वीं बैठक में उत्तर-पूर्वी राज्यों की भौगोलिक, जनसांख्यिकीय, सामाजिक, औद्योगिक और वाणिज्यिक चुनौतियों पर विचार किया और ऑन अकाउंट पेमेंट के तहत कुछ रियायतों को अनुमोदित किया जो निम्नानुसार है :-

1. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 100 प्रतिशत व्यय की ऊपरी सीमा क.रा.बी. निगम द्वारा पांच साल की अवधि के लिए या जब तक बीमाकृत व्यक्ति की जनसंख्या 50,000 तक नहीं पहुंचती, जो भी पहले हो। निगम द्वारा वहन की जाएगी,
2. अतिरिक्त वित्तीय सहायता (एएफए) की मात्रा ₹ 40 लाख प्रति औषधालय के अनुसार से वित्तीय वर्ष 2023-24 से पांच वर्षों के लिए बढ़ाई गई है।
3. लचीली प्रशासनिक उप-सीमा अधिकतम ₹ 1,800/- प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रति वर्ष की सीमा के साथ, 2022-23 में ऊपर तालिका में (i) में उल्लिखित की गई हैं।

ऊपर बताए गए भुगतान के अलावा, राज्य सरकारों को 'ऑन अकाउंट नीति' के तहत, क.रा.बी निगम अन्य खर्च भी उठाता है, जैसे क.रा.बी.योजना अस्पतालों और औषधालयों के लिए विशेष मरम्मत और रखरखाव, प्रोजेक्ट पंचदीप के तहत कंप्यूटर और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद और रखरखाव, आदि, इसके अलावा पूंजी अवसंरचना प्रदान की जाती है।

9.1.2 व्यवसाय जनय रोग केन्द्र

निगम ने क.रा.बी अस्पताल, के.के. नगर, चेन्नई (तमिलनाडु), क.रा.बी. अस्पताल जोका (पश्चिम बंगाल), क.रा.बी अस्पताल अंधेरी (मुंबई), क.रा.बी. अस्पताल इंदौर (मध्य प्रदेश), क.रा.बी अस्पताल अलवर (राजस्थान), क.रा.बी अस्पताल बिहटा (पटना) और क.रा.बी. अस्पताल, बसईदारापुर (दिल्ली) में व्यवसाय जनय रोग केन्द्र स्थापित किए हैं।

9.1.3 मॉडल अस्पताल और क.रा.बी योजना अस्पताल तथा क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय

क.रा.बी. निगम ने दिनांक 14.12.2001 को अपनी बैठक में प्रत्येक राज्य में मॉडल अस्पताल स्थापित करने का निर्णय लिया, ताकि चिकित्सा देखभाल की गुणवत्ता में सुधार हो सके और राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों के लिए मानदंड भी बन सके। इस निर्णय के अनुसार, प्रत्येक राज्य में कम से कम एक अस्पताल का अधिग्रहण किया गया या राज्य में एक नया अस्पताल बनाया गया, जिसका क.रा.बी.निगम मॉडल अस्पताल के रूप में संचालन क.रा.बी.निगम द्वारा किया जाना तय किया गया। मॉडल अस्पतालों के अलावा, निगम ने कुछ राज्य अस्पतालों का अधिग्रहण किया है/राज्यों में नए अस्पतालों का निर्माण किया है और इन्हें सीधे क.रा.बी.निगम द्वारा चलाया जा रहा है। चिकित्सा शिक्षा संस्थानों के लिए जारी व्यय (ऑनगोइंग) के अनुसार बजट प्रदान किया गया है जिससे उन्हें उत्कृष्टता के केंद्र बनाया जा सके और क.रा.बी.योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।

9.1.4 अति विशिष्टता उपचार (सुपर स्पेशियलिटी ट्रीटमेंट) :-

क.रा.बी.निगम 2836 टाई-अप अस्पतालों (टीयूएच) के माध्यम से सुपर स्पेशियलिटी उपचार सेवाएँ प्रदान कर रहा है, जहाँ यूटीआई-आईटीएसएल को मई 2017 से बिल प्रकरण (प्रोसेसिंग) एजेंसी (बीपीए) के रूप में लिया गया है। रेफरल धन्वंतरी और यूटीआई मॉड्यूल ऑनलाइन के माध्यम से बनाए जाते हैं। इस पद्धि के माध्यम से भुगतान ऑनलाइन निगरानी में रखे जाते हैं ताकि टाईअप अस्पताल को पारदर्शिता से और समय पर भुगतान मिल सके। बिल पास करने की प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए, ताकि बीमाधारकों को सेवाएँ बाधित न हों, निम्नलिखित पहलों को पहले ही लागू किया गया है: -



is mandatory. Release of bi-annual instalments is processed by the respective Regional Office after receipt of budget allocation by Headquarters.

Special Financial Provision for North-East Region (Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura, including Sikkim except Assam)

ESI Corporation in the 190th meeting held on 19th-20th February 2023 considered the geographical, demographical, social, industrial and commercial challenges of the North-eastern States and has approved certain exemptions under OAP funds as under:

- 1 100 percent expenditure up to the ceiling shall be borne by ESI Corporation w.e.f. FY 2023-24 for a period of five years or till IP population reaches 50,000, whichever is earlier.
- 2 Additional Financial Assistance (AFA) has been extended w.e.f. FY 2023-24 to the tune of ₹40 lakhs per dispensary for five years.
- 3 Flexible administrative sub-ceiling with maximum capping of ₹1,800/- per IP per annum w.e.f. 2022-23 mentioned in (i) of Table above.

Besides above payments to state governments under 'On Account Policy', the ESI Corporation also incurs other expenditure for state government e.g., special repairs and repairs & maintenance of ESIS hospitals and dispensaries, procurement and maintenance of computers and peripherals under Project Panchdeep, etc, besides providing capital infrastructure.

9.1.2 Occupational Diseases Centre

The Corporation has set up Occupational Disease Centers at E.S.I. Hospital, K.K. Nagar, Chennai, (Tamil Nadu), E.S.I. Hospital Joka (W.B.), E.S.I. Hospital Andheri (Mumbai), E.S.I Hospital Indore (M.P.), E.S.I Hospital Alwar (Rajsthan), E.S.I Hospital Bihta (Patna) E.S.I. Hospital, Basaidarapur (Delhi).

9.1.3 Model Hospitals & ESIC Hospitals and ESIC Medical Colleges.

The ESI Corporation in its meeting held on 14.12.2001 decided to set up Model Hospitals in each state, to improve the quality of medical care, and also to serve as a benchmark for the Hospitals run by the State Governments. In accordance with this decision, at least one hospital in a State was taken over or a new hospital was constructed in the State to be run as ESIC Model Hospital. In addition to the model hospitals, the Corporation has taken over some of the State hospitals/constructed new hospitals in the States and they are being run directly by ESIC. Budget is provided for the ongoing expenditure in medical education institutions for making them centers of excellence and to improve the quality of services provided under the ESI Scheme.

9.1.4 Super Speciality Treatment

ESIC is providing SST services through 2836 tie-up hospitals (TUHs) across Pan-India wherein services of UTI-ITSL have been taken on board as a bill processing agency (BPA) since May 2017. Referrals are generated through Dhanwantri and UTI module online. Payments through these systems are being monitored online to bring transparency and timely payment to the TUH. In order to further streamline the process of bill clearance, so that services to Insured Persons are not disrupted, the following initiatives were already implemented: -



- i) भर्ती/रहने/अतिरिक्त प्रक्रियाओं आदि का विस्तार ऑन लाइन रूप से अनिवार्य करना ।
- ii) भर्ती/रहने/अतिरिक्त प्रक्रियाओं के लिए ऑनलाइन अनुमोदन।
- iii) सीधे/आपातकालीन मामलों में नकद रहित चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के लिए टाईअप अस्पताल में भर्ती होने वाले क.रा.बी.योजना लाभार्थियों का फोटो बीपीए (यूटीआई-आईटीएसएल) पोर्टल में अपलोड करने की विशेषताएँ सक्षम करना (अनेबल करना)।
- iv) टाई-अप अस्पतालों में भर्ती होने वाले सभी निर्देशित/आपातकालीन मामलों में क.रा.बी.योजना लाभार्थियों का फोटो बीपीए (यूटीआई-आईटीएसएल) पोर्टल में अपलोड करने की विशेषताएँ सक्षम करना।

9.1.5 निगम के स्वामित्व वाले भवनों की मरम्मत और रखरखाव

क.रा.बी. निगम अपने बुनियादी ढांचे, जिसमें क.रा.बी.योजना/क.रा.बी.निगम अस्पताल, औषधालय और प्रशासनिक भवन शामिल हैं, को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन भवनों की मरम्मत और रखरखाव करना भवनों की सुरक्षा, कार्यक्षमता और दीर्घकालिकता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। मरम्मत और रखरखाव के लिए प्रावधान पिल्थ क्षेत्र मानकों के आधार पर प्रदान किया गया है। क.रा.बी.योजना/क.रा.बी.निगम अस्पतालों और औषधालयों और चिकित्सा महाविद्यालय की मरम्मत और रखरखाव के संबंध में प्रावधान चिकित्सा लाभों के तहत शीर्ष में लिए जाते हैं जबकि कार्यालय भवनों का प्रावधान प्रशासनिक व्यय के तहत शीर्ष में लिया जाता है।

9.1.6 निगम के स्वामित्व वाली इमारतों की विशेष मरम्मत

क.रा.बी.निगम के स्वामित्व वाले भवनों की संरचनात्मक मजबूती और कार्यक्षमता को बनाए रखने के लिए मरम्मतों के लिए बड़े कार्य निगम द्वारा किए जाते हैं। विशेष मरम्मत के लिए प्रावधान कार्य के अनुमानों के आधार पर प्रदान किया गया है और इसे राजस्व खाते के रूप में प्रभारित नहीं किया जाता है। ये राशि संबंधित मूल्यहास आरक्षित निधि से घटौती की जाती हैं।

9.1.7 आईटी रोलआउट पर व्यय

पंचदीप परियोजना की मरम्मत और रखरखाव पर व्यय 2:1 के अनुपात में विभाजित किया गया है और चिकित्सा लाभों और प्रशासनिक व्यय के तहत आर एंड एम-ईआरपी के रूप में प्रावधान किया गया है। परियोजनाओं के अंतर्गत कंप्यूटरों और उपकरणों की खरीद के लिए मांग को गैर-परियोजना वस्तुओं के रूप में पूंजीगत व्यय के रूप में प्रस्तावित किया गया है।

9.2 नकद हितलाभ:

नकद हितलाभ बीमाकृत व्यक्तियों को बीमारियों या कुछ विशेष बीमारियों, मातृत्व, अस्थायी या स्थायी निःशक्कता, जो किसी रोजगार दुर्घटना के कारण उत्पन्न होती है, और यदि बीमाकृत की व्यवसायजन्य रोग या रोजगार दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाती है, तो परिवार के जीवित सदस्य/सदस्यों को आश्रितजन हितलाभ के रूप में भुगतान किया जाता है। अंत्येष्टि व्यय भी पूरे किए जाते हैं। क.रा.बी निगम की 18.09.2018 को आयोजित 175वीं बैठक में अंत्येष्टि व्यय बढ़ाकर मौजूदा ₹ 10,000/- से ₹ 15,000/- कर दिया गया है जो दिनांक 01.05.2019 से बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु होने पर भुगतान किया जाता है। इन हितलाभों के भुगतान की दरें क.रा.बी. (केंद्रीय) नियम, 1950 के नियम 54 से 59 में निर्धारित की गई हैं। क.रा.बी.औषधालय/अस्पतालों के बाहर होने वाले प्रसूति व्यय ₹ 5,000/- से ₹ 7,500/- कर दिए गए हैं जो दिनांक 27.10.2020 से प्रभावी है।



- i) Mandatory Online extension of stay/additional procedures, etc.
- ii) Online approval for extension of stay/additional procedures, etc.
- iii) Enabling features to upload ESI Beneficiary photograph in BPA (UTI-ITSL) portal for all direct/emergency cases admitted in TUH for availing cashless medical treatment.
- iv) Enabling features to upload ESI Beneficiary photograph in BPA (UTI-ITSL) portal for all directions/emergency cases admitted in tie-up hospitals for availing cashless medical treatment.

9.1.5 Repairs and Maintenance of Buildings Owned by The Corporation

The ESI Corporation is responsible for maintaining its infrastructure, including ESIS/ESIC hospitals, dispensaries, and administrative buildings. Repairs and maintenance of these buildings are crucial to ensure their safety, functionality, and longevity. Provision for repairs & maintenance has been provided based on the plinth area norms. Provision in respect of repairs and maintenance of ESIS/ESIC hospitals and dispensaries and medical colleges are booked under medical benefits whereas for office buildings are booked under administrative expenditure.

9.1.6 Special Repairs of Buildings Owned by the Corporation

Major repairs undertaken to restore the structural integrity and functionality of buildings owned by the ESIC. Provision for special repairs is provided based on the estimates of work and are not charged as revenue account. These amounts are deducted from the respective depreciation reserve funds.

9.1.7 Expenditure on IT roll out.

Expenditure on repairs and maintenance of Project Panchdeep is apportioned in 2:1 ratio and provision as R&M-ERP under medical benefits and administrative expenditure respectively. Demand for purchase of computers and peripherals under project projects is proposed as Capital expenditure as Non-Project items.

9.2 Cash Benefits:

Cash benefits are paid to insured persons in adverse contingencies of sickness or extended sickness on account of certain specified diseases, maternity, temporary or permanent disablement arising out of an employment injury and dependents' benefit to the surviving member(s) of the family, if an insured person who dies as a result of an occupational disease or an employment injury. Funeral Expenses are also met. The ESI Corporation in its 175th meeting held on 18.09.2018 had enhanced the Funeral Expenses from existing ₹ 10,000/- to ₹ 15,000/- w.e.f. 01.05.2019 being paid on the death of Insured Person. The rates at which these benefits are payable are prescribed in Rules 54 to 59 of the E.S.I. (Central) Rules, 1950. Confinement expenses taking place outside ESI Dispensaries/hospital from ₹ 5,000/- to ₹ 7,500/- w.e.f. 27.10.2020.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

क.रा.बी.निगम ने 15 दिसंबर, 2023 को आयोजित अपनी 192वीं बैठक में उन मामलों के लिए स्थाई निःशक्तता हितलाभ/आश्रितजन हितलाभ दरों में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जहां 31.12.2021 को या उससे पहले रोजगार चोटों के परिणामस्वरूप मृत्यु/निःशक्तता हुई थी। यह वृद्धि 1 अगस्त, 2022 से प्रभावी है।

क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त मांगों के आधार पर नकद हितलाभ का प्राक्कलन किया जाता है। हालाँकि, स्थाई निःशक्तता हितलाभ, आश्रितजन हितलाभ और क.रा.बी.निगम कोविड राहत योजना के मामले में, प्राक्कलन की गणना इन नकद हितलाभों के भुगतान के लिए निर्धारित आरक्षित निधियों की बीमांकिक मूल्यांकन आवश्यकता के आधार पर की जाती है। किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए आरक्षित निधि को राजस्व व्यय के रूप में लिया जाता है। वास्तविक भुगतान को प्रत्येक वर्ष संबंधित निधि के तहत समायोजित किया जाता है।

9.2.1 राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना

यह योजना उन बीमाकृत व्यक्तियों को चिकित्सा हितलाभ के साथ-साथ औसत दैनिक मजदूरी के 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम 6 महीने की अवधि तक बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के लिए है, जो कारखाना बंद होने, छंटनी या गैर-रोजगार चोट के कारण 50 प्रतिशत निःशक्तता (17.01.2008 से 40 प्रतिशत विकलांगता) के कारण बेरोजगार हो जाते हैं। यह योजना 1 अप्रैल, 2005 से लागू हुई। ऐसे बीमाकृत व्यक्ति (बीमाकृत व्यक्ति) 6 महीने (06.09.2016 से 1 वर्ष) के व्यावसायिक पुनर्वास कौशल विकास पाठ्यक्रम के लिए डीजीईटी-अनुमोदित उन्नत व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (एवीटीआई) में स्वयं को नामांकित कर सकते हैं। संस्थान द्वारा लिए जाने वाले पूरे शुल्क का वहन निगम द्वारा किया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बीमाकृत व्यक्ति के आने-जाने के रेल/बस किराए की भी क.रा.बी.निगम द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है।

प्रारंभ में, योजना के तहत हितलाभ के लिए पात्र बनने के लिए, एक बीमाकृत व्यक्ति को रोजगार के नुकसान से पहले कम से कम 5 साल की अवधि के लिए अंशदान का भुगतान करना आवश्यक था। इसके बाद, इसे 11.09.2009 से 3 साल और 06.09.2016 से 2 साल तक घटा दिया गया।

भत्ते की अवधि को 01.02.2009 से बेरोजगारी की तारीख से जीवनकाल में एक बार 6 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दिया गया और आगे इस तरह से 24 महीने तक बढ़ा दिया गया अर्थात् 0-12 महीने के दौरान मजदूरी का 50 प्रतिशत और 13-24 महीने के दौरान मजदूरी का 25 प्रतिशत दिनांक 06.09.2016 से प्रभावी है।

9.2.2 अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) कर्मचारी राज्य बीमा (क.रा.बी.) अधिनियम, 1948 के तहत व्याप्त कर्मचारियों के लिए एक कल्याणकारी उपाय है, जो बीमाकृत व्यक्तियों (आईपी) की बेरोजगारी की आकस्मिकता में श्रमिक के जीवनकाल में एक बार 90 दिनों तक नकद मुआवजे के रूप में प्रदान किया जाता है।

यह योजना 01.07.2018 को लागू हुई और 01.07.2020 से 30.06.2021, 01.07.2021 से 30.06.2022 और 01.07.2022 से 30.06.2024 तक तीन बार विस्तारित की गई ताकि उन बीमाकृत व्यक्तियों को राहत प्रदान की जा सके जो कोविड-19 महामारी के दौरान 24.03.2020 से प्रभावी छूट वाली पात्रता और अन्य शर्तों के साथ बेरोजगार हो गए।

हाल ही में, निगम ने मौजूदा छूट वाली पात्रता शर्तों के साथ अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) को दो साल की अवधि यानी 01.07.2024 से 30.06.2026 तक के लिए विस्तारित करने को मंजूरी दी है।

योजना की पात्रता और अन्य शर्तों में 24.03.2020 से निम्नानुसार शिथिलता दी गई है: -



The ESI Corporation in its 192nd meeting held on 15th December, 2023 has approved the proposal for increase in the PDB/DB rates for cases where the employment injuries resulting in death/disablement on or before 31.12.2021. The increase is effective from 1st August, 2022.

Cash benefits are estimated based on the demands received from the field offices. However, in case of PDB, DB and ESIC Covid Relief Scheme, the projections are calculated based on the actuarial evaluation requirement of these earmarked reserved funds to be maintained for payments of these cash benefits. Funds reserved for a specific purpose is charged as revenue expenditure. The actual pay outs are adjusted against the respective funds every year.

9.2.1 Rajiv Gandhi Shramik Kalyan Yojna

A scheme to provide medical benefits as well as unemployment allowance at the rate of 50 percent of average daily wages up to a maximum period of 6 months to the Insured Persons who becomes unemployed due to the closure of factory, retrenchment or 50 percent of disability (40 percent disability w.e.f. 17.01.2008) arising out of non-employment injury. The scheme came into force w.e.f. April 1, 2005. Such Insured Persons (IP) can enrol himself or herself in the DGET-approved Advanced Vocational Training Institute (AVTI) for vocational rehabilitation skill development course of 6 months (1-year w.e.f. 06.09.2016). The entire fee charged by the institution is drawn by the corporation. To and fro rail/bus fare to IP for attending training program is also reimbursed by ESIC.

Initially, to become eligible for the benefit under the scheme, an IP was required to pay contribution for a minimum period of 5 years prior to the loss of employment. Further, it was reduced to 3 years w.e.f. 11.09.2009 and 2 years w.e.f. 06.09.2016.

The duration of allowance was extended from 6 months to 12 months once in a lifetime from the date of Unemployment w.e.f. 01.02.2009 and further extended to 24 months in such a manner i.e. 50 percent of wages during 0-12 months and 25 percent of wages during 13-24 months w.e.f. 06.09.2016.

9.2.2 Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojna

Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana (ABVKY) is a welfare measure for the employees covered under the Employees' State Insurance (ESI) Act, 1948 in the form of cash compensation up to 90 days once in lifetime of the worker in the contingency of Insured Persons' (IPs) unemployment.

The scheme came into force on 01.07.2018 and extended three times from 01.07.2020 to 30.06.2021, 01.07.2021 to 30.06.2022 and from 01.07.2022 to 30.06.2024 in order to provide relief to that IPs who became unemployed during the Covid-19 pandemic with the relaxed eligibility and other conditions w.e.f. 24.03.2020.

Recently, the Corporation has approved the extension of ABVKY for a further period of two years i.e., from 01.07.2024 to 30.06.2026 with existing relaxed eligibility conditions.

The eligibility and other conditions of the scheme were relaxed w.e.f. 24.03.2020 as under: -



- I. योजना के तहत राहत की दर दावेदार की औसत दैनिक आय के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर औसत दैनिक आय का 50 प्रतिशत कर दिया गया।
- II. बीमा योग्य रोजगार में बीमाकृत व्यक्ति को कम से कम 2 साल तक काम किया हो और बेरोजगारी से ठीक पहले की अंशदान अवधि में कम से कम 78 दिन और बेरोजगारी से दो साल पहले की शेष तीन अंशदान अवधियों में से किसी एक में कम से कम 78 दिन का अंशदान देना चाहिए। इससे पहले, चार अंशदान अवधियों में से प्रत्येक में 78 दिनों का न्यूनतम अंशदान आवश्यक था।
- III. दावा दायर करने की प्रतीक्षा अवधि 90 दिनों से घटाकर 30 दिन कर दी गई।

9.2.3 क.रा.बी. निगम कोविड-19 राहत योजना

कोविड-19 के कारण मृत्यु होने पर बीमाकृत व्यक्तियों के परिवारों को मदद और सहायता प्रदान करने के लिए अध्यक्ष, क.रा.बी. निगम ने 'क.रा. बी. निगम कोविड-19 राहत योजना को अनुमोदित किया। यह योजना बीमाकृत व्यक्तियों के लिए एक कल्याणकारी उपाय है जिसे दिनांक 24.03.2020 से दो वर्षों के लिए लागू किया गया है तथा यह योजना कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु के मामले में बीमाकृत व्यक्ति के आश्रितों को राहत प्रदान करती है। कोविड-19 के कारण बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के मामले में, बीमाकृत व्यक्ति के आश्रित परिवार के पात्र सदस्यों को आवधिक भुगतान सीधे बैंक खाते में किया जाता है।

9.3 प्रशासनिक खर्च

प्रशासनिक व्यय में "वेतन एवं भत्ते" एवं प्रशासनिक कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति हितलाभ शामिल हैं तथा कार्यालय प्रबंधन पर सामान्य व्यय का प्रक्षेपण (प्रोजेक्शन) 7वें वेतन आयोग के प्रभाव के दृष्टिगत वस्तुओं की कीमतों और सेवा की लागत में सामान्य वृद्धि तथा भर्तियों को ध्यान में रखते हुए दर्शाया गया है। तथापि, मितव्ययी उपायों को ध्यान में रखा गया है।

मुख्यालय और क्षेत्रीय इकाइयों के लिए प्रशासनिक लागत में स्थापना लागत और प्रशासनिक कार्यालयों को बनाए रखने के लिए आवश्यक अन्य लागतें शामिल हैं। चिकित्सा स्थापना और अस्पताल चलाने का व्यय चिकित्सा सेवा लागत का एक अलग हिस्सा है, न कि प्रशासनिक लागत का हिस्सा।

स्थापना के तहत सामान्य व्यय में परिभाषित नियमों के अनुसार निगम कर्मचारियों के लिए पेंशन, उपदान, छुट्टी नकदीकरण और पेंशन चिकित्सा योजना के लिए कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि के लिए प्रावधान शामिल हैं। यह हर साल होता है, जब नए तथ्यों या भविष्य के लिए अनुमानित अतिरिक्त देनदारियों के आधार पर बीमांकिक अनुमानों की पुनर्गणना की जाती है। अपेक्षित कमी के मामले में आवश्यक निधियों को जोड़ा जाता है या अधिक होने की स्थिति में बीमांकन हितलाभ के रूप में दर्ज किया जाता है। क.रा.बी.निगम द्वारा संचालित अस्पतालों और औषधालयों और चिकित्सा महाविद्यालयों से जुड़े निगम कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि (ईबीआरएफ) के लिए प्रावधान प्रशासनिक व्यय का हिस्सा नहीं बनते हैं और तदनुसार ये चिकित्सा हितलाभ व्यय के तहत वेतन और भत्ते का हिस्सा बन रहे हैं।

केंद्र सरकार ने नियम 31क के तहत वर्ष 1997-98 से प्रशासनिक व्यय का प्रतिशत कुल राजस्व आय का 15 प्रतिशत निर्धारित किया है।

9.4 निर्धारित आरक्षित निधियों के अंतर्गत मांगें

निगम ने कुल 12 निर्धारित आरक्षित निधियाँ स्थापित की हैं। आरक्षित निधि खाते विभिन्न अवसंरचनाओं और हितलाभ कार्यक्रमों के लिए वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करते हैं। वे भवनों, चिकित्सा सुविधाओं और अन्य परिसंपत्तियों के लिए मूल्यहास को व्याप्त करते हैं, साथ ही निगम के कर्मचारी हितलाभों जैसे पेंशन, उपादान और छुट्टी नकदीकरण के लिए निधियों को भी व्याप्त करते हैं। हितलाभ कार्यक्रम निधियों में



- I. The rate of relief under the scheme was enhanced from 25 percent of the average daily earnings to 50 percent of average daily earnings of the claimant.
- II. The IP should have been in insurable employment for a minimum 2 years and should have contributed for not less than 78 days in the contribution period immediately preceding the unemployment and minimum 78 days in one of the remaining three contribution periods in two years prior to unemployment. Earlier, minimum contribution of 78 days in each of four contribution periods was required.
- III. The waiting period to file the claim was reduced from 90 days to 30 days

9.2.3 ESIC Covid-19 Relief Scheme

In order to provide help and succour to the families of the IPs who died due to COVID-19, the Chairman, ESIC approved the 'ESIC COVID-19 Relief Scheme', This scheme is a welfare measure for IPs made effective for a period of two years w.e.f. 24.03.2020 and it provides relief to the dependants of the IP in case of his/her death due to COVID-19. In case of death of IP due to COVID-19, the eligible dependant's family members of IP are paid periodic payments directly to the bank account.

9.3 Administrative Expenses

Administrative expenditure includes "Pay & Allowances" and provision for retirement benefits to administrative employees and expenditure on general office management has been projected keeping in view the 7th pay commission impact, the usual increase in the price of goods and cost of services and recruitments; however, austerity measures have been kept in view.

Administrative cost for Headquarters and field units includes Establishment cost and other costs required to maintain administrative offices. Medical Establishment and cost for running hospitals form a separate part of the medical services cost, not part of administration cost.

Common expenses under establishment include provisions towards Employees Benefit Reserve Funds for Pension, Gratuity, Leave Encashment and Pension Medical Scheme maintained for Corporation employees as per the defined rules. This takes place every year, when the actuarial projections are recalculated based on new facts or additional liabilities projected for the future. Required funds are added in case of anticipated shortfalls or booked as actuarial profits in case of excess. Provisions towards EBRF in respect of Corporation employees attached to ESIC run hospitals and dispensaries and medical colleges do not form part of Administrative Expenses and accordingly these are forming part of Pay and Allowances under Medical Benefit expenses

The Central Government has fixed the percentage of the administrative expenses under Rule 31A at 15 percent of total revenue income with effect from the year 1997-98.

9.4 Demands Under Earmarked Reserve Funds

The Corporation has established total 12 earmarked reserve funds. The Reserve Fund accounts ensure financial sustainability for various infrastructures and benefit programs. They cover depreciation for buildings, medical facilities, and other assets, along with funds for Corporation employee benefits such as pensions, gratuity, and leave encashment. Benefit programs funds



कोविड-19 राहत और निःशक्तता और आश्रितजन हितलाभों के लिए सहायता शामिल है। विशेष रूप से, 4 ईबीआरएफ और 3 हितलाभ कार्यक्रम निधियों को बनाए रखने के लिए आरक्षित निधियों की आवश्यकता की पुनर्गणना और पुनर्संतुलन। किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए आरक्षित निधियों को राजस्व व्यय के रूप में लिया जाता है। आरक्षित निधियों को प्रभावित करने वाले सभी लेन-देन की माँगों विवरण-क राजस्व प्राप्तियों और विवरण-ख व्यय के तहत निवल लेनदेन के तहत दिखाई जाती हैं।

9.5 पूंजीगत निर्माण निधि

निगम ने 2 फरवरी, 1974 को आयोजित अपनी बैठक में निर्णय लिया कि नियोक्ताओं और कर्मचारियों के अंशदान से प्राप्त कुल राजस्व का 10 प्रतिशत अस्पतालों, औषधालयों, अन्य चिकित्सा संस्थानों, कार्यालय भवनों और कर्मचारी आवासों के निर्माण के लिए पूंजी निर्माण आरक्षित निधि (सीसीआरएफ) में जमा किया जाना था। इसके बाद, 19 फरवरी, 1983 को आयोजित निगम की बैठक में उस प्रावधान को घटाकर अंशदान का 5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा, 17.12.2004 को आयोजित निगम की 129वीं बैठक में 1.4.2005 से उस प्रावधान को घटाकर अंशदान का 1 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद, 19.02.2019 को आयोजित निगम की 177वीं बैठक में पांच वर्षों के लिए निधि में कोई और वृद्धि नहीं करने का निर्णय लिया गया। पांच वर्ष की स्थगन अवधि समाप्त होने के पश्चात अब 01.04.2023 से पूंजी निर्माण आरक्षित निधि (सीसीआरएफ) में 1 प्रतिशत अंशदान का प्रावधान पुनः शुरू कर दिया गया है। 31.03.2024 तक कोष में शेष राशि 485753 लाख है।

9.6 आकस्मिकता आरक्षित निधि

दिनांक 17 मार्च 1973 को आयोजित निगम के बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि राजस्व खाते के व्यय की तुलना में अतिरिक्त आय का 20%, जो कम से कम ₹100 लाख हो (यदि यह रकम ₹100 लाख से कम हो तो सम्पूर्ण अतिरिक्त राशि) इस निधि में जमा की जाएगी। दिनांक 27/28 नवम्बर, 1986 को स्थायी समिति तथा निगम की संपन्न बैठकों में यह निर्णय लिया गया कि इस निधि में बकाया राशि केवल ₹7500 लाख तक सीमित रखी जानी चाहिए।

वर्ष 2024-2025 के लिए परिशोधित प्राक्कलन

I. प्राप्तियाँ

- 10 चालू वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए निगम का राजस्व उच्च आय वाले कर्मचारियों (9.35 लाख कामगार) के 21,000 की सीमा से बाहर जाने पर विचार करते हुए ₹2858396 लाख रुपये अनुमानित है, जबकि पहले अनुमान ₹3130470 लाख रुपये था।

अंशदान

- 10.1 अक्टूबर 2024 तक राजस्व की प्रवृत्ति, शेष महीनों के लिए बीमांकिक अनुमान के अनुसार प्रवृत्ति और पैरा 2.1 में उल्लिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए अंशदान से आय ₹2018700 लाख अनुमानित की गई है। परिशोधित प्राक्कलन में वर्ष के दौरान कर्मचारियों के अतिरिक्त व्याप्ति और जिलेवार कार्यान्वयन पर भी विचार किया जाता है। दिनांक 31.03.2025 तक कुल अनुमानित व्याप्ति 324.60 लाख कर्मचारियों की होने की संभावना है।



include COVID-19 relief, and support for disablement and dependent benefits. Particularly, re-calculation and re-balancing of the requirement of reserved funds to be maintained for 4 EBRF and 3 benefit program funds. Funds reserved for a specific purpose is charged as revenue expenditure. Demands for all transactions affecting the reserve funds are shown under Statement-A Revenue Receipts and net transaction under Statement-B Expenditure.

9.5 Capital Construction Fund

The Corporation in its meeting held on 2ndFebruary, 1974 decided that 10 percent of the total revenue derived from employers' and employees' contribution was to be credited to the Capital Construction Reserve Fund (CCRF) for construction of hospitals, dispensaries, other medical institutions, office buildings and staff quarters. Subsequently, in the meeting of the Corporation held on 19thFebruary, 1983, it was decided to reduce that provision to 5 percent of contribution. Further, in the 129th meeting of the Corporation held on 17.12.2004, it was decided to reduce that provision to 1 percent of Contribution w.e.f. 1.4.2005. Subsequently, it was decided not to make any further additions to the fund for five years in the 177th meeting of the Corporation held on 19.02.2019. After the expiry of moratorium period five years, now the creation of provision of 1 percent of contribution to CCRF has been resumed w.e.f. 01.04.2023. The balance in the fund as on 31.03.2024 is ₹ 485753 lakh.

9.6 Contingency Reserve Fund

The Corporation in its meeting held on 17thMarch, 1973, decided that 20 percent of the excess of income over expenditure on revenue account subject to a minimum of ₹ 100 Lakhs (whole of the excess when it is less than ₹ 100 Lakhs) was to be credited to this fund. The Standing committee and the Corporation in their meeting held on 27th/28thNovember, 1986 decided that the balance in this Fund should be limited to ₹ 7500 Lakhs only.

REVISED ESTIMATES FOR THE YEAR 2024-25

I. Receipts

- 10 The revenue of the Corporation for the current financial year 2024-2025 is estimated at ₹ 2858396 Lakhs as against ₹ 3130470 Lakhs estimated earlier considering higher income employees (9.35 lakhs workers) moving out of the ₹ 21,000 ceiling.

Contribution

- 10.1 The income from contribution has been estimated at ₹ 2018700 Lakhs keeping in view the trend of revenue up to October 2024, trend as per Actuarial estimation for remaining months and keeping the factors mentioned in para 2.1. The revised estimates also consider the additional coverage of employees during the year and district wise implementation. The total estimated coverage as on 31.03.2025 is likely to be 324.60 lakhs employees.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

10.2 दिनांक 31.3.2024 तक बकाया अंशदान और ब्याज की कुल राशि ₹589927 लाख में से, विभिन्न कारणों से ₹335130 लाख की राशि वर्तमान में वसूली योग्य नहीं है। बकाया और वसूली योग्य न होने वाली राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

क.	वर्तमान गैर-वसूली योग्य बकाया राशि	(₹ लाख में)
क)	न्यायालयों में विवादग्रस्त बकाया राशि	177006
ख)	परिसमापन के अधीन राशि	62363
ग)	क्लेम कमीशनर के पास लंबित राशि	1210
घ)	ऐसे कारखाने स्थापनाएं जो बंद हो गई हैं तथा जिनके नियोक्ताओं का अता-पता मालूम नहीं, से देय राशि	61419
ड.)	ऐसी राशि जिनमें डिक्री प्राप्त हो गई है परन्तु निष्पादित नहीं हुई	131
	कुल	302129
	रूग्ण उद्योगों से देय राशि	
i)	ऐसे कारखानों से संबंधित मामले जो औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआइएफआर) से पंजीकृत हैं परन्तु पुनर्वास योजना अभी स्वीकृत की जानी है	23107
ii)	ऐसे कारखाने/स्थापनाएं जिन्हें रूग्ण घोषित कर दिया गया है तथा औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआइएफआर) द्वारा पुनर्वास योजना स्वीकृत कर दी गई है	9894
ग.	वसूली अधिकारी के पास वसूली हेतु प्रस्थित वसूली योग्य प्राप्य राशि	254797
	कुल राशि	589927

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 45-सी से 45-आई के अधीन स्थापित अपने स्वयं के वसूली तंत्र के माध्यम से निगम द्वारा नियोक्ताओं से बकाया राशि की वसूली करने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है। जहाँ कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के उपबंधों के अधीन अभियोजन तथा दण्डनात्मक कार्रवाई अपेक्षित है। वहां उचित कार्रवाई भी की गई है।

10.3 ब्याज

परिशोधित प्राक्कलन 2024-2025 में प्राक्कलित और दर्शाए गए ब्याज के आंकड़े सामान्य आरक्षित निधि, आकस्मिक आरक्षित निधि और पूंजी निर्माण आरक्षित निधि के निवेश पर प्राप्त ब्याज से संबंधित हैं। निर्धारित आरक्षित निधि खाते पर अर्जित ब्याज संबंधित निधि खाते में जमा किया जाता है। यह अनुमान वास्तविक ब्याज दर पर आधारित है और इसका विनियोजन इस प्रकार है: -

	(₹ लाख में) परि.प्राक्क. (2024-25)
गैर-निर्धारित निधि पर ब्याज	814346
निर्धारित आरक्षित निधि पर ब्याज	266392
कुल	1080738

10.4 क्षतिपूर्ति

परिशोधित प्राक्कलन 2024-2025 में कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि किसी भी राज्य में बीमाकृत व्यक्तियों को हितलाभ भुगतान की घटना वित्त वर्ष 2023-24 तक निर्धारित सीमा से अधिक नहीं हुई है।



सत्यमेव जयते



- 10.2** Out of the total amount of arrears of contribution and interest of ₹ 589927 Lakhs as on 31.3.2024, an amount of ₹ 335130 Lakhs is not recoverable for the present, due to various reasons. Details of arrears and the amount not recoverable are furnished below:

A. Arrears not recoverable for the time being		(₹ In Lakhs)
a)	Amount of arrears disputed in courts	177006
b)	Amount under liquidation	62363
c)	Amount pending with claim commissioner	1210
d)	Amount due from factories/estt Which have been closed and whereabouts of employers not known	61419
e)	Amount for which decree obtained but not executed	131
TOTAL		302129
B. Dues from sick industries		
i)	Cases in respect of Factories registered with BIFR but rehabilitation scheme yet to be sanctioned	23107
ii)	Factories/Establishments which have been declared sick and rehabilitation schemes sanctioned by BIFR	9894
C. Recoverable due pending for Recovery with Recovery Officer		254797
GRAND TOTAL		589927

The Corporation is vigorously pursuing the recovery of arrears with employers through its own Recovery Machinery set up under Section 45-C to 45-1 of the ESI Act. Prosecution and penal action if felt necessary under the provisions of the E.S.I. Act has also been taken.

10.3 Interest

The interest figures estimated and shown in the Revised Estimates 2024-2025 are pertaining to interest received on investment of General Reserve Fund, Contingency Reserve Fund and Capital Construction Reserve Fund. The interest accrued on earmarked reserved fund account is credited to the respective fund account. The estimation is based on actual rate of interest and its appropriation is as follows: -

(₹ in Lakhs)	
	RE (2024-25)
Interest on Non-earmarked Fund	814346
Interest on Earmarked Reserve Fund	266392
Total	1080738

10.4 Compensation

No provision has been made in the Revised Estimates 2024-2025 as the incidence of benefits payment to Insured Persons in any state has not exceeded the prescribed limits till FY 2023-24.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

10.5 किराया, दरें और कर

निगम के स्वामित्व वाले क.रा.बी.राज्य अस्पतालों और औषधालयों के भवनों के संबंध में व्यय के अपने हिस्से के लिए राज्य सरकार से वसूल किए जाने वाले किराए और स्टाफ क्वार्टरों में रहने के लिए कर्मचारियों से मकान किराया भत्ते की वसूली की राशि ₹ 7600 लाख प्राक्कलित की गई है।

10.6 शुल्क, जुर्माना और जब्ती

सितंबर 2024 तक वास्तविक रुझानों के आधार पर परिशोधित अनुमान 2024-2025 में ₹ 6150 लाख की राशि का प्रावधान किया गया है।

10.7 चिकित्सा शिक्षा प्राप्तियां

परिशोधित प्राक्कलन 2024-2025 में ट्यूशन फीस, छात्रावास शुल्क और छात्रों द्वारा देय अन्य राशि के लिए 7100 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

10.8 विविध प्राप्तियां

परिशोधित प्राक्कलन 2024-2025 में डुप्लिकेट पहचान पत्रों की लागत, छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान की वसूली, अदालतों द्वारा डिक्री की राशि सहित कानूनी मुकदमों की लागत की वसूली, अन्य मौजूदा शीर्षों के तहत वर्गीकृत नहीं की जा सकने वाली प्राप्तियां, लेखापरीक्षा में अधिक भुगतान और अस्वीकृति की वसूली; पिछले वर्षों में किए गए सेवा व्यय की वसूली और नकद हितलाभ की वसूली, भर्तों के लिए आवेदकों द्वारा जमा की गई फीस, क.रा.बी. कर्मचारियों के चिकित्सा हितलाभ के लिए अंशदान आदि के लिए 4500 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

II. राजस्व व्यय

वर्ष 2024-2025 के दौरान राजस्व खाते पर व्यय ₹ 2123494 लाख रुपये रहने का अनुमान है, जबकि पहले ₹ 2152822 लाख रुपये रहने का अनुमान था। राजस्व व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:

11 चिकित्सा हितलाभ

इस शीर्ष के अंतर्गत कुल प्रावधान ₹ 1552986 लाख (404 लाख बीमाकृत व्यक्तियों के लिए) अनुमानित किया गया है जो कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान वास्तविक व्यय से 22 प्रतिशत अधिक है।

11.1 राज्य सरकारों को भुगतान

परिशोधित प्राक्कलन 2024-2025 के लिए ₹ 574196 लाख की राशि प्रस्तावित की गई है। इसमें (क) परियोजना कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) के लिए 6000 लाख रुपये के भुगतान का प्रावधान, (ख) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 70 प्रतिशत या उससे अधिक दर्ज अधिभोग वाले क.रा.बी. राज्य अस्पतालों के लिए प्रोत्साहन के रूप में राज्य सरकार को प्रति बीमाकृत व्यक्ति 200.00 की अतिरिक्त राशि और (ग) लाभार्थियों को निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए मौजूदा सीमा के अलावा सभी राज्य सरकारों को प्रति वर्ष प्रति बीमाकृत व्यक्ति परिवार इकाई 20 रुपये का प्रावधान किया गया है। तदनुसार, 'ऑन अकाउंट पॉलिसी' के तहत परिशोधित अनुमान 2024-2025 के लिए पूर्वोत्तर राज्यों (असम को छोड़कर सिक्किम सहित) के लिए 400 लाख के एएफए सहित राज्य क.रा.बी. योजना/सोसायटी के लिए ₹ 574196 लाख का आबंटन किया गया है।



10.5 Rent, Rates And Taxes

Rent recoverable from the State Government towards their share of expenditure in respect of ESIS hospitals and dispensaries buildings owned by the Corporation and recoveries of license fee from staff for occupying the staff quarters amounting to ₹7600 Lakhs has been estimated.

10.6 Fees, Fines & Forfeitures

An amount of ₹6150 Lakhs has been made in the Revised Estimates 2024-2025 based on the actual trends till September' 2024.

10.7 Medical Education Receipts

An amount of ₹7100 Lakhs has been made in the Revised Estimates 2024-2025 towards tuition fees, hostel fee and any other amount payable by the students,

10.8 Miscellaneous Receipts

An amount of ₹4500 Lakhs has been made in the Revised Estimates 2024-2025 towards receipts on account of cost of duplicate identity cards, recoveries of leave salary and pension contributions, recovery of cost of law suits including amounts of decrees by courts, receipts which cannot be classified under the other existing heads, recoveries of over-payments and disallowance in audit; recoveries of service expenditure incurred in previous years and recoveries of cash benefits, fees deposited by the applicants for recruitment, contribution towards medical benefit of ESI Employees etc.

II Revenue Expenditure

The expenditure on revenue account during 2024-2025 is estimated at ₹2123494 Lakhs as against ₹2152822 Lakhs anticipated earlier. The details of revenue expenditure are discussed below:

11 Medical Benefit

The total provision under this head has been estimated at ₹1552986 Lakhs (for 404 lakhs IPs.) which is 22 percent more than the actual expenditure during FY 2023-24.

11.1 Payment to State Govts.

A sum of ₹574196 Lakhs has been proposed for Revised Estimate 2024-2025. This includes (a) provision for payment towards Project implementation Plan (PIP) of ₹6000 Lakhs, (b) additional amount of ₹200.00 per IP to the State Government towards incentive for ESIS hospitals having registered occupancy of 70 percent or more during last financial year and (c) provision of ₹20/- per IP family unit per annum to all State Governments over & above the existing ceiling has been made for providing preventive and promotive health services to the beneficiaries. Accordingly, under the 'On Account Policy' an allocation of ₹574196 Lakh has been made towards State ESI Scheme/Society, including an AFA of ₹400 Lakh for North Eastern States (including Sikkim except Assam), for Revised Estimates 2024-2025.



11.2 मूल्यहास, क रा०बी० निगम अस्पताल/औषधालयों की मरम्मत और रखरखाव

चिकित्सा मद के तहत प्रावधान में केवल (i) अस्पतालों और औषधालय भवनों का मूल्यहास (₹ 31986 लाख), जो कि चालू भवन की पूंजीगत लागत (भूमि की लागत को छोड़कर) के 1.67 प्रतिशत की दर से है और (ii) अनुमानित व्यय पर भवन मरम्मत और रखरखाव (₹ 36933 लाख) और (iii) अस्पतालों और औषधालयों के लिए किराया और नगरपालिका कर (₹ 4000 लाख) शामिल है। विशेष मरम्मत पर होने वाले व्यय को मूल्यहास आरक्षित निधि में शामिल किया जाता है, जबकि अस्पतालों और औषधालय भवनों के मरम्मत और रखरखाव पर होने वाले खर्च को चिकित्सा हितलाभ व्यय में शामिल किया जाता है।

11.3 आदर्श अस्पताल और क०रा०बी० निगम अस्पताल और क रा०बी० निगम चिकित्सा महाविद्यालय

11.3.1 क०रा०बी० निगम अस्पतालों (आदर्श अस्पतालों सहित), चिकित्सा महाविद्यालयों और औषधालयों द्वारा व्यय करने के लिए, परिशोधित प्राक्कलन 2024-2025 में ₹ 728757.04 लाख की राशि का प्रावधान किया गया है और बजट प्राक्कलन 2025-2026 में ₹ 834307.51 लाख (अतिविशिष्ट उपचार और उपकरण की लागत सहित) का प्रावधान किया गया है।

11.3.2 7 व्यावसायजन्य रोग केंद्रों को चलाने का पूरा खर्च क०रा०बी० निगम द्वारा वहन किया जा रहा है जो परिशोधित प्राक्कलन 2024-2025 के लिए ₹ 152362.80 लाख है

11.3.3 परिशोधित प्राक्कलन 2024-2025 में सूचना प्रौद्योगिकी के सूत्रपात के कारण अस्पताल और औषधालयों के कम्प्यूटरीकरण पर परिचालन व्यय के लिए ₹ 7018 लाख की राशि का प्रावधान है।

11.3.4 वर्ष 2024-2025 के लिए परिशोधित प्राक्कलन में ₹ 116374 लाख (चिकित्सा शिक्षा संस्थान भवनों और अन्य परिसंपत्तियों के मूल्यहास और मरम्मत / रखरखाव सहित) का प्राक्कलन किया गया है, जिसमें 10 नए चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए ₹ 303 लाख का प्रावधान शामिल है। 31.3.2024 तक 7 व्यावसायजन्य रोग केंद्र, 52 क०रा०बी० निगम अस्पताल, 08 चिकित्सा महाविद्यालय/स्नातकोत्तर संस्थान के अलावा निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली तथा दिल्ली और नोएडा के औषधालय हैं जो सीधे क०रा०बी० निगम द्वारा संचालित की जाती हैं और व्यय का प्राक्कलन (पीजीआई सहित जहां भी लागू हो) निम्नलिखित प्रकार है:



11.2 Depreciation, Repair and Maintenance Etc. of Esi Hospital/Dispensaries

The provision under medical head comprises only of cost of (i) depreciation of hospitals and dispensary buildings (₹31986 Lakhs) at the rate of 1.67 percent of capital cost (excluding cost of land) of commissioned building and (ii) repair and maintenance of the building (₹36933 Lakhs) at projected expense and (iii) Rent & Municipal taxes for hospitals and dispensaries (₹4000 Lakhs). The expenditure on special repairs is charged to the Depreciation Reserve Fund while that of R&M of Hospitals & Dispensaries Buildings is charged to medical benefit expenditure.

11.3 Model Hospitals & ESIC Hospitals and ESIC Medical Colleges.

11.3.1 For incurring expenditure by ESIC Hospitals (including Model Hospitals), Medical Colleges and Dispensaries, a sum of ₹728757.04 Lakhs has been provided in the Revised Estimates 2024-2025 and ₹834307.51 Lakhs (including SST and cost of equipment) has been provided in Budget Estimate 2025-2026.

11.3.2 The entire expenditure on running of 7 Occupational Disease Centers is being borne by the E.S.I. Corporation which is ₹152362.80 Lakhs for Revised Estimates 2024-2025.

11.3.3 A sum of ₹7018 Lakhs has been made in Revised Estimate 2024-2025 towards operating expenses on computerization of Hospital & Dispensaries on account of IT Roll out.

11.3.4 The Revised Estimates for the year 2024-2025 has been estimated as ₹116374 Lakhs (including depreciation and repair/maintenance of medical education institution buildings and other assets) including a provision for 10 new medical colleges amounting to ₹303 lakhs. As on 31.3.2024 there are 7 Occupational Disease Centers, 52 ESIC Hospitals, 08 Medical Colleges/ PG Institutes besides D(M)D and the dispensaries of Delhi & NOIDA which are run by ESIC directly and the estimates of expenditure (including PGIs wherever applicable) is as below:



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

ईएसआईसी मॉडल अस्पताल / ईएसआईसी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज							
क्रम सं	अस्पताल/चिकित्सा महाविद्यालय का नाम	परिशोधित प्राक्कलन 2024-2025 (₹ लाख में)			बजट प्राक्कलन 2025-2026 (₹ लाख में)		
		उपकरण के बिना	उपकरण	कुल	उपकरण के बिना	उपकरण	कुल
(क)	व्यावसायजन्य रोग केंद्र						
1	जोका	23815.21	1646.00	25461.21	25517.00	4400.00	29917.00
2	के.के. नगर	34446.00	9364.00	43810.00	36669.00	9479.00	46148.00
3	अंधेरी	10214.00	1100.00	11314.00	13268.00	1792.00	15060.00
4	नंदा नगर, इंदौर	11958.60	1500.00	13458.60	15219.00	1830.00	17049.00
5	अलवर	9457.00	3200.00	12657.00	10044.00	7800.00	17844.00
6	बिहटा	10030.00	1500.00	11530.00	10180.00	1650.00	11830.00
7	बसईदारापुर	33056.00	1076.00	34132.00	38325.00	2183.00	40508.00
	कुल	132976.81	19386.00	152362.81	149222.00	29134.00	178356.00
(ख)	क रा बी निगम अस्पताल						
1	बेलतला	7348.40	486.00	7834.40	10077.00	1550.00	11627.00
2	आश्रमम्	11166.00	200.00	11366.00	12576.00	490.00	13066.00
3	राउरकेला	3129.50	100.00	3229.50	3441.00	120.00	3561.00
4	लुधियाना	12163.99	1000.00	13163.99	15260.00	2100.00	17360.00
5	राजाजी नगर	35770.00	8300.00	44070.00	38514.00	4000.00	42514.00
6	बापूनगर	13001.00	828.00	13829.00	13616.00	601.00	14217.00
7	सनथ नगर अस्पताल. (नाचराम)	27590.00	1600.00	29190.00	31240.00	2000.00	33240.00
8	जयपुर	12272.00	1149.00	13421.00	15487.10	2000.00	17487.10
9	जम्मू	3178.00	25.00	3203.00	3673.00	100.00	3773.00
10	नामकुम	4497.00	20.00	4517.00	7020.00	1050.00	8070.00
11	फुलवारीशरीफ	4295.00	200.00	4495.00	4715.00	250.00	4965.00
12	चंडीगढ़	4461.00	220.00	4681.00	4686.00	220.00	4906.00
13	नोएडा	32310.12	375.00	32685.12	36182.50	1910.00	38092.50
14	उदयोगमंडल	10983.00	100.00	11083.00	13178.00	200.00	13378.00
15	नरोडा	3857.85	75.00	3932.85	6234.00	1080.00	7314.00
16	आदित्यपुर	3815.00	50.00	3865.00	4107.00	100.00	4207.00
17	एजुकोन	6813.00	150.00	6963.00	7538.00	200.00	7738.00
18	सनथनगर (अतिविशिष्ट उपचार अस्पताल)	16227.00	3000.00	19227.00	17928.00	5000.00	22928.00
19	गुरुग्राम	11610.00	250.00	11860.00	12812.00	300.00	13112.00
20	भिवाड़ी	2483.00	445.00	2928.00	2603.00	300.00	2903.00
21	तिरुनेलवेली	6146.00	270.00	6416.00	6777.00	250.00	7027.00
22	बद्री	4523.00	100.00	4623.00	5175.00	100.00	5275.00
23	पीप्या	9434.00	225.00	9659.00	10315.00	200.00	10515.00
24	मानेसर	6520.00	251.00	6771.00	6840.00	251.00	7091.00
25	वापी (गुजरात)	3867.00	105.00	3972.00	4107.00	105.00	4212.00
26	फरीदाबाद	56690.00	9788.00	66478.00	61993.00	8788.00	70781.00
27	रुद्रपुर	1296.60	191.00	1487.60	1446.26	210.00	1656.26
28	जाजमऊ, कानपुर	3103.00	600.00	3703.00	3397.00	100.00	3497.00
29	वाराणसी	7042.62	110.00	7152.62	9533.00	1200.00	10733.00
30	साहिबाबाद	12165.20	315.00	12480.20	13380.20	346.50	13726.70
31	सरोजीनगर, लखनऊ	7001.00	1170.00	8171.00	7698.00	1081.00	8779.00
32	अंकलेश्वर, गुजरात	3478.00	200.00	3678.00	3936.00	200.00	4136.00

Financial Estimates and Performance Budget 2025-2026



ESIC Model Hospitals / ESIC Hospitals & Medical Colleges							
Sl No	Name of the Hospital/ Medical College	Revised Estimate 2024-2025 (₹ In lakhs)			Budget Estimate 2025-2026 (₹ In lakhs)		
		Excluding Equipment	Equipment	Total RE	Excluding Equipment	Equipment	Total BE
(A)	O.D.C.						
1	Joka	23815.21	1646.00	25461.21	25517.00	4400.00	29917.00
2	K.K. Nagar	34446.00	9364.00	43810.00	36669.00	9479.00	46148.00
3	Andheri	10214.00	1100.00	11314.00	13268.00	1792.00	15060.00
4	Nanda Ngr. Indore	11958.60	1500.00	13458.60	15219.00	1830.00	17049.00
5	Alwar	9457.00	3200.00	12657.00	10044.00	7800.00	17844.00
6	Bihta	10030.00	1500.00	11530.00	10180.00	1650.00	11830.00
7	Basaidarapur	33056.00	1076.00	34132.00	38325.00	2183.00	40508.00
	Total	132976.81	19386.00	152362.81	149222.00	29134.00	178356.00
(B)	ESIC Hospital						
1	Beltola	7348.40	486.00	7834.40	10077.00	1550.00	11627.00
2	Asramam	11166.00	200.00	11366.00	12576.00	490.00	13066.00
3	Rourkela	3129.50	100.00	3229.50	3441.00	120.00	3561.00
4	Ludhiana	12163.99	1000.00	13163.99	15260.00	2100.00	17360.00
5	Rajaji Nagar	35770.00	8300.00	44070.00	38514.00	4000.00	42514.00
6	Bapu Nagar	13001.00	828.00	13829.00	13616.00	601.00	14217.00
7	Sanath Nagar Hosp. (Nacharam)	27590.00	1600.00	29190.00	31240.00	2000.00	33240.00
8	Jaipur	12272.00	1149.00	13421.00	15487.10	2000.00	17487.10
9	Jammu	3178.00	25.00	3203.00	3673.00	100.00	3773.00
10	Namkum	4497.00	20.00	4517.00	7020.00	1050.00	8070.00
11	Phulwarisharif	4295.00	200.00	4495.00	4715.00	250.00	4965.00
12	Chandigarh	4461.00	220.00	4681.00	4686.00	220.00	4906.00
13	Noida	32310.12	375.00	32685.12	36182.50	1910.00	38092.50
14	Udyogmandal	10983.00	100.00	11083.00	13178.00	200.00	13378.00
15	Naroda	3857.85	75.00	3932.85	6234.00	1080.00	7314.00
16	Adityapur	3815.00	50.00	3865.00	4107.00	100.00	4207.00
17	Ezhukone	6813.00	150.00	6963.00	7538.00	200.00	7738.00
18	SanathNagar (SST Hosp.)	16227.00	3000.00	19227.00	17928.00	5000.00	22928.00
19	Gurugram	11610.00	250.00	11860.00	12812.00	300.00	13112.00
20	Bhiwadi	2483.00	445.00	2928.00	2603.00	300.00	2903.00
21	Tirunelveli	6146.00	270.00	6416.00	6777.00	250.00	7027.00
22	Baddi	4523.00	100.00	4623.00	5175.00	100.00	5275.00
23	Peenya	9434.00	225.00	9659.00	10315.00	200.00	10515.00
24	Manesar	6520.00	251.00	6771.00	6840.00	251.00	7091.00
25	Vapi(Gujarat)	3867.00	105.00	3972.00	4107.00	105.00	4212.00
26	Faridabad	56690.00	9788.00	66478.00	61993.00	8788.00	70781.00
27	Rudrapur	1296.60	191.00	1487.60	1446.26	210.00	1656.26
28	Jajmau, Kanpur	3103.00	600.00	3703.00	3397.00	100.00	3497.00
29	Varanasi	7042.62	110.00	7152.62	9533.00	1200.00	10733.00
30	Sahibabad	12165.20	315.00	12480.20	13380.20	346.50	13726.70
31	Sarojinagar, Lucknow	7001.00	1170.00	8171.00	7698.00	1081.00	8779.00
32	Ankleshwar, Gujarat	3478.00	200.00	3678.00	3936.00	200.00	4136.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

ईएसआईसी मॉडल अस्पताल / ईएसआईसी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज							
क्रम सं	अस्पताल/चिकित्सा महाविद्यालय का नाम	परिशोधित प्राक्कलन 2024-2025 (₹ लाख में)			बजट प्राक्कलन 2025-2026 (₹ लाख में)		
		उपकरण के बिना	उपकरण	कुल	उपकरण के बिना	उपकरण	कुल
33	कोल्हापुर, महाराष्ट्र	2812.00	10.00	2822.00	2969.00	300.00	3269.00
34	बिबवेवाडी, महाराष्ट्र	7495.50	689.00	8184.50	8713.30	759.00	9472.30
35	कोरबा, छत्तीसगढ़	842.00	25.00	867.00	1059.00	50.00	1109.00
36	रायपुर, छत्तीसगढ़	1372.00	90.00	1462.00	1574.00	150.00	1724.00
37	उदयपुर, राजस्थान	2468.00	250.00	2718.00	2468.00	250.00	2718.00
38	अंगुल, ओडिशा	2668.00	200.00	2868.00	2935.00	240.00	3175.00
39	बरेली	3060.00	100.00	3160.00	3376.00	110.00	3486.00
40	तिनसुकिया	910.00	75.00	985.00	1016.00	90.00	1106.00
41	कोटा	2011.60	150.00	2161.60	2672.00	200.00	2872.00
42	बीकानेर	1455.00	200.00	1655.00	1775.00	200.00	1975.00
43	मैथन	487.00	10.00	497.00	569.00	50.00	619.00
44	भोपाल	1728.00	200.00	1928.00	2525.00	500.00	3025.00
45	भिलाई	333.00	100.00	433.00	520.00	250.00	770.00
46	रायगढ़	310.00	50.00	360.00	585.00	200.00	785.00
47	काला अम्ब	1020.00	100.00	1120.00	1622.00	200.00	1822.00
48	तिरुपूर	7897.00	723.00	8620.00	8612.00	723.00	9335.00
49	काकीनाडा	2929.00	800.00	3729.00	3436.00	1250.00	4686.00
50	झिलमिल	19609.00	550.00	20159.00	21520.00	500.00	22020.00
51	ओखला	20909.00	550.00	21459.00	22379.00	595.00	22974.00
52	रोहिणी	26207.00	800.00	27007.00	30609.00	850.00	31459.00
53	निदेशालय(चि) दिल्ली	39253.50	100.00	39353.50	42478.00	110.00	42588.00
	कुल	494013.88	37670.00	531683.88	558897.36	43979.50	602876.86
(ग)	चिकित्सा महाविद्यालय						
1	पीजीआईएमएसआर और क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय, जोका	3604.00	15.00	3619.00	3854.00	20.00	3874.00
2	पीजीआईएमएसआर और क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय, के.के. नगर	7456.55	127.70	7584.25	12765.55	118.90	12884.45
3	पीजीआईएमएसआर अंधेरी	301.60	0.00	301.60	351.60	0.00	351.60
4	क.रा.बी. एवं पीजीआईएमएसआर बसईदारापुर	1261.50	30.00	1291.50	1533.10	33.00	1566.10
5	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय और पीजीआईएमएसआर राजाजीनगर	5440.00	0.00	5440.00	5545.00	0.00	5545.00
6	गुलबर्गा चिकित्सा महाविद्यालय	17644.00	2000.00	19644.00	19414.00	2200.00	21614.00
7	गुलबर्गा दंत्य महाविद्यालय	1674.00	275.00	1949.00	1712.50	100.00	1812.50
8	एस.नगर चिकित्सा महाविद्यालय	4781.00	100.00	4881.00	5327.00	100.00	5427.00
	कुल (ग)	42162.65	2547.70	44710.35	50502.75	2571.90	53074.65
	कुल (क + ख + ग)	669153.3	59603.70	728757.04	758622.11	75685.4	834307.51

नोट: उपरोक्त आंकड़ों में मूल्यहास और ईबीआरएफ के प्रावधान की राशि शामिल नहीं है।

Financial Estimates and Performance Budget 2025-2026



ESIC Model Hospitals / ESIC Hospitals & Medical Colleges							
SI No	Name of the Hospital/ Medical College	Revised Estimate 2024-2025 (₹ In lakhs)			Budget Estimate 2025-2026 (₹ In lakhs)		
		Excluding Equipment	Equipment	Total RE	Excluding Equipment	Equipment	Total BE
33	Kolhapur, Maharashtra	2812.00	10.00	2822.00	2969.00	300.00	3269.00
34	Bibvewadi, Maharashtra	7495.50	689.00	8184.50	8713.30	759.00	9472.30
35	Korba, Chhattisgarh	842.00	25.00	867.00	1059.00	50.00	1109.00
36	Raipur, Chhattisgarh	1372.00	90.00	1462.00	1574.00	150.00	1724.00
37	Udaipur, Rajasthan	2468.00	250.00	2718.00	2468.00	250.00	2718.00
38	Angul, Odisha	2668.00	200.00	2868.00	2935.00	240.00	3175.00
39	Bareilly	3060.00	100.00	3160.00	3376.00	110.00	3486.00
40	Tinsukia	910.00	75.00	985.00	1016.00	90.00	1106.00
41	Kota	2011.60	150.00	2161.60	2672.00	200.00	2872.00
42	Bikaner	1455.00	200.00	1655.00	1775.00	200.00	1975.00
43	Maithan	487.00	10.00	497.00	569.00	50.00	619.00
44	Bhopal	1728.00	200.00	1928.00	2525.00	500.00	3025.00
45	Bhillai	333.00	100.00	433.00	520.00	250.00	770.00
46	Raigarh	310.00	50.00	360.00	585.00	200.00	785.00
47	Kala Amb	1020.00	100.00	1120.00	1622.00	200.00	1822.00
48	Tiruppur	7897.00	723.00	8620.00	8612.00	723.00	9335.00
49	Kakinada	2929.00	800.00	3729.00	3436.00	1250.00	4686.00
50	Jhilmil	19609.00	550.00	20159.00	21520.00	500.00	22020.00
51	Okhla	20909.00	550.00	21459.00	22379.00	595.00	22974.00
52	Rohini	26207.00	800.00	27007.00	30609.00	850.00	31459.00
53	D(M)D	39253.50	100.00	39353.50	42478.00	110.00	42588.00
	Total	494013.88	37670.00	531683.88	558897.36	43979.50	602876.86
(C) Medical Colleges							
1	PGIMSR & ESIC M.College Joka	3604.00	15.00	3619.00	3854.00	20.00	3874.00
2	PGIMSR & ESIC M.College K.K. Nagar	7456.55	127.70	7584.25	12765.55	118.90	12884.45
3	PGIMSR Andheri	301.60	0.00	301.60	351.60	0.00	351.60
4	ESI&PGIMSR Basaidarapur	1261.50	30.00	1291.50	1533.10	33.00	1566.10
5	ESIC MC&PGIMSR Rajajinagar	5440.00	0.00	5440.00	5545.00	0.00	5545.00
6	Gulbarga Medical College	17644.00	2000.00	19644.00	19414.00	2200.00	21614.00
7	Gulbarga Dental College	1674.00	275.00	1949.00	1712.50	100.00	1812.50
8	S. Nagar M.College	4781.00	100.00	4881.00	5327.00	100.00	5427.00
	Total (C)	42162.65	2547.70	44710.35	50502.75	2571.90	53074.65
	Total (A+B+C)	669153.34	59603.70	728757.04	758622.11	75685.4	834307.51

NOTE: Above figures do not include amount of Provision for Depreciation and EBRF.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

11.4 अतिविशिष्ट उपचार

टाई-अप अस्पताल नेटवर्क के माध्यम से और सीधे क०रा०बी० निगम द्वारा संचालित अस्पतालों द्वारा अतिविशिष्ट उपचार के लिए परिशोधित प्राक्कलन 2024-2025 में कुल ₹ 210064 लाख का प्रावधान किया गया है।

12 नकद हितलाभ

12.1 परिशोधित प्राक्कलन 2024-25 के लिए नकद हितलाभ का कुल प्रावधान ₹ 304936 लाख है जो अंशदान आय का 15 प्रतिशत है। इसमें बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर परिशोधित अनुमान 2024-2025 के लिए स्थायी विकलांगता निधि में ₹ 84959 लाख, आश्रित लाभ निधि में ₹ 91762 लाख और क०रा०बी० निगम कोविड-19 राहत योजना निधि में ₹ 5480 लाख का प्रावधान शामिल है।

12.2 प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष हितलाभ के दिनों की औसत संख्या और प्रति कर्मचारी बीमारी हितलाभ और अस्थायी निःशक्तता हितलाभ की दैनिक दर की औसत राशि नीचे दर्शाई गई है:

विषय	वर्ष	बीमारी हितलाभ	अस्थायी निःशक्तता हितलाभ
क) प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष हितलाभ दिवसों की औसत संख्या (दिनों की संख्या में)	2005-2006	1.34	0.38
	2006-2007	1.12	0.32
	2007-2008	0.98	0.30
	2008-2009	0.94	0.23
	2009-2010	0.85	0.21
	2010-2011	0.55	0.21
	2011-2012	0.53	0.21
	2012-2013	0.57	0.20
	2013-2014	0.47	0.20
	2014-2015	0.45	0.21
	2015-2016	0.37	0.17
	2016-2017	0.33	0.14
	2017-2018	0.29	0.10
	2018-2019	0.28	0.09
2019-2020	0.27	0.08	
2020-2021	0.21	0.08	
2021-2022	0.27	0.11	
2022-2023	0.26	0.10	
2023-2024	0.38	0.07	
ख) प्रति कर्मचारी प्रति दिन औसत हितलाभ दर (₹ में)	2005-2006	83.11	95.21
	2006-2007	84.08	99.65
	2007-2008	96.98	99.63
	2008-2009	121.12	124.57
	2009-2010	126.80	134.10
	2010-2011	136.37	154.86



11.4 Super Speciality Treatment

A total provision of ₹ 210064 Lakhs has been made in the Revised Estimates 2024-2025 for Super speciality Treatment through tie-up hospital network and by the hospitals run by ESIC directly.

12 Cash Benefits

12.1 The total provision for Cash Benefits for Revised Estimates 2024-25 is ₹ 304936 Lakhs which is 15 percent of contribution income. This includes a provision of ₹ 84959 Lakhs in the Permanent Disablement Fund, ₹ 91762 Lakhs in the Dependent Benefit Fund and ₹ 5480 Lakhs in ESIC COVID-19 Relief Scheme Fund for Revised Estimates 2024-2025 based on actuarial valuation.

12.2 The average number of benefit days per annum per employee and the average amount of daily rate of sickness benefit and temporary disablement benefit per employee have been shown below: -

Subject	Year	Sickness Benefit	Temporary Disablement Benefit
a) Average number of Benefit days per annum per employee (in no. of days)	2005-2006	1.34	0.38
	2006-2007	1.12	0.32
	2007-2008	0.98	0.30
	2008-2009	0.94	0.23
	2009-2010	0.85	0.21
	2010-2011	0.55	0.21
	2011-2012	0.53	0.21
	2012-2013	0.57	0.20
	2013-2014	0.47	0.20
	2014-2015	0.45	0.21
	2015-2016	0.37	0.17
	2016-2017	0.33	0.14
	2017-2018	0.29	0.10
	2018-2019	0.28	0.09
	2019-2020	0.27	0.08
	2020-2021	0.21	0.08
	2021-2022	0.27	0.11
	2022-2023	0.26	0.10
	2023-2024	0.38	0.07
b) Average benefit rate per day per employee (In ₹)	2005-2006	83.11	95.21
	2006-2007	84.08	99.65
	2007-2008	96.98	99.63
	2008-2009	121.12	124.57
	2009-2010	126.80	134.10
	2010-2011	136.37	154.86



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

विषय	वर्ष	बीमारी हितलाभ	अस्थायी निःशक्तता हितलाभ
	2011-2012	160.82	177.01
	2012-2013	159.42	219.51
	2013-2014	194.25	237.52
	2014-2015	217.91	264.45
	2015-2016	261.72	287.39
	2016-2017	251.43	300.42
	2017-2018	260.19	307.36
	2018-2019	301.41	337.02
	2019-2020	316.67	365.76
	2020-2021	331.33	391.20
	2021-2022	343.98	401.49
	2022-2023	358.83	372.42
	2023-2024	402.13	464.93

बीमारी लाभ और अस्थायी निःशक्तता हितलाभ के संबंध में किए गए प्रावधानों में उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखा गया है।

12.3 राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना

वर्ष 2024-25 के परिशोधित प्राक्कलन में बेरोजगारी भत्ते के लिए ₹1214 लाख रुपये की राशि का प्रावधान है, जो वित्त वर्ष 2023-24, 2024-25 के दौरान वास्तविक व्यय से 8 प्रतिशत अधिक है।

12.4 अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना

परिशोधित प्राक्कलन 2024-25 में बीमाकृत व्यक्ति की बेरोजगारी की स्थिति में नकद मुआवजे के लिए ₹413 लाख की राशि का प्रावधान किया जा रहा है।

12.5 क.रा.बी.निगम कोविड -19 राहत योजना

वर्ष के लिए परिशोधित प्राक्कलन के रूप में क.रा.बी.निगम कोविड-19 राहत योजना कोष में ₹5480 लाख रुपये का प्रावधान है। इस निधि से वास्तविक पे आउट्स संबंधित आरक्षित निधि खाते में प्राक्कलित किया गया है।

13 अन्य हितलाभ

परिशोधित प्राक्कलन 2024-2025 में विविध मदों पर व्यय को पूरा करने के लिए ₹380 लाख का प्रावधान किया गया है, जैसे चिकित्सा बोर्ड, न्यायाधिकरणों को भुगतान की गई फीस, चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के लिए बीमाकृत व्यक्तियों को वाहन पर व्यय की प्रतिपूर्ति, चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के लिए बीमित व्यक्तियों को मजदूरी की हानि के लिए भुगतान आदि। इस प्रावधान में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए प्रति लाभार्थी 100 रुपये का यात्रा व्यय का भुगतान भी शामिल है।

14 प्रशासनिक व्यय

14.1 वर्ष 2024-2025 के लिए स्थापना और अन्य प्रशासनिक व्ययों सहित प्रशासन पर कुल व्यय रु. 245005 लाख अनुमानित है, जबकि पहले रु. 257823 लाख का अनुमान लगाया गया था। कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक लागत वर्ष 2024-2025 के लिए 8 प्रतिशत है। वर्ष 2024-2025 के लिए ईबीआरएफ की आरक्षित निधियों के लिए केवल स्थापना व्यय पर कुल व्यय ₹61588 लाख अनुमानित है, जबकि पहले रु. 55093 लाख का प्राक्कलन था जिसमें ईबीआरएफ की निधि शामिल है।



सत्यमेव जयते



Subject	Year	Sickness Benefit	Temporary Disablement Benefit
	2011-2012	160.82	177.01
	2012-2013	159.42	219.51
	2013-2014	194.25	237.52
	2014-2015	217.91	264.45
	2015-2016	261.72	287.39
	2016-2017	251.43	300.42
	2017-2018	260.19	307.36
	2018-2019	301.41	337.02
	2019-2020	316.67	365.76
	2020-2021	331.33	391.20
	2021-2022	343.98	401.49
	2022-2023	358.83	372.42
	2023-2024	402.13	464.93

The provisions made in respect of sickness benefit and temporary disablement benefit takes the above into account.

12.3 Rajiv Gandhi Shramik Kalyan Yojna

The Revised Estimates for 2024-25 provides for a sum of ₹ 1214 Lakhs towards unemployment allowance which is 8 percent above the actual expenditure during FY 2023-24.

12.4 Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana

An amount of ₹ 413 Lakhs is being provided in Revised Estimates 2024-25 towards cash compensation during unemployment of IPs.

12.5 Esic Covid-19 Relief Scheme

An amount of ₹ 5480 Lakhs in ESIC COVID-19 Relief Scheme Fund have been provided as Revised Estimates for the year. Actual pay-outs from this fund have been estimated under the respective reserve fund account.

13 Other Benefits

A provision of ₹ 380 Lakhs has been made in Revised Estimate 2024-2025 to cover expenses on miscellaneous items like fees paid to Medical Boards, Tribunals, reimbursement to IPs for expenditure on conveyance for appearing before Medical Board, payment towards loss of wages to the insured persons for appearing before the Medical Boards, etc. The provision also includes payment of travelling expenditure of ₹ 100 per beneficiary for submitting Life Certificate.

14 Administrative Expenses

14.1 The total expenditure on Administration including establishment and other administrative expenses for the year 2024-2025 is projected as ₹ 245005 Lakhs against ₹ 257823 Lakhs estimated earlier. The Administrative Cost as a percentage of total Revenue works out to 8 percent for the year 2024-2025. The total expenditure on Establishment expenses only for reserve funds of EBRF for the year 2024-2025 is projected as ₹ 61588 Lakhs against ₹ 55093 Lakhs estimated earlier which includes the fund of EBRF.



14.2 अन्य प्रशासनिक व्यय

वस्तुओं की कीमत और सेवाओं की लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए परिशोधित प्राक्कलन 2024-2025 में रु. 66746 लाख का प्रावधान किया गया है, जबकि पहले के बजट प्राक्कलन में रु. 85337 लाख का प्रावधान किया गया था। इस प्रावधान में विद्युत प्रभारों, मुद्रण/लेखन सामग्री, हाउसकीपिंग, पहरा और निगरानी, भर्ती, कार्यालय भवनों की मरम्मत और रखरखाव, प्रशिक्षण आदि पर होने वाले व्यय को पूरा किया जाता है।

14.3 आकस्मिक आरक्षित निधि

निधि के अधिकतम सीमा तक पहुँच जाने के कारण इस शीर्ष के अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

14.4 पूंजीगत निर्माण निधि

परिशोधित प्राक्कलन 2024-25 में अनुमानित अंशदान आय के 1 प्रतिशत की दर पर परिगणित रु. 20187 लाख का प्रावधान इस मद में किया गया है।

14.5 पूंजीगत लेखा पर व्यय

2024-2025 के परिशोधित प्राक्कलनों में, शुरु की गई परियोजनाओं की प्रगति को देखते हुए निर्माण कार्य पर अनुमानित व्यय रु. 163137 है जिसमें कार्यालय भवनों और स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण हेतु रु. 3613 लाख, अस्पतालों, औषधालयों और स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण हेतु रु. 152972 लाख और चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं के निर्माण हेतु रु. 6552 लाख शामिल हैं। अनुमानित कार्यों के ब्योरे परिशिष्ट-III में दिए गए हैं।

2024-2025 के परिशोधित प्राक्कलनों में, गैर-परियोजना पूंजीगत व्यय पर अनुमानित व्यय रु. 76899 लाख है। (इसमें कार्यालय और चिकित्सा दोनों तरह के उपकरण हेतु रु. 62914 लाख का बड़ा व्यय शामिल है)

15 व्यय की तुलना में आय की अधिकता

परिशोधित प्राक्कलनों के अनुसार, व्यय की तुलना में आय की अधिकता ₹734902 लाख के पूर्व के प्राक्कलन की तुलना में ₹977648 लाख प्राक्कलित की गई है।

एक सेवा संगठन होने के नाते निगम के परिचालनों में लाभ का कोई तत्व नहीं है और इसलिए, कर्मचारी राज्य बीमा निधि के लिए आयकर अधिनियम की धारा 10 (25) (ए) के तहत निगम को आयकर के भुगतान से विशिष्ट छूट प्रदान की गई है।

16 लैंगिक एवं बाल बजट

क.रा.बी. योजना के तहत सभी बजट शीर्षों में, परिशोधित प्राक्कलन 2024-2025 में महिलाओं के लिए लगभग ₹ 591897 लाख का बजट प्रावधान (इसमें बालिकाओं के लिए रु. 542582 लाख का बजट प्रावधान शामिल है) किया गया है।

महिलाओं के लिए प्रमुख शीर्ष-वार लैंगिक बजट प्रावधान का ब्योरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	योजना/ बजट शीर्ष के ब्योरे	परिशोधित प्राक्कलन 2024-25 (₹ लाख में)
	महिलाओं के लिए 100% प्रावधान	
1.	मातृत्व हितलाभ योजना	48695.00
2.	बीमाकृत महिलाओं और बीमाकृत व्यक्तियों की पत्नियों के लिए प्रसूति भत्ता	620.00
	महिलाओं के पक्ष में (प्रावधान का कम से कम 30 प्रतिशत)	
3.	चिकित्सा हितलाभ योजना	465710.00
4.	नकद हितलाभ योजना (मातृत्व हितलाभ योजना के अलावा)	76872.00
	कुल	591897.00



14.2 Other Administrative Expenses

A provision of ₹ 66746 Lakhs has been made in the Revised Estimates 2024-2025 as against ₹ 85337 Lakhs in the Budget Estimates earlier keeping in view the increase in price of goods and cost of services. The provision caters to the expenditure towards electricity charges, printing / stationery, housekeeping, watch and ward, recruitment, repair and maintenance of office buildings, training etc.

14.3 Contingency Reserve Fund

No provision has been made under this head since the fund has reached the ceiling.

14.4 Capital Construction Fund

Provision of ₹ 20187 Lakhs calculated at the rate of 1 percent of projected contribution income in RE 2024-25 has been made under this head.

14.5 Expenditure on Capital Account

In the Revised Estimates for 2024-2025, the expenditure on construction works has been estimated at ₹ 163137 Lakhs ₹ 3613 Lakhs for construction of office buildings and Staff quarters, ₹ 152972 Lakhs for construction of hospitals, dispensaries and staff quarters and ₹ 6552 Lakhs for construction of medical education projects), considering the progress of Projects undertaken. The details of estimated works are at Appendix-III.

In the Revised Estimates for 2024-2025, the expenditure on Non-Project Capital Expenditure has been estimated at ₹ 76899 Lakhs (This includes major expenditure of ₹ 62914 Lakhs for Equipment (both Office & Medical equipment)).

15 Excess of Income Over Expenditure

As per the Revised Estimates, the excess of income over expenditure is estimated at ₹ 734902 Lakhs as compared to earlier estimates of ₹ 977648 Lakhs.

The Corporation being a service organization, there is no element of profit in its operations and therefore, specific exemption under Sec 10 (25A) of Income Tax Act is granted for Employees State Insurance Fund from payment of income tax by Corporation.

16 Gender and Child Budget

Across all budget heads under ESI Scheme. An approximate budget provision for Women has been worked out at 591897 Lakhs (including budget provision for female child at ₹ 14000 Lakhs) in the Revised Estimates 2024-2025.

Major Head-wise Gender Budget provision for Women as detailed give below:

Sl. No.	Details of Scheme / Budget Head	Revised Estimates 2024-25 (₹ in Lakhs)
	<u>100% provision towards women</u>	
1.	Maternity Benefit Scheme	48695.00
2.	Confinement Allowance to Insured Women & Wives of IPs	620.00
	<u>Pro-women (at least 30 percent of provision)</u>	0
3.	Medical Benefit Scheme	465710.00
4.	Cash Benefit Scheme (other than Maternity Benefit Scheme)	76872.00
	Total	591897.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

वर्ष 2025-2026 के लिए बजट प्राक्कलन

I. प्राप्तियां

- 17 वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए निगम का राजस्व 3120385 लाख रुपये अनुमानित है, जबकि परिशोधित प्राक्कलन 2024-2025 में ₹2858396 लाख दर्शाया गया है।

अंशदान

- 17.1 जैसा कि पहले बताया गया है, अंशदान की दर को 6.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करने के कारणों से, वर्ष 2025-2026 के लिए अंशदान से आय ₹2220600 लाख अनुमानित की गई है, जबकि परिशोधित प्राक्कलन 2024-2025 में यह ₹2018700 लाख रुपये थी। इस प्राक्कलन में (क) कार्यान्वयन कार्यक्रम (परिशिष्ट-I) के अनुसार नए क्षेत्रों में 2025-2026 के दौरान लगभग 10.03 लाख कर्मचारियों के प्रत्याशित अतिरिक्त व्याप्ति और (ख) अंशदान आय के रुझान को भी ध्यान में रखा गया है। 2025-2026 में कर्मचारियों की भारत औसत संख्या 334.63 लाख अनुमानित है।

तालिका 2020-20-21 से अंशदान की प्रति व्यक्ति आय दर्शाती है :

(₹ में)

2020-2021 वास्तविक आंकड़े	2021-2022 वास्तविक आंकड़े	2022-2023 वास्तविक आंकड़े	2023-2024 वास्तविक आंकड़े	2024-2025 परिशोधित प्राक्कलन	2025-2026 बजट प्राक्कलन
4956	5828	5959	5905	6408	6737

ब्याज

- 17.2 बजट प्राक्कलन में अनुमानित और दर्शाए गए ब्याज के आंकड़े सामान्य आरक्षित निधि, आकस्मिक आरक्षित निधि और पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि के निवेश पर प्राप्त ब्याज से संबंधित हैं। निर्धारित आरक्षित निधि लेखा पर प्रोद्भूत ब्याज संबंधित निधि लेखा में जमा किया जाता है। निवेश पर ब्याज दर में तेजी से गिरावट आई है; इसलिए निवेश योग्य अधिशेष में वृद्धि के बावजूद कुल ब्याज आय में निवेश के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई है। पोर्टफोलियो प्रबंधन प्रणाली के संचालन के बाद निवेश में विविधीकरण का प्रभाव वर्ष 2025-2026 से दिखाई देगा। कुल अनुमानित ब्याज और उसका विनियोजन इस प्रकार है: -

(₹ लाखों में)

निधि वार ब्याज आय	बजट प्राक्कलन (2025 -2026)
गैर-निर्धारित आरक्षित निधि पर ब्याज	873735
निर्धारित आरक्षित निधि पर ब्याज	285580
कुल	1159315



BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 2025-2026

I. Receipts

- 17 The revenue of the Corporation for the financial year 2025-2026 is estimated at ₹3120385 Lakhs as against ₹2858396 Lakhs shown in Revised Estimates 2024-2025.

Contributions

- 17.1 Income from Contributions for the year 2025-2026 has been estimated at ₹2220600 Lakhs as against ₹2018700 Lakhs in the Revised Estimates 2024-2025. This projection has also taken into the account (a) anticipated additional coverage of about 10.03 lakhs employees during 2025-2026 in new areas as per the implementation programme (Appendix-I); and (b) the trends of contribution income. The weighted average number of employees in 2025-2026 is estimated at 334.63 lakhs.

The table shows the per capita income from contribution since 2020-2021:

(in ₹)

2020-2021 Actuals	2021-2022 Actuals	2022-2023 Actuals	2023-2024 Actuals	2024-2025 RE	2025-2026 BE
4956	5828	5959	5905	6408	6737

Interest

- 17.2 The interest figures estimated and shown in the BE is pertaining to interest received on investment of General Reserve Fund, Contingency Reserve Fund and Capital Construction Reserve Fund. The interest accrued on earmarked reserved fund account is credited to the respective fund account. Rate of interest on investment has sharply declined; hence in spite of increase in investible surplus total interest income has not increased in line with investments. The impact of diversification in investment after operationalization of Portfolio Management System will be visible from the year 2025-2026. The total estimated interest and its appropriation is as follows: -

(₹ in Lakhs)

Fund-wise interest income	BE (2025-2026)
Interest on Non-earmarked Reserve Fund	873735
Interest on Earmarked Reserve Fund	285580
Total	1159315



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

क्षतिपूर्ति

- 17.3 वित्त वर्ष 2025 -2026 में कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि किसी भी राज्य में बीमाकृत व्यक्तियों को लाभ भुगतान वित्त वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित सीमा से अधिक होने का अनुमान है।

अस्पताल/औषधालय भवन का किराया

- 17.4 निगम के स्वामित्व वाले क.रा.बी.योजना अस्पतालों और डिस्पेंसरियों के भवनों के संबंध में व्यय के अपने हिस्से के लिए राज्य सरकार से वसूल किए जाने वाले किराए और स्टाफ क्वार्टरों में रहने वाले कर्मचारियों से मकान किराया भत्ते की वसूली की अनुमानित राशि ₹ 8300 लाख है।

शुल्क, जुर्माना और जब्ती

- 17.5 परिशोधित प्राक्कलन 2024-2025 में किए गए अनुमानों के अनुरूप बजट प्राक्कलन 2025-2026 में ₹ 6150 लाख की राशि का प्रावधान किया गया है।

चिकित्सा शिक्षा प्राप्तियां

- 17.6 परिशोधित प्राक्कलन 2024-2025 में किए गए अनुमानों के अनुरूप बजट प्राक्कलन 2025-2026 में ₹ 7100 लाख की राशि का प्रावधान किया गया है।

विविध प्राप्तियां

- 17.7 परिशोधित प्राक्कलन 2024-2025 में किए गए अनुमानों के अनुरूप बजट प्राक्कलन 2025-2026 में ₹ 4500 लाख की राशि का प्रावधान किया गया है।

II. व्यय

राजस्व खाते में वर्ष 2025-26 के बजट प्राक्कलनों में कुल व्यय ₹ 2311030 लाख है, जबकि वर्ष 2024-2025 का परिशोधित प्राक्कलन 2123494 लाख रुपये था। प्रावधानों में ₹ 187536 लाख तक की वृद्धि का कारण मुख्यतः आरक्षित निधियों के लिए किया गया प्रावधान है, जिसका विवरण निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिया गया है।

18 चिकित्सा हितलाभ

- 18.1 चिकित्सा हितलाभ व्यय के लिए कुल ₹ 179054 लाख का प्रावधान किया गया है। उच्च प्रावधानों में कार्यान्वयन कार्यक्रम के तहत 10.03 लाख कर्मचारियों की प्रत्याशित अतिरिक्त व्याप्ति शामिल हैं। किए गए प्रावधानों का विवरण नीचे दिया गया है:-

(₹ लाखों में)

क.रा.बी. निगम		680994.00
राज्य सरकारों को देय*		
II) क.रा.बी. निगम द्वारा सीधे तौर पर किया जाने वाला व्यय:		
ए)	व्यवसायजन्य रोग केन्द्र अस्पताल/ आदर्श अस्पताल/ अन्य अस्पताल/ औषधालय	634534.36
बी)	अति विशिष्टता उपचार पर व्यय	232883.64
सी)	बीमाकृत महिलाओं और बीमाकृत व्यक्तियों की पत्नियों को प्रसूति भत्ता	620.00
डी)	अस्पताल एवं औषधालय का मूल्यहास प्रावधान	48585.00
ई)	मरम्मत एवं रखरखाव (अस्पताल एवं औषधालय)	43109.00
एफ)	किराया, दरें और कर	4000.00
जी)	चिकित्सा शिक्षा संस्थानों पर व्यय	123767.75
एच)	परिशोधित नियोक्ता उपयोगिता औषधालय (एम-ईयूडी)/एम-आईएमपी पर व्यय	2300.00
आई)	स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) पर व्यय	61.70
जे)	आयुष्मान भारत के अंतर्गत व्यय	200.00
क)	औषधालय सह शाखा कार्यालय	10000.00
कुल:		1781055.45

* इसमें पूर्वोत्तर राज्यों (असम को छोड़कर सिक्किम सहित) के लिए ₹ 400 लाख का एफए शामिल है।



Compensation

- 17.3** No provision has been made in Budget Estimates 2025-2026 as the incidence of benefits payment to Insured Persons in any state projected to exceed the prescribed limits for FY 2024-25.

Rent of Hospital/Dispensary Buildings

- 17.4** Rent recoverable from the State Government towards their share of expenditure in respect of ESIS hospitals and dispensaries buildings owned by the Corporation and recoveries of license fee from staff for occupying the staff quarters amounting to ₹8300 Lakhs has been estimated.

Fees, Fines & Forfeitures

- 17.5** An amount of ₹6150 Lakhs has been made in the Budget Estimates 2025-2026 in line with projections made in Revised Estimates 2024-2025.

Medical Education Receipts

- 17.6** An amount of ₹7100 Lakhs has been made in the Budget Estimates 2025-2026 in line with projections made in Revised Estimates 2024-2025.

Miscellaneous Receipts

- 17.7** An amount of ₹4500 Lakhs has been made in the Budget Estimates 2025-2026 in line with projections made in Revised Estimates 2024-2025.

II. Expenditure

Total expenditure in the Budget Estimates for 2025-2026 in the Revenue account is ₹2311030 Lakhs as against the Revised Estimates of ₹2123494 Lakhs for 2024-2025. The increase in provisions to an extent of ₹187536 Lakhs is mainly due to provisions towards reserve funds explained in the following paragraphs.

18 Medical Benefit

- 18.1** A total provision of ₹179054 Lakhs has been made towards Medical Benefits expenditure. The higher provisions include anticipated additional coverage of 10.03 lakh employees under the implementation programme. The details of the provisions made are explained here under:-

		(₹ In Lakhs)
E.S.I.C		680994.00
Payable to State Governments *		
II) Expenditure to be incurred directly by the E.S.I.C in:		
a)	Hospital with ODCs/ Model Hospital/ Other Hospitals/dispensaries	634534.36
b)	Expenditure on Super Specialty Treatment	232883.64
c)	Confinement allowance to Insured Women & Wives of IPs	620.00
d)	Depreciation provision of Hospital & Dispensary	48585.00
e)	Repairs & Maintenance (Hospitals & Dispensary)	43109.00
f)	Rent, Rates & Taxes	4000.00
g)	Expenditure on Medical Education Institutions	123767.75
h)	Expenditure on Modified Employer Utility Dispensary (m-EUD)/m-IMP	2300.00
i)	Expenditure on Swachhata Action Plan (SAP)	61.70
j)	Expenditure under Ayushman Bharat	200.00
k)	DCBO	10000.00
TOTAL:		1781055.45

* Includes an AFA of ₹400 Lakh for North Eastern States (including Sikkim except Assam).



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

- 18.2 वर्ष 2020-21 से प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष चिकित्सा देखभाल पर निगम के अंश के व्यय की औसत अनुमानित लागत निम्नानुसार है: (₹)

2020-2021 वास्तविक	2021-2022 वास्तविक	2022-2023 वास्तविक	2023-2024 वास्तविक	2024-2025 परिशोधित प्राक्कलन	2025-2026 बजट प्राक्कलन
3425.88	4161.96	3972.38	4107.72	4857.10	5403.44

* कर्मचारियों की भारत औसत संख्या के अनुसार गणना की गई।

- 18.3 पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान क रा बी राज्य. अस्पतालों में अधिभोग दर 70 प्रतिशत या उससे अधिक के आधार पर राज्य सरकार को ₹ 200.00 प्रति बीमाकृत व्यक्ति की अतिरिक्त राशि के भुगतान का प्रावधान किया गया है।

नकद हितलाभ

- 19 परिशोधित प्राक्कलन 2024-2025 और जिलावार व्याप्ति के कारण 10.03 लाख कर्मचारियों की संभावित अतिरिक्त व्याप्ति को ध्यान में रखते हुए 2025-2026 के दौरान नकद हितलाभ पर व्यय ₹ 254598 लाख रुपये अनुमानित है।

अन्य हितलाभ

- 20 ₹ 390 लाख का प्रावधान विविध मदों पर होने वाले व्यय को कवर करता है, जैसे चिकित्सा बोर्ड, न्यायाधिकरण को भुगतान किया गया शुल्क, चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के लिए बीमाकृत व्यक्तियों को वाहन पर व्यय की प्रतिपूर्ति, चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के लिए बीमित व्यक्तियों को मजदूरी की हानि के लिए भुगतान आदि। प्रावधान में जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए प्रति लाभार्थी ₹ 100 के यात्रा व्यय का भुगतान भी शामिल है।

प्रति व्यक्ति व्यय

- 21 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष नकद हितलाभ की विभिन्न श्रेणियों की औसत अनुमानित लागत निम्नानुसार है:

(₹)

क्रम सं.	हितलाभ	2020-21 वास्तविक आंकड़े	2021-22 वास्तविक आंकड़े	2022-23 वास्तविक आंकड़े	2023-24 वास्तविक आंकड़े	2024-25 परिशोधित प्राक्कलन	2025-26 बजट प्राक्कलन
i)	बीमारी हितलाभ	104.21	141.33	145.66	139.35	161.46	168.67
ii)	विस्तारित बीमारी हितलाभ	17.84	22.15	22.40	20.99	24.55	25.69
iii)	मातृत्व हितलाभ	140.20	142.72	143.13	138.32	154.58	161.68
iv)	अस्थायी अपंगता हितलाभ	29.71	44.65	38.20	30.97	33.92	35.50
v)	स्थायी वितरण हितलाभ (पूजीकृत मूल्य)	664.83	-	222.09	332.21	269.70	138.90
vi)	आश्रितों का हितलाभ (पूजीकृत मूल्य)	0.00	1299.80	108.19	320.61	291.30	216.06
vii)	अंत्येष्टि खर्च	9.99	15.87	10.66	9.20	9.94	10.58
viii)	राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना	4.73	8.54	5.25	2.16	3.85	3.98
ix)	अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना	21.27	8.58	2.07	0.20	1.31	1.39
x)	क रा बी निगम कोविड - 19 राहत योजना	लागू नहीं	190.98	262.84	0.00	17.40	9.95
xi)	अन्य लाभ	1.22	1.03	0.86	0.83	1.21	1.18
	कुल	994.01	1875.66	961.29	994.83	969.23	773.59

* कर्मचारियों की भारत औसत संख्या के अनुसार गणना की गई

Financial Estimates and Performance Budget 2025-2026



सत्यमेव जयते



- 18.2 The average approximate cost of Corporations' shares of expenditure on medical care per capita per annum since 2020-21 is as under:

(₹)

2020-2021 Actual	2021-2022 Actual	2022- 2023 Actual	2023-2024 Actual	2024-2025 RE	2025-2026 BE
3425.88	4161.96	3972.38	4107.72	4857.10	5403.44

* Calculated as per average number of employees.

- 18.3 Provision has been provided for payment of additional amount of ₹200.00 per IP to the State Government of the ESIS hospitals registered occupancy of 70 percent or more during last financial year.

Cash Benefits

- 19 Expenditure on Cash Benefits during 2025-2026 is estimated at ₹254598 Lakhs keeping in view the Revised Estimates 2024-2025 and the likely additional coverage of 10.03 lakhs employees on account of district wise coverage.

Other Benefits

- 20 A provision of ₹390 Lakhs covers expenses on miscellaneous items like fees paid to Medical Boards, Tribunals, reimbursement to IPs for expenditure on conveyance for appearing before Medical Board, payment towards loss of wages to the insured persons for appearing before the Medical Boards, etc. The provision also includes payment of travelling expenditure of ₹100 per beneficiary for submitting Life Certificate.

Expenditure Per Capita

- 21 The average approximate cost of various categories of Cash Benefits per capita per annum works out as below:

(₹)

Sl. No	BENEFIT	2020-21 Actuals	2021-22 Actuals	2022-23 Actuals	2023-24 Actuals	2024-25 RE	2025-26 BE
i)	Sickness Benefit	104.21	141.33	145.66	139.35	161.46	168.67
ii)	Extended sickness Benefit	17.84	22.15	22.40	20.99	24.55	25.69
iii)	Maternity Benefit	140.20	142.72	143.13	138.32	154.58	161.68
iv)	Temporary Disablement Benefit	29.71	44.65	38.20	30.97	33.92	35.50
v)	Permanent Dis. Benefit (Capitalised value)	664.83	-	222.09	332.21	269.70	138.90
vi)	Dependants' Benefit (Capitalised value)	0.00	1299.80	108.19	320.61	291.30	216.06
vii)	Funeral Expenses	9.99	15.87	10.66	9.20	9.94	10.58
viii)	Rajiv Gandhi Shramik Kalyan Yojna	4.73	8.54	5.25	2.16	3.85	3.98
ix)	Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojna	21.27	8.58	2.07	0.20	1.31	1.39
x)	ESIC Covid -19 Relief Scheme	NA	190.98	262.84	0.00	17.40	9.95
xi)	Other Benefits	1.22	1.03	0.86	0.83	1.21	1.18
	Total	994.01	1875.66	961.29	994.83	969.23	773.59

* Calculated as per weighted average number of employees



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

22 अंशदान से आय के प्रतिशत के रूप में लाभ पर व्यय निम्नानुसार है:

हितलाभ	2020-21 वास्तविक	2021-22 वास्तविक	2022-23 वास्तविक	2023-24 वास्तविक	2024-25 परिशोधित बजट	2025-26 प्राक्कलित बजट
चिकित्सा हितलाभ (%)	69.12	71	67	70	77	80
रोकड़ एवं अन्य हितलाभ (%)	20.06	32	16	17	15	11

*कर्मचारियों की भारत औसत संख्या के अनुसार गणना की गयी है।

23 प्रशासनिक व्यय

23.1 बजट प्राक्कलन 2025-2026 में प्रशासन पर खर्च के लिए 252781 लाख का प्रावधान किया गया है। इसमें 2024-2025 के परिशोधित अनुमानों में 116671 लाख के मुकाबले वेतन और भत्ते के लिए 120787 लाख शामिल हैं। परिशोधित प्राक्कलन 2024-2025 के आंकड़ों में 4116 लाख की वृद्धि अपेक्षित भर्ती, वेतन वृद्धि के प्रभाव, महंगाई भत्ते में अनुमानित वृद्धि, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, नई पेंशन योजना में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की हिस्सेदारी के कारण हुई है।

23.2 "अन्य प्रशासनिक व्यय" के तहत 77010 लाख रुपये का प्रावधान माल की कीमत और सेवाओं की लागत, भर्ती व्यय, कार्यालय भवन की मरम्मत और रखरखाव में वृद्धि और कार्यालय भवन और अन्य परिसंपत्तियों पर मूल्यहास को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

23.3 वर्ष 2025-2026 के लिए, कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक लागत 8 प्रतिशत है।

लैंगिक और बाल बजट

24 क.रा.बी. योजना के तहत सभी बजट शीर्षों में 2025-2026 के लिए बजट प्राक्कलन में महिलाओं के लिए लगभग ₹ 648434 लाख (कन्या बालिका के लिए बजट प्रावधान ₹ 594522 लाख सहित) तय किया गया है।

महिलाओं के लिए प्रमुख शीर्ष-वार लैंगिक बजट प्रावधान का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	योजना/बजट शीर्ष का विवरण	बजट प्राक्कलन 2025 - 26 (लाख में)
	महिलाओं के लिए 100 प्रतिशत प्रावधान	
1.	मातृत्व हितलाभ योजना	53292.00
2.	बीमाकृत महिलाओं और बीमाकृत व्यक्तियों की पत्नियों को प्रसव भत्ता	620.00
	महिलाओं के लिए (प्रावधान का कम से कम 30 प्रतिशत)	
3.	चिकित्सा हितलाभ योजना	534130.00
4.	नकद हितलाभ योजना (प्रसूति हितलाभ योजना के अतिरिक्त)	60392.00
	कुल	648434.00

25 पूंजी निर्माण और आकस्मिक आरक्षित निधि में योगदान

25.1 इस मद में बजट अनुमान 2025-26 में अनुमानित अंशदान आय के 1 प्रतिशत की दर से गणना करके 22206 लाख का प्रावधान किया गया है। अनुमानित कार्यों का विवरण परिशिष्ट-III पर है।

25.2 आकस्मिक आरक्षित निधि के संबंध में 2025-2026 के बजट प्राक्कलनों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि निधि में शेष राशि ₹ 7500 लाख के निर्धारित स्तर पर बनी हुई है।



22 The expenditure on benefits as a percentage of income from contribution is under:

BENEFIT	2020-21 Actuals	2021-22 Actuals	2022-23 Actuals	2023-24 Actuals	2024-25 RE	2025-26 BE
Medical Benefit (%)	69.12	71	67	70	77	80
Cash and Other Benefits (%)	20.06	32	16	17	15	11

23 Administrative Expenses

- 23.1 A provision of ₹ 252781 Lakhs has been made for expenses on administration in the Budget Estimates 2025-2026. It includes ₹ 120787 Lakhs towards Pay & Allowances against ₹ 116671 Lakhs in the Revised Estimates for 2024-2025. The increase of ₹ 4116 Lakhs over the figures of Revised Estimates 2024-2025 is due to expected recruitments, impact of increments, projected increase in dearness allowance, promotion, retirement, ESIC's share of New Pension Scheme.
- 23.2 The provision for ₹ 77010 Lakhs under "Other Administrative Expenses" has been made keeping in view the increase in price of goods and cost of services, Recruitment expenses, Repair & Maintenance of Office building and Depreciation on Office Building & Other Assets.
- 23.3 The Administrative Cost as a percentage of totals Revenue works out to 8 percent for the year 2025-2026.

Gender and Child Budget

- 24 Across all budget heads under ESI Scheme an approximate budget provision for Women has been worked out at ₹ 648434 Lakhs (including budget provision for female child at ₹ 16000 Lakhs) in the Budget Estimates 2025-2026.

Major Head-Wise Gender Budget provision for Women as detailed give below:

Sl. No.	Details of Scheme / Budget Head	Budget Estimates 2025 - 26 (₹ in Lakhs)
	100 percent provision towards women	
1.	Maternity Benefit Scheme	53292.00
2.	Confinement Allowance to Insured Women & Wives of IPs	620.00
	Pro-women (at least 30 percent of provision)	
3.	Medical Benefit Scheme	534130.00
4.	Cash Benefit Scheme (other than Maternity Benefit Scheme)	60392.00
	Total	648434.00

25 Contribution to Capital Construction & Contingency Reserve Funds

- 25.1 Provision of ₹ 22206 Lakhs calculated at the rate of 1 percent of projected contribution income in BE 2025-26 has been made under this head. The details of estimated works are at Appendix-III.
- 25.2 No provision has been made in the Budget Estimates for 2025-2026 in respect of Contingency Reserve Fund as the balance in the Fund continues to remain at the prescribed level of ₹ 7500 Lakhs.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

26 पूंजीगत खाते पर व्यय

26.1 बजट प्राक्कलन 2025-2026 के लिए विभिन्न शीर्षों के तहत पूंजीगत खाता परिव्यय पर किया गया अनुमान निम्नानुसार है:

- | | |
|---|--------------|
| (i) चिकित्सा संस्थानों के लिए | ₹ 20018 लाख। |
| (ii) अस्पतालों/औषधालयों के लिए | ₹ 303442 लाख |
| (iii) क्षेत्रीय कार्यालयों/उप क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए | ₹ 8225 लाख |

26.2 2025-2026 के बजट अनुमानों में, गैर-परियोजना पूंजीगत व्यय पर ₹ 92941 लाख के व्यय का अनुमान किया गया है, जिसमें कंप्यूटर के लिए ₹ 11000 लाख और उपकरणों (कार्यालय और चिकित्सा उपकरण दोनों) के लिए ₹ 78886 लाख का बड़ा व्यय शामिल है।

27 व्यय की तुलना में आय की अधिकता

2024-2025 के परिशोधित अनुमानों में ₹ 734901.99 लाख की तुलना में 2025-2026 के बजट प्राक्कलनों में राजस्व खाते पर व्यय पर ₹ 809355.35 लाख की आय की शुद्ध अधिकता का अनुमान लगाया गया है।

राजस्व खाते पर प्राप्ति और व्यय के अलावा, वित्तीय विवरण अर्थात् विवरण क-प्राप्तियां और विवरण ख-व्यय में खाते के अन्य शीर्षों जैसे ऋण जमाराशि, आरक्षित निधि, अग्रिम, विप्रेषण और नकद शेष आदि के संबंध में अनुमान भी निहित होते हैं। वार्षिक अंशदान के रूप में आरक्षित निधियों के संबंध में प्रावधान और संबंधित आरक्षित निधियों में शेष के निवेश पर ब्याज जमा करना प्राप्ति पक्ष पर दर्शाया गया है। आरक्षित निधियों में पहले से उपलब्ध शेष राशि में वृद्धि या निकासी को वर्ष के दौरान आरक्षित निधि निवेश के विस्तृत शीर्ष के सामने व्यय पक्ष पर दर्शाया गया है।

28 अंतः नकद शेष

बैंकों के पास और हाथ में अंतिम नकद शेष 31 मार्च, 2025 और 2026 को ₹ 2500 लाख होने का अनुमान है। यह अनुमान है कि 31.3.2025 और 31.03.2026 को खाता संख्या 1 (संग्रह खाते) और खाता संख्या 2 में ₹ 2500 लाख की समेकित राशि बनी रह सकती है। तथापि, जहां तक संभव हो, हाथ/बैंक में नकदी न्यूनतम सीमा तक ही सीमित रहेगी।

29 परिशिष्ट-II में दिए गए विवरण से पता चलता है

- क. अंशदान से प्रति व्यक्ति आय;
- ख. राजस्व खाते पर प्रति व्यक्ति व्यय और
- ग. अंशदान आय में अंतर.

टी. एल. यादेन

(टी. एल. यादेन)

वित्त आयुक्त



26 EXPENDITURE ON CAPITAL ACCOUNT

26.1 The projections made towards Capital Account Outlay for Budget Estimates 2025-2026 under various heads are as follows: -

- (i) For Medical Institutions ₹ 20018 Lakhs.
- (ii) For Hospitals/Dispensaries ₹ 303442 Lakhs
- (iii) For ROs/SROs ₹ 8225 Lakhs

26.2 In the Budget Estimates for 2025-2026, the expenditure on Non-Project capital expenditure has been estimated at ₹ 92941 Lakhs which includes major expenditure of ₹ 11000 Lakhs for Computers and ₹ 78886 Lakhs for Equipment (both Office & Medical equipment).

27 EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE

A net excess of ₹ 809355.35 Lakhs of income over expenditure on revenue account has been anticipated in the Budget Estimates for 2025-2026, as compared to that of ₹ 734901.99 Lakhs in Revised Estimates for 2024-2025.

Apart from the receipt and expenditure on revenue account, the financial statement, viz. Statement A-Receipts and Statement B-Expenditure also contain the estimates in respect of other heads of account, viz. Debt Deposits, Reserve Funds, Advances, Remittances and Cash balance etc. The provision in respect of reserve funds by way of annual contribution and credit of interest on investment of the balances in the concerned reserve funds are indicated on the receipt side. Addition to or withdrawals from the balance already available in reserve funds have been shown on the expenditure side against the detailed head of Reserve Funds Investment during the year.

28 CLOSING CASH BALANCE

The closing cash balance with banks and cash in hand is anticipated at ₹ 2500 Lakhs on 31st March, 2025 and 2026. It is anticipated that a consolidated amount of ₹ 2500 Lakhs may remain in Account No.1 (Collection Accounts) and Account No. 2 as on 31.3.2025 and 31.03.2026. However, the cash in hand/bank will be restricted to the bare minimum as far as feasible.

29. The Statement in Appendix-II shows:

- a. Per capita income from contributions.
- b. Per capita expenditure on revenue account and
- c. Margin in contribution income.

Mod
02/12/24
T.L. YADEN
FINANCIAL COMMISSIONER



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

वर्ष 2024-2025 के लिए परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2025-2026 के लिए बजट प्राक्कलन विवरण-क प्राप्ति					
	खाता शीर्ष	वास्तविक 2023-2024	बजट प्राक्कलन 2024-2025	परिशोधित प्राक्कलन 2024-2025	बजट प्राक्कलन 2025-2026
(₹ लाख में)					
	राजस्व के मुख्य शीर्ष				
i.	अंशदान	1831518.45	2296800.00	2018700.00	2220600.00
ii.	चिकित्सा हितलाभ पर राज्य सरकार का हिस्सा. जो प्रारंभ में निगम द्वारा वहन किया जा रहा था।	0.00	0.00	0.00	0.00
	राजस्व के अन्य शीर्ष				
iii.	ब्याज	743296.15	791134.00	814346.00	873735.00
iv.	किराया, दरें और कर				
	I. निगम का कार्यालय (स्टाफ क्वार्टर सहित)	236.45	300.00	300.00	300.00
	II. अस्पताल और औषधालय (स्टाफ क्वार्टर सहित)	7172.67	24486.00	7300.00	8000.00
v.	शुल्क, जुर्माना और जब्ती	5381.54	6150.00	6150.00	6150.00
vi.	चिकित्सा शिक्षा प्राप्ति	6566.74	7100.00	7100.00	7100.00
vii.	विविध	31029.46	4500.00	4500.00	4500.00
	कुल राजस्व	2625201.46	3130470.00	2858396.00	3120385.00
	ऋण, आरक्षित निधि, जमा, अग्रिम और विप्रेषण				
	साधारण ऋण, राज्य सरकार (महाराष्ट्र) द्वारा वापस किए गए ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल साधारण ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00
	अवित्तपोषित कर्ज				
	क.रा.बी.निगम सामान्य भविष्य निधि				
i.	कर्मचारियों का अंशदान	13505.19	14000.00	13228.00	13900.00
ii.	कर्मचारियों के अंशदान पर ब्याज	8417.32	9200.00	8838.00	9300.00
iii.	कुल अवित्तपोषित ऋण	21922.51	23200.00	22066.00	23200.00
	आरक्षित निधियाँ				
क	स्टाफ क्वार्टरों सहित निगम के कार्यालयों के लिए भवन का मूल्यहास आरक्षित निधि खाता।				
i.	निधि में स्थानांतरित वार्षिक मूल्यहास शुल्क	739.32	946.00	990.00	990.00
ii.	निवेश पर प्राप्त ब्याज	0.00	1.00	152.00	163.00

Financial Estimates and Performance Budget 2025-2026



STATEMENT-A RECEIPT					
REVISED ESTIMATES FOR THE YEAR 2024-2025					
BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 2025-2026					
	Head of Account	Actual 2023-2024	Budget Estimates 2024-2025	Revised Estimates 2024-2025	Budget Estimates 2025-2026
(₹ in Lakhs)					
	Principal Heads of Revenue				
i.	CONTRIBUTION	1831518.45	2296800.00	2018700.00	2220600.00
ii.	State Govts. Share towards medical benefit initially incurred by the Corporation	0.00	0.00	0.00	0.00
	Other Heads of Revenue				
iii.	Interest	743296.15	791134.00	814346.00	873735.00
iv.	Rent, Rates & Taxes				
	I. Office of the Corporation (including staff quarters)	236.45	300.00	300.00	300.00
	II. Hospitals & Dispensaries (including staff quarters)	7172.67	24486.00	7300.00	8000.00
v.	Fees, Fines & Forfeiture	5381.54	6150.00	6150.00	6150.00
vi.	Medical Education Receipts	6566.74	7100.00	7100.00	7100.00
vii.	Miscellaneous	31029.46	4500.00	4500.00	4500.00
	TOTAL REVENUE	2625201.46	3130470.00	2858396.00	3120385.00
	Debts, Reserve Funds, Deposits, Advances and Remittances				
	Ordinary debt, loans refunded by the State Govt.(Maharashtra)	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ORDINARY DEBT	0.00	0.00	0.00	0.00
	Unfunded Debts ESIC General Provident Fund				
I.	Employees' subscription	13505.19	14000.00	13228.00	13900.00
ii.	Interest on employees' subscription	8417.32	9200.00	8838.00	9300.00
iii.	Total unfunded debts	21922.51	23200.00	22066.00	23200.00
	Reserve Funds:				
A	Depreciation Reserve Fund Account of building for the offices of Corporation including staff quarters.				
i.	Annual depreciation charges transferred to the fund	739.32	946.00	990.00	990.00
ii.	Interest realised on investment	0.00	1.00	152.00	163.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

वर्ष 2024-2025 के लिए परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2025-2026 के लिए बजट प्राक्कलन विवरण-क प्राप्ति					
	खाता शीर्ष	वास्तविक 2023-2024	बजट प्राक्कलन 2024-2025	परिशोधित प्राक्कलन 2024-2025	बजट प्राक्कलन 2025-2026
(₹ लाख में)					
iii.	अन्य प्राप्तियाँ	-2292.13	147.00	0.00	0.00
iv.	कटौती - वर्ष के दौरान अग्रिम।	-2413.08	-16402.00	-7944.00	-9264.00
ख	अस्पताल और औषधालय भवन (स्टाफ क्वार्टरों सहित) का मूल्यहास आरक्षित निधि खाता।				
i.	निधि में स्थानांतरित वार्षिक मूल्यहास शुल्क	8402.07	30077.00	12184.00	20681.00
ii.	निवेश पर प्राप्त ब्याज	10929.16	11423.00	11734.00	12587.00
iii.	अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
iv.	कटौती- वर्ष के दौरान अग्रिम	-5507.72	-53828.00	-23739.00	-28634.00
ग	चिकित्सा शिक्षा भवन के लिए मूल्यहास आरक्षित निधि				
i.	निधि में स्थानांतरित वार्षिक मूल्यहास शुल्क	17099.81	25800.00	25800.00	25800.00
ii.	अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
iii.	निवेश पर प्राप्त ब्याज	7950.89	5493.00	5643.00	6053.00
iv.	वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान में कटौती	-184.67	-5985.00	-3505.00	-4403.00
घ	अन्य परिसंपत्तियों का मूल्यहास आरक्षित निधि खाता (संयंत्र और मशीनरी, फर्नीचर और वाहन)				
i.	निधि में स्थानांतरित वार्षिक मूल्यहास शुल्क	37593.84	71901.00	62665.00	75312.00
ii.	निवेश पर प्राप्त ब्याज	21142.85	16061.00	16499.00	17697.00
iii.	अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
iv.	कटौती- वर्ष के दौरान अग्रिम	0.00	0.00	0.00	0.00
ङ	स्थायी (आंशिक और कुल) अपंगता हितलाभ आरक्षित निधि खाता				
i.	वार्षिक प्रावधान	103032.50	58600.00	84959.00	45785.00
ii.	अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00

Financial Estimates and Performance Budget 2025-2026



STATEMENT-A RECEIPT					
REVISED ESTIMATES FOR THE YEAR 2024-2025					
BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 2025-2026					
	Head of Account	Actual 2023-2024	Budget Estimates 2024-2025	Revised Estimates 2024-2025	Budget Estimates 2025-2026
(₹ in Lakhs)					
iii.	Other Receipts	2292.13	147.00	0.00	0.00
iv.	Deduct -Advances during the year.	-2413.08	-16402.00	-7944.00	-9264.00
B	Depreciation Reserve Fund Account of Hospital and Dispensary Building (including staff quarters).				
i.	Annual depreciation charges transferred to the fund	8402.07	30077.00	12184.00	20681.00
ii.	Interest realised on investment	10929.16	11423.00	11734.00	12587.00
iii.	Other Receipts	0.00	0.00	0.00	0.00
iv.	Deduct-Advances during the year	-5507.72	-53828.00	-23739.00	-28634.00
C	Depreciation reserve fund for Medical Education Building				
i.	Annual depreciation charges transferred to the fund	17099.81	25800.00	25800.00	25800.00
ii.	Other receipts	0.00	0.00	0.00	0.00
iii.	Interest realised on investment	7950.89	5493.00	5643.00	6053.00
iv.	Deduct actual payments during the year	-184.67	-5985.00	-3505.00	-4403.00
D	Depreciation Reserve Fund Account of Other Assets (Plant & Machinery, Furniture & Vehicles)				
i.	Annual depreciation charges transferred to the fund	37593.84	71901.00	62665.00	75312.00
ii.	Interest realised on investment	21142.85	16061.00	16499.00	17697.00
iii.	Other Receipts	0.00	0.00	0.00	0.00
iv.	Deduct -Advances during the year.	0.00	0.00	0.00	0.00
E	Permanent (Partial & total) Disablement Benefit Reserve Fund Account				
i.	Annual Provisions	103032.50	58600.00	84959.00	45785.00
ii.	Other receipts	0.00	0.00	0.00	0.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

वर्ष 2024-2025 के लिए परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2025-2026 के लिए बजट प्राक्कलन विवरण-क प्राप्ति					
	खाता शीर्ष	वास्तविक 2023-2024	बजट प्राक्कलन 2024-2025	परिशोधित प्राक्कलन 2024-2025	बजट प्राक्कलन 2025-2026
(₹ लाख में)					
iii.	निवेश पर प्राप्त ब्याज	70771.43	76000.00	78041.00	83715.00
iv.	घटायें - वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान	-37473.77	-37600.00	-42300.00	-47800.00
च	आश्रित हितलाभ आरक्षित निधि खाता				
i.	वार्षिक प्रावधान	99435.95	71000.00	91762.00	71217.00
ii.	अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
iii.	निवेश पर प्राप्त ब्याज	49675.11	26000.00	26738.00	28683.00
iv.	घटायें - वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान	-40429.18	-38000.00	-46500.00	-53500.00
	क.रा.बी.नि. कोविड-19 राहत योजना आरक्षित निधि खाता				
i.	वर्ष के लिए पेंशन का प्रावधान	-27945.00	7600.00	5480.00	3280.00
ii.	अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
iii.	निवेश पर प्राप्त ब्याज	8495.55	4000.00	4120.00	4420.00
iv.	वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान घटायें	-7974.66	-13100.00	-8000.00	-8000.00
छ	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि पेंशन				
i.	वर्ष के लिए वार्षिक प्रावधान	91978.00	34800.00	35131.00	18823.00
ii.	अन्य प्राप्तियाँ	198.40	0.00	30.00	0.00
iii.	निवेश पर प्राप्त ब्याज	81734.55	95200.00	97769.00	104877.00
iv.	वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान घटाएं	-60347.00	-72200.00	-67000.00	-70400.00
ज	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि - ग्रेच्युटी				
i.	वर्ष के लिए वार्षिक प्रावधान	9453.00	19900.00	13735.00	11985.00
ii.	अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
iii.	निवेश पर प्राप्त ब्याज	7142.66	7400.00	7565.00	8115.00
iv.	वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान घटाएं	-5615.00	-5200.00	-6500.00	-6800.00

Financial Estimates and Performance Budget 2025-2026



सत्यमेव जयते



STATEMENT-A RECEIPT					
REVISED ESTIMATES FOR THE YEAR 2024-2025					
BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 2025-2026					
	Head of Account	Actual 2023-2024	Budget Estimates 2024-2025	Revised Estimates 2024-2025	Budget Estimates 2025-2026
(₹ in Lakhs)					
iii.	Interest released on investment	70771.43	76000.00	78041.00	83715.00
iv.	Deduct-actual payments during the year	-37473.77	-37600.00	-42300.00	-47800.00
F	Dependents Benefit Reserve Fund Account				
i.	Annual Provisions	99435.95	71000.00	91762.00	71217.00
ii.	Other receipts	0.00	0.00	0.00	0.00
iii.	Interest realised on investment	49675.11	26000.00	26738.00	28683.00
iv.	Deduct-actual payments during the year	-40429.18	-38000.00	-46500.00	-53500.00
	ESIC COVID-19 Relief Scheme Reserve Fund Account				
I.	Provision for pension for the year	-27945.00	7600.00	5480.00	3280.00
ii.	Other receipts	0.00	0.00	0.00	0.00
iii.	Interest realised on investment	8495.55	4000.00	4120.00	4420.00
iv.	Deduct actual payments during the year	-7974.66	-13100.00	-8000.00	-8000.00
G	Employees Benefit Reserve Fund - Pension				
I.	Annual Provision for the year	91978.00	34800.00	35131.00	18823.00
ii.	Other receipts	198.40	0.00	30.00	0.00
iii.	Interest realized on investment	81734.55	95200.00	97769.00	104877.00
iv.	Deduct actual payments during the year	-60347.00	-72200.00	-67000.00	-70400.00
H	Employees Benefit Reserve Fund - Gratuity				
I.	Annual Provisions for the year	9453.00	19900.00	13735.00	11985.00
ii.	Other receipts	0.00	0.00	0.00	0.00
iii.	Interest realized on investment	7142.66	7400.00	7565.00	8115.00
iv.	Deduct actual payments during the year	-5615.00	-5200.00	-6500.00	-6800.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

वर्ष 2024-2025 के लिए परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2025-2026 के लिए बजट प्राक्कलन विवरण-क प्राप्ति					
	खाता शीर्ष	वास्तविक 2023-2024	बजट प्राक्कलन 2024-2025	परिशोधित प्राक्कलन 2024-2025	बजट प्राक्कलन 2025-2026
(₹ लाख में)					
झ	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि अवकाश नकदीकरण				
i.	वर्ष के लिए वार्षिक प्रावधान	4736.00	26000.00	23252.00	25010.00
ii.	अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
iii.	निवेश पर प्राप्त ब्याज	7800.06	7300.00	7448.00	7990.00
iv.	घटाएं - वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान	-3744.00	-3700.00	-5000.00	-5300.00
ञ	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि - पेंशनभोगी चिकित्सा योजना				
i.	वर्ष के लिए वार्षिक प्रावधान	742.51	2200.00	11485.00	12750.00
ii.	पेंशनभोगियों से प्राप्त अंशदान	237.00	200.00	270.00	270.00
iii.	निवेश पर प्राप्त ब्याज	1339.35	1800.00	1845.00	1980.00
iv.	घटाएं - वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान	-2054.00	-2500.00	-2100.00	-2200.00
ट	पूंजी निर्माण निधि खाता				
i.	फंड में हस्तांतरित वार्षिक राशि	18315.00	0.00	20187.00	22206.00
ii.	अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
iii.	वर्ष के दौरान भवनों के लिए निर्माण एजेंसियों को दिए गए अग्रिम की कटौती				
अ.	निगम के कार्यालय (कर्मचारी आवास के साथ)	-932.60	-10523.00	-3613.00	-8225.00
आ.	अस्पताल और औषधालय	-102388.66	-331090.00	-152972.00	-303442.00
ई.	चिकित्सा शिक्षा परियोजनाएं	-1752.83	-56205.00	-6552.00	-20018.00
ठ	आकस्मिक आरक्षित निधि खाता	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल आरक्षित निधि	362474.99	-46484.00	269759.00	42403.00
	जमा				
i.	प्रतिभृतियों की जमा राशि	1598.56	2000.00	1200.00	2000.00

Financial Estimates and Performance Budget 2025-2026



STATEMENT-A RECEIPT					
REVISED ESTIMATES FOR THE YEAR 2024-2025					
BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 2025-2026					
	Head of Account	Actual 2023-2024	Budget Estimates 2024-2025	Revised Estimates 2024-2025	Budget Estimates 2025-2026
(₹ in Lakhs)					
I	Employees Benefit Reserve Fund - Leave Encashment				
i.	Annual Provision for the year	4736.00	26000.00	23252.00	25010.00
ii.	Other receipts	0.00	0.00	0.00	0.00
iii.	Interest realised on investment	7800.06	7300.00	7448.00	7990.00
iv.	Deduct actual payments during the year	-3744.00	-3700.00	-5000.00	-5300.00
J	Employees Benefit Reserve Fund - Pensioner's Medical Scheme				
i.	Annual Provision for the year	742.51	2200.00	11485.00	12750.00
ii.	Contribution received from pensioners	237.00	200.00	270.00	270.00
iii.	Interest realised on investment	1339.35	1800.00	1845.00	1980.00
iv.	Deduct actual payments during the year	-2054.00	-2500.00	-2100.00	-2200.00
K	Capital construction fund account				
i.	Annual amount transferred to the fund	18315.00	0.00	20187.00	22206.00
ii.	Other receipts	0.00	0.00	0.00	0.00
iii.	Deduct advances to Construction Agencies during the year for buildings for				
a.	Offices of the corporation (with staff quarters)	-932.60	-10523.00	-3613.00	-8225.00
b.	Hospitals & Dispensaries	-102388.66	-331090.00	-152972.00	-303442.00
c.	Medical Education Projects	-1752.83	-56205.00	-6552.00	-20018.00
L	Contingency Reserve Fund Account				
		0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Reserve Funds	362474.99	-46484.00	269759.00	42403.00
	Deposits				
i.	Deposit of securities	1598.56	2000.00	1200.00	2000.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

वर्ष 2024-2025 के लिए परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2025-2026 के लिए बजट प्राक्कलन विवरण-क प्राप्ति					
	खाता शीर्ष	वास्तविक 2023-2024	बजट प्राक्कलन 2024-2025	परिशोधित प्राक्कलन 2024-2025	बजट प्राक्कलन 2025-2026
(₹ लाख में)					
ii.	अन्य जमा	5596.64	3300.00	5000.00	3300.00
iii.	कुल जमा	7195.20	5300.00	6200.00	5300.00
	अग्रिम				
i.	स्थायी अग्रिम	0.11	20.00	5.00	5.00
ii.	निगम के कर्मचारियों को अग्रिम:				
अ.	स्थानांतरण पर भुगतान का अग्रिम	0.34	2.00	2.00	2.00
आ.	स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता का अग्रिम	1.35	6.00	5.00	6.00
इ.	दौरे पर यात्रा भत्ता का अग्रिम	186.92	200.00	210.00	210.00
ई.	छुट्टी यात्रा रियायत के लिए अग्रिम	478.56	5000.00	500.00	500.00
उ.	मोटर वाहन की अग्रिम खरीद	1.08	4.00	4.00	4.00
ऊ.	अन्य वाहन की खरीद का अग्रिम	-0.08	1.00	1.00	1.00
ए.	भवन निर्माण अग्रिम	134.34	150.00	160.00	160.00
ऐ.	कंप्यूटर अग्रिम	283.55	300.00	350.00	350.00
ओ.	विविध अग्रिम (ल्योहार अग्रिम, बाढ़ अग्रिम, चिकित्सा तथा पंखा अग्रिम)	83.25	150.00	150.00	150.00
iii.	अन्य अग्रिम:				
अ.	राज्य सरकार/निर्माण/कर्मचारी बीमा न्यायालय को भुगतान किए गए अग्रिम	0.00	1000.00	2000.00	2000.00
आ.	विविध	28344.23	21000.00	30000.00	30000.00
इ.	विशेष अग्रिम	64.34	52.00	70.00	70.00
	कुल अग्रिम (I+II+III)	29577.99	27885.00	33457.00	33458.00
	विप्रेषण				
i.	नकद प्रेषण (अ)	1842543.12	4000000.00	2000000.00	2000000.00
ii.	अन्य प्रेषण (आ)	1967566.85	30000.00	2000000.00	2000000.00
	कुल प्रेषण:	3810109.97	4030000.00	4000000.00	4000000.00
	कुल ऋण, आरक्षित निधि, जमा, अग्रिम और प्रेषण आदि।	4231280.66	4039901.00	4331482.00	4104361.00
	कुल प्राप्तियाँ	6856482.12	7170371.00	7189878.00	7224746.00
	प्रारंभिक नकद शेष राशि	3299.00	2500.00	5902.40	2500.00

Financial Estimates and Performance Budget 2025-2026



सत्यमेव जयते



STATEMENT-A RECEIPT					
REVISED ESTIMATES FOR THE YEAR 2024-2025					
BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 2025-2026					
	Head of Account	Actual 2023-2024	Budget Estimates 2024-2025	Revised Estimates 2024-2025	Budget Estimates 2025-2026
(₹ in Lakhs)					
ii.	Other Deposits	5596.64	3300.00	5000.00	3300.00
iii.	Total Deposits	7195.20	5300.00	6200.00	5300.00
Advances					
i.	Permanent advances	0.11	20.00	5.00	5.00
ii.	Advance to employees of the Corporation:				
a.	Advance of pay on transfer	0.34	2.00	2.00	2.00
b.	Advance of TA on transfer	1.35	6.00	5.00	6.00
c.	Advance of TA on Tour	186.92	200.00	210.00	210.00
d.	Advance for LTC	478.56	5000.00	500.00	500.00
e.	Advance purchase of motor conveyance	1.08	4.00	4.00	4.00
f.	Advance of purchase of other conveyance	-0.08	1.00	1.00	1.00
g.	House Building Advance	134.34	150.00	160.00	160.00
h.	Computer advances	283.55	300.00	350.00	350.00
i.	Miscellaneous advances (festival advance, flood advance, medical & fan advance)	83.25	150.00	150.00	150.00
iii.	Other Advances:				
a.	Advances paid to State Govt./construction/ E.I. Court	0.00	1000.00	2000.00	2000.00
b.	Miscellaneous	28344.23	21000.00	30000.00	30000.00
c.	Special Advance	64.34	52.00	70.00	70.00
Total Advance(I+II+III)		29577.99	27885.00	33457.00	33458.00
Remittances					
i.	Cash Remittances(a)	1842543.12	4000000.00	2000000.00	2000000.00
ii.	Other Remittances(b)	1967566.85	30000.00	2000000.00	2000000.00
TOTAL REMITTANCES:		3810109.97	4030000.00	4000000.00	4000000.00
Total debts, reserve Funds, deposits, advances and remittances etc.		4231280.66	4039901.00	4331482.00	4104361.00
TOTAL RECEIPTS:		6856482.12	7170371.00	7189878.00	7224746.00
Opening Cash balance		3299.00	2500.00	5902.40	2500.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

वर्ष 2024-2025 के लिए परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2025-2026 के लिए बजट प्राक्कलन विवरण-क प्राप्ति					
खाता शीर्ष	वास्तविक 2023-2024	बजट प्राक्कलन 2024-2025	परिशोधित प्राक्कलन 2024-2025	बजट प्राक्कलन 2025-2026	खाता शीर्ष
(₹ लाख में)					
	सकल कुल प्राप्तियां:	6859781.12	7172871.00	7195780.40	7227246.00

टी. एल. यादेन

(टी. एल. यादेन)

वित्त आयुक्त

Financial Estimates and Performance Budget 2025-2026



STATEMENT-A RECEIPT				
REVISED ESTIMATES FOR THE YEAR 2024-2025				
BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 2025-2026				
Head of Account	Actual 2023-2024	Budget Estimates 2024-2025	Revised Estimates 2024-2025	Budget Estimates 2025-2026
(₹ in Lakhs)				
GRAND TOTAL RECEIPTS:	6859781.12	7172871.00	7195780.40	7227246.00

Mod
02/12/24
T.L. YADEN
FINANCIAL COMMISSIONER



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

वर्ष 2024-2025 के लिए परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2025-2026 के लिए बजट प्राक्कलन विवरण-ख व्यय				
खाता शीर्ष	वास्तविक 2023-2024	बजट प्राक्कलन 2024-2025	परिशोधित प्राक्कलन 2024-2025	बजट प्राक्कलन 2025-2026
(₹ लाख में)				
राजस्व खाते पर व्यय				
1	बीमाकृत व्यक्तियों और उनके परिवारों को हित लाभ:			
क	चिकित्सा हितलाभ:			
I.	चिकित्सा देखभाल उपचार और प्रसूति सुविधाओं पर व्यय के निगम के हिस्से के रूप में राज्य सरकारों को भुगतान। (बढ़ी हुई अधिकतम सीमा और अंतिम समायोजन के लिए अतिरिक्त प्रावधान) *			
	470574.00	579965.00	574196.00	680994.00
II.	निगम द्वारा सीधे वहन किए गए व्यय:			
अ.	व्यावसायजन्य रोग केंद्र/मॉडल अस्पतालों के साथ अस्पताल			
	485969.63	623040.00	566480.70	634534.36
आ.	अति विशिष्ट उपचार और द्वितीयक देखभाल (टाई-अप)			
	171015.40	225425.00	210063.66	232882.64
इ.	आयुष्मान भारत के तहत व्यय			
	0.00	200.00	200.00	200.00
ई.	औषधालय सह शाखा कार्यालय पर व्यय			
	10809.21	5200.00	10000.00	10000.00
उ.	बीमाकृत महिलाओं और बीमाकृत व्यक्तियों की पत्नियों को प्रसूति भत्ता			
	509.32	620.00	620.00	620.00
ऊ.	अस्पताल और औषधालय का मूल्यहास प्रावधान			
	20224.43	56419.00	31986.00	48585.00
ऋ.	मरम्मत और रखरखाव (अस्पताल और औषधालय)			
	26013.89	55448.00	36933.00	43109.00
ण)	अस्पताल और औषधालय के लिए किराया, किराए पर और कर।			
	3653.25	4000	4000.00	4000.00
ऐ)	संशोधित नियोजिता उपयोगिता औषधालय (एम-ईयूडी)			
	135.47	180.00	450.00	500.00
ओ)	बीमाकृत चिकित्सा व्यवसायी (आई.एम.पी.) /संशोधित बीमाकृत चिकित्सा व्यवसायी (एम. आई.एम.पी.)			
	959.32	950.00	1650.00	1800.00
औ)	स्वच्छता कार्य विधि योजना पर व्यय (एस.ए. पी.)			
	9.84	62.00	33.00	61.70
III.	चिकित्सा शिक्षा			
	84116.27	86520.00	116373.65	123767.75
	कुल-क - चिकित्सा हितलाभ :	1273990.04	1638029.00	1552986.01
ख	नकद हितलाभ:			
i.	बीमारी हितलाभ			
	43218.34	46070.00	50862.00	55597.00
ii.	विस्तारित बीमारी हितलाभ			
	6508.67	7170.00	7734.00	8469.00
iii.	मातृत्व हितलाभ			
	42898.47	49760.00	48695.00	53292.00
iv.	निःशक्तता हितलाभ			
अ.	अस्थायी निःशक्तता			
	9603.76	11980.00	10685.00	11702.00
आ.	स्थायी निःशक्तता (संबंधित उद्घष्टि निधि को स्थानांतरित राशि को इंगित करता है)			
	103032.50	58600.00	84959.00	45785.00

Financial Estimates and Performance Budget 2025-2026



STATEMENT-B EXPENDITURE					
REVISED ESTIMATES FOR THE YEAR 2024-2025					
BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 2025-2026					
	Head of Account	Actual 2023-2024	Budget Estimates 2024-2025	Revised Estimates 2024-2025	Budget Estimates 2025-2026
(₹ in Lakhs)					
Expenditure on Revenue Account					
1	Benefits to insured persons and their families:				
A	Medical Benefits:				
I.	Payment to State Govts. as Corporation's share of expenditure on medical care treatment & maternity facilities. (Additional provision for enhanced ceiling & final settlement) *	470574.00	579965.00	574196.00	680994.00
II.	Expenditure directly incurred by the Corporation on:				
a)	Hospital with occupational diseases centre/ Model Hospitals	485969.63	623040.00	566480.70	634534.36
b)	Super Speciality Treatment & Secondary Care(tie-up)	171015.40	225425.00	210063.66	232882.64
c)	Expenditure under Ayushman Bharat	0.00	200.00	200.00	200.00
d)	Expenditure on DCBO*	10809.21	5200.00	10000.00	10000.00
e)	Confinement Allowance to Insured Women & Wives of IPs	509.32	620.00	620.00	620.00
f)	Depreciation provision of Hospital & Dispensary	20224.43	56419.00	31986.00	48585.00
g)	Repairs & Maintenance (Hospital & Dispensary)	26013.89	55448.00	36933.00	43109.00
h)	Rent, Hired and Taxes for Hospital & Disp.	3653.25	4000	4000.00	4000.00
i)	Modified Employer Utility Dispensary(m-EUD)	135.47	180.00	450.00	500.00
j)	Insured Medical Practitioner (IMP)/Modified Insured Medical Practitioner (m-IMP)	959.32	950.00	1650.00	1800.00
k)	Expenditure on Swachhata Action Plan (SAP)	9.84	62.00	33.00	61.70
III.	Medical Education	84116.27	86520.00	116373.65	123767.75
	Total -A - Medical Benefit:	1273990.04	1638029.00	1552986.01	1781054.45
	B. Cash Benefits:				
i.	Sickness Benefit	43218.34	46070.00	50862.00	55597.00
ii.	Extended Sickness Benefit	6508.67	7170.00	7734.00	8469.00
iii.	Maternity Benefit	42898.47	49760.00	48695.00	53292.00
iv.	Disablement Benefits:				
a.	Temporary Disablement	9603.76	11980.00	10685.00	11702.00
b.	Permanent Disablement (Represent amount transferred to the respective earmarked fund)	103032.50	58600.00	84959.00	45785.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

वर्ष 2024-2025 के लिए परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2025-2026 के लिए बजट प्राक्कलन विवरण-ख व्यय					
	खाता शीर्ष	वास्तविक 2023-2024	बजट प्राक्कलन 2024-2025	परिशोधित प्राक्कलन 2024-2025	बजट प्राक्कलन 2025-2026
(₹ लाख में)					
v.	आश्रितजन हितलाभ (संबंधित निर्धारित निधि में स्थानांतरित की गई राशि को दर्शाता है)	99435.95	71000.00	91762.00	71217.00
vi.	अन्त्येष्टि व्यय	2852.49	3320.00	3132.00	3486.00
vii.	राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना	671.22	1020.00	1214.00	1311.00
viii.	अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना	61.81	160.00	413.00	459.00
ix.	क.रा.बी. निगम कोविड-19 राहत योजना (संबंधित निर्धारित निधि में स्थानांतरित की गई राशि को दर्शाता है)	0.00	7600.00	5480.00	3280.00
	कुल - ख - नकद हितलाभ	308283.21	256680.00	304936.00	254598.00
ग.	अन्य हितलाभ:				
i.	मेडिकल बोर्ड और अपील न्यायाधिकरण	41.39	21.00	42.00	47.00
ii.	बीमाकृत व्यक्ति को परिवहन शुल्क के रूप में भुगतान	113.50	94.00	150.00	150.00
iii.	मजदूरी की हानि के कारण बीमाकृत व्यक्ति को भुगतान	17.00	21.00	35.00	40.00
iv.	विविध	86.03	150.00	150.00	150.00
v.	बीमाकृत व्यक्ति को पुनर्वास भत्ता।	0.00	4.00	3.00	3.00
	कुल - ग - अन्य हितलाभ	257.92	290.00	380.00	390.00
	कुल शीर्ष-1 हितलाभ	1582531.18	1894999.00	1858302.01	2036042.45
2.	प्रशासनिक व्यय				
क.	अधीक्षण:				
	अधिकारी:				
i.	वेतन	7930.33	14000.00	10500.00	11000.00
ii.	भत्ते और मानदेय	6905.68	7000.00	10000.00	11000.00
iii.	बोनस	0.00	2.00	0.00	0.00
iv.	संविदा कर्मचारी	271.94	400.00	405.00	710.00
	कुल अधिकारी	15107.95	21402.00	20905.00	22710.00
	लिपिकवर्गीय स्थापना				
i.	वेतन	29046.65	40000.00	34000.00	35000.00
ii.	भत्ते और मानदेय	24779.14	22000.00	32000.00	32500.00
iii.	बोनस	847.77	850.00	1000.00	1050.00
iv.	संविदा कर्मचारी	100.96	200.00	170.00	180.00
	कुल लिपिकवर्गीय स्थापना:	54774.52	63050.00	67170.00	68730.00
	वर्ग घ स्टाफ				
i.	वेतन	72.61	85.00	85.00	85.00
ii.	भत्ते और मानदेय	53.91	75.00	60.00	62.00

Financial Estimates and Performance Budget 2025-2026



STATEMENT-B EXPENDITURE					
REVISED ESTIMATES FOR THE YEAR 2024-2025					
BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 2025-2026					
	Head of Account	Actual 2023-2024	Budget Estimates 2024-2025	Revised Estimates 2024-2025	Budget Estimates 2025-2026
(₹ in Lakhs)					
v.	Dependants' Benefit (Represent amount transferred to the respective earmarked fund)	99435.95	71000.00	91762.00	71217.00
vi	Funeral Expenses	2852.49	3320.00	3132.00	3486.00
vii.	Rajiv Gandhi Shramik Kalyan Yojna	671.22	1020.00	1214.00	1311.00
viii	Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojna	61.81	160.00	413.00	459.00
ix)	ESIC COVID-19 Relief Scheme (Represent amount transferred to the respective earmarked fund)	0.00	7600.00	5480.00	3280.00
	Total - B - Cash Benefits	308283.21	256680.00	304936.00	254598.00
	C. Other Benefits:				
i.	Medical Boards & Appeal Tribunals	41.39	21.00	42.00	47.00
ii	Payment to insured person on account of conveyance charges	113.50	94.00	150.00	150.00
iii.	Payment to insured person on account of loss of wages	17.00	21.00	35.00	40.00
iv.	Miscellaneous	86.03	150.00	150.00	150.00
v.	Rehabilitation allowance to IPs.	0.00	4.00	3.00	3.00
	Total -C - Other Benefits	257.92	290.00	380.00	390.00
	Total Head-1 Benefits	1582531.18	1894999.00	1858302.01	2036042.45
2.	Administrative Expenses				
	A. Superintendence:				
	Officers:				
i.	Pay	7930.33	14000.00	10500.00	11000.00
ii.	Allowances & Honoraria	6905.68	7000.00	10000.00	11000.00
iii.	Bonus	0.00	2.00	0.00	0.00
iv	Contractual employees	271.94	400.00	405.00	710.00
	Total Officers	15107.95	21402.00	20905.00	22710.00
	MINISTERIAL ESTABLISHMENT				
i.	Pay	29046.65	40000.00	34000.00	35000.00
ii.	Allowances & Honoraria	24779.14	22000.00	32000.00	32500.00
iii.	Bonus	847.77	850.00	1000.00	1050.00
iv	Contractual employees	100.96	200.00	170.00	180.00
	TOTAL MINISTERIAL ESTABLISHMENT:	54774.52	63050.00	67170.00	68730.00
	GROUP D STAFF				
i.	Pay	72.61	85.00	85.00	85.00
ii.	Allowances & Honoraria	53.91	75.00	60.00	62.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

वर्ष 2024-2025 के लिए परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2025-2026 के लिए बजट प्राक्कलन विवरण-ख व्यय					
	खाता शीर्ष	वास्तविक 2023-2024	बजट प्राक्कलन 2024-2025	परिशोधित प्राक्कलन 2024-2025	बजट प्राक्कलन 2025-2026
(₹ लाख में)					
iii.	बोनस	3.36	5.00	6.00	7.00
iv	संविदा कर्मचारी	72.35	120.00	80.00	100.00
	कुल वर्ग घ स्टाफ	202.23	285.00	231.00	254.00
	कुल क अधीक्षण (i)	70084.70	84737.00	88306.00	91694.00
	ख - फील्ड कार्य				
	अधिकारी				
i.	वेतन	193.07	800.00	350.00	400.00
ii.	भत्ते और मानदेय	163.82	750.00	350.00	400.00
iii.	बोनस	0.00	7.00	0.00	0.00
iv	संविदा कर्मचारी	1.67	12.00	3.00	3.00
	कुल-अधिकारी	358.56	1569.00	703.00	803.00
	लिपिकवर्गीय स्थापना				
i.	वेतन	12977.92	17000.00	14000.00	14000.00
ii.	भत्ते एवं मानदेय	10109.83	13000.00	13000.00	13500.00
iii.	बोनस	342.64	825.00	500.00	600.00
iv	संविदा कर्मचारी	6.55	100.00	12.00	13.00
	कुल लिपिकवर्गीय स्थापना	23436.94	30925.00	27512.00	28113.00
	वर्ग घ स्टाफ:				
i.	वेतन	31.29	32.00	33.00	42.00
ii.	भत्ते एवं मानदेय	22.37	28.00	26.00	30.00
iii.	बोनस	1.54	2.00	11.00	15.00
iv	संविदा कर्मचारी	60.34	100.00	80.00	90.00
	कुल वर्ग घ स्टाफ:	115.54	162.00	150.00	177.00
	कुल-ख- फील्ड कार्य (ii)	23911.04	32656.00	28365.00	29093.00
ग)	क अधीक्षण और ख - फील्ड कार्य अधिकारियों/स्टाफ के लिए सामान्य व्यय				
क.	कर्मचारी कल्याण व्यय	254.54	1300.00	1220.00	1540.00
ख.	छुट्टी वेतन एवं पेंशन अंशदान	29.30	270.00	360.00	370.00
ग.	अनुकंपा अनुदान	0.00	5.00	5.00	5.00
घ.	कर्मचारी भविष्य जमा लिंकड बीमा योजना	9.36	24.00	24.00	25.20
ड.	कर्मचारी हितलाभ पर व्यय (संबंधित निर्धारित निधि में स्थानांतरित की गई राशि को दर्शाता है)				
i .	पेंशन	55937.91	21824.00	22156.00	11881.00
ii.	उपदान (ग्रेच्युटी)	3278.29	7023.00	4889.00	4266.00
iii.	छुट्टी नकदीकरण	1581.46	8722.00	7858.00	8452.00
iv.	पेंशनर्स चिकित्सा योजना	742.51	2200.00	11485.00	12750.00
v.	नई पेंशन योजना में क.रा.बी. निगम का हिस्सा	7576.26	13550.00	13400.00	15500.00

Financial Estimates and Performance Budget 2025-2026



STATEMENT-B EXPENDITURE					
REVISED ESTIMATES FOR THE YEAR 2024-2025					
BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 2025-2026					
	Head of Account	Actual 2023-2024	Budget Estimates 2024-2025	Revised Estimates 2024-2025	Budget Estimates 2025-2026
					(₹ in Lakhs)
iii.	Bonus	3.36	5.00	6.00	7.00
iv.	Contractual employees	72.35	120.00	80.00	100.00
	Total Group-D staff	202.23	285.00	231.00	254.00
	Total A supdt.(i)	70084.70	84737.00	88306.00	91694.00
	B-Field work				
	Officers				
i.	Pay	193.07	800.00	350.00	400.00
ii.	Allowances & Honoraria	163.82	750.00	350.00	400.00
iii.	Bonus	0.00	7.00	0.00	0.00
iv.	Contractual employees	1.67	12.00	3.00	3.00
	Total-Officers	358.56	1569.00	703.00	803.00
	MINISTERIAL ESTABLISHMENT				
i.	Pay	12977.92	17000.00	14000.00	14000.00
ii.	Allowances & Honorarium	10109.83	13000.00	13000.00	13500.00
iii.	Bonus	342.64	825.00	500.00	600.00
iv.	Contractual employees	6.55	100.00	12.00	13.00
	TOTAL MINISTERIAL ESTABLISHMENT	23436.94	30925.00	27512.00	28113.00
	Group - D - Staff:				
i.	Pay	31.29	32.00	33.00	42.00
ii.	Allowances & Honorarium	22.37	28.00	26.00	30.00
iii.	Bonus	1.54	2.00	11.00	15.00
iv.	Contractual employees	60.34	100.00	80.00	90.00
	TOTAL GROUP-D-STAFF:	115.54	162.00	150.00	177.00
	Total-B-Field work (ii)	23911.04	32656.00	28365.00	29093.00
c)	Common Expenses for A-Supdt. & B-Field Work Officers/Staffs				
a.	Staff Welfare Expenses	254.54	1300.00	1220.00	1540.00
b.	Leave Salary & Pension Contribution	29.30	270.00	360.00	370.00
c.	Compassionate Grants	0.00	5.00	5.00	5.00
d.	PF Deposit Linked Insurance Scheme	9.36	24.00	24.00	25.20
e.	Exp. on Employee Benefits (represent amount transferred to the respective earmarked fund)				
	i. Pension	55937.91	21824.00	22156.00	11881.00
	ii. Gratuity	3278.29	7023.00	4889.00	4266.00
	iii. Leave Encashment	1581.46	8722.00	7858.00	8452.00
	iv. Pensioners' Medical Scheme	742.51	2200.00	11485.00	12750.00
	v. ESIC Share of New Pension Scheme	7576.26	13550.00	13400.00	15500.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

वर्ष 2024-2025 के लिए परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2025-2026 के लिए बजट प्राक्कलन विवरण-ख व्यय					
	खाता शीर्ष	वास्तविक 2023-2024	बजट प्राक्कलन 2024-2025	परिशोधित प्राक्कलन 2024-2025	बजट प्राक्कलन 2025-2026
(₹ लाख में)					
च.	जीएसएलआईएस में क.रा.बी. निगम का हिस्सा	4.99	175.00	191.00	195.00
	कुल - ग सामान्य व्यय (iii)	69414.62	55093.00	61588.00	54984.20
छ	कुल स्थापना व्यय (i+ii+iii)	163410.36	172486.00	178259.00	175771.2
	घ. अन्य प्रशासनिक व्यय				
1	बिजली और शक्ति (पावर)	2444.49	3670.00	3100.00	3500.00
2	जल प्रभार	193.19	365.00	290.00	350.00
3	बीमा	52.43	250.00	100.00	150.00
4	किराया, दरें और कर	4231.65	6000.00	6000.00	7000.00
5	वाहन, परिचालन एवं रखरखाव (किराया शुल्क सहित)	549.85	610.00	700.00	800.00
6	डाक, टेलीफोन और संचार शुल्क	1392.78	1560.00	1650.00	1700.00
7	मुद्रण और स्टेशनरी	509.86	850.00	650.00	750.00
8	यात्रा एवं परिवहन व्यय				
	क) निगम / स्थायी समिति / क्षेत्रीय बोर्ड / स्थानीय समिति	0.53	205.00	210.00	250.00
	ख) अन्य (क.रा.बी.निगम कर्मचारी)	1744.17	1650.00	2400.00	2500.00
9	संगोष्ठी / कार्यशालाओं पर व्यय	53.24	280.00	290.00	340.00
10	सदस्यता व्यय - पत्रिकाएँ	23.46	117.00	120.00	130.00
11	लेखा परीक्षा शुल्क	1.58	420.00	352.00	420.00
12	क) विधिक शुल्क	531.27	1150.00	1080.00	1220.00
	ख) विधिक विवाद के तहत पुरस्कार के भुगतान पर व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00
13	बीमा न्यायालय	12.42	300.00	250.00	265.00
14	आईएसएसए एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में योगदान	105.21	130.00	110.00	132.00
15	गृह प्रबंधन व्यय	2972.31	5450.00	5000.00	5500.00
16	स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी)	36.51	175.00	100.00	109.00
17	बैंक खाते बनाए रखने के लिए शुल्क और अन्य बैंक शुल्क	755.02	1360.00	250.00	270.00
18	हानि	0.54	0.00	1.00	1.00
19	मरम्मत और रखरखाव - कंप्यूटर और अन्य	9490.67	7520.00	10709.00	9177.00
20	भर्ती व्यय	617.41	10025.00	250.00	1000.00
21	राजस्व वसूली प्रकोष्ठ	60.15	203.00	210.00	250.00
22	विज्ञापन और प्रचार	1236.21	3500.00	2500.00	2800.00
23	पहरा व निगरानी (वॉच एंड वार्ड)	4734.19	7065.00	6300.00	7200.00
24	प्रशिक्षण	357.90	960.00	1150.00	1200.00
25	विविध*	1545.23	2800.00	2000.00	3000.00
26	कार्यालय भवन एवं स्टाफ क्वार्टरों की मरम्मत एवं रखरखाव	2944.21	15396.00	10654.00	12249.00
27	परामर्श सेवाएँ	158.31	225.00	150.00	250.00
28	निवेश प्रबंधन शुल्क	277.46	500.00	370.00	350.00

Financial Estimates and Performance Budget 2025-2026



STATEMENT-B EXPENDITURE					
REVISED ESTIMATES FOR THE YEAR 2024-2025					
BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 2025-2026					
	Head of Account	Actual 2023-2024	Budget Estimates 2024-2025	Revised Estimates 2024-2025	Budget Estimates 2025-2026
(₹ in Lakhs)					
f.	ESIC Share of GSLIS	4.99	175.00	191.00	195.00
	Total –C Common Expenses (iii)	69414.62	55093.00	61588.00	54984.20
I	TOTAL ESTABLISHMENT EXPENSES (i+ii+iii)	163410.36	172486.00	178259.00	175771.2
	D. Other Admin. Expenses				
1	Electricity and Power	2444.49	3670.00	3100.00	3500.00
2	Water Charges	193.19	365.00	290.00	350.00
3	Insurance	52.43	250.00	100.00	150.00
4	Rent, Rates and Taxes	4231.65	6000.00	6000.00	7000.00
5	Vehicles, Running and Maintenance (including Hire Charges)	549.85	610.00	700.00	800.00
6	Postage, Telephone and Communication Charge	1392.78	1560.00	1650.00	1700.00
7	Printing and Stationary	509.86	850.00	650.00	750.00
8	Travelling and Conveyance Expenses				
	a) Corporation / Standing Committee / Regional Board / Local Committee	0.53	205.00	210.00	250.00
	b) Others (ESIC Employees)	1744.17	1650.00	2400.00	2500.00
9	Expenses on Seminar / Workshops	53.24	280.00	290.00	340.00
10	Subscription Expenses - periodicals	23.46	117.00	120.00	130.00
11	Audit Fees	1.58	420.00	352.00	420.00
12	a) Legal Charges	531.27	1150.00	1080.00	1220.00
	b) Expenses on payment of award under legal dispute	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Insurance Courts	12.42	300.00	250.00	265.00
14	Contribution to ISSA & other International Organisations	105.21	130.00	110.00	132.00
15	House Keeping Expenses	2972.31	5450.00	5000.00	5500.00
16	Swachhata Action Plan (SAP)	36.51	175.00	100.00	109.00
17	Charges for maintaining bank accounts & other bank charges	755.02	1360.00	250.00	270.00
18	Losses	0.54	0.00	1.00	1.00
19	Repair and Maintenance - Computers & Others	9490.67	7520.00	10709.00	9177.00
20	Recruitment Expenses	617.41	10025.00	250.00	1000.00
21	Revenue Recovery Cell	60.15	203.00	210.00	250.00
22	Advertisement and Publicity	1236.21	3500.00	2500.00	2800.00
23	Watch & Ward	4734.19	7065.00	6300.00	7200.00
24	Training	357.90	960.00	1150.00	1200.00
25	Miscellaneous*	1545.23	2800.00	2000.00	3000.00
26	Repair and Maintenance of Office Building & Staff Quarters.	2944.21	15396.00	10654.00	12249.00
27	Consultancy Services	158.31	225.00	150.00	250.00
28	Investment Management charges	277.46	500.00	370.00	350.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

वर्ष 2024-2025 के लिए परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2025-2026 के लिए बजट प्राक्कलन विवरण-ख व्यय					
	खाता शीर्ष	वास्तविक 2023-2024	बजट प्राक्कलन 2024-2025	परिशोधित प्राक्कलन 2024-2025	बजट प्राक्कलन 2025-2026
(₹ लाख में)					
29	मूल्यहास	4976.72	12601.00	9800.00	14147.00
II	कुल - घ अन्य प्रशासनिक व्यय	42008.97	85337.00	66746.00	77010.00
	कुल प्रशासनिक व्यय (I + II)	205419.33	257823.00	245005.00	252781.20
3	पूँजी निर्माण एवं आकस्मिक आरक्षित निधि में योगदान: -				
	क. पूँजी निर्माण निधि में वार्षिक योगदान (योगदान आय का @ 1%)	18315.00	0.00	20187.00	22206.00
	ख. आकस्मिक आरक्षित निधि में वार्षिक योगदान	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल शीर्ष-4 पूँजी निर्माण एवं आकस्मिक आरक्षित निधि में योगदान।	18315.00	0.00	20187.00	22206.00
	राजस्व खातों पर कुल व्यय:	1806265.51	2152822.00	2123494.01	2311029.65
4	पूँजी खाते पर व्यय				
(क)	गैर-परियोजना				
	i) वाहन	0	70.00	70.00	70.00
	ii) संयंत्र एवं उपकरण (चिकित्सा एवं गैर-चिकित्सा दोनों)	13610.00	51465.00	62914.00	78886.00
	iii) फर्नीचर और फिक्सचर	1284.00	2385.00	2650.00	2800.00
	iv) कंप्यूटर	2935.00	8250.00	11100.00	11000.00
	v) पुस्तकें	188.00	156.00	160.00	180.00
	vi) चिकित्सा शिक्षा सहायता	0.00	5.00	5.00	5.00
	कुल (क)	18017.00	62331.00	76899.00	92941.00
(ख)	परियोजनाएं				
	कार्यालय भवन एवं स्टाफ क्वार्टर	932.60	10523.00	3613.00	8225.00
	अस्पताल एवं डिस्पेंसरी, स्टाफ क्वार्टर सहित	114384.70	331090.00	152972.00	303442.00
	चिकित्सा अस्पताल और स्टाफ क्वार्टर	1752.83	56205.00	6552.00	20018.00
	कुल (ख)	117070.13	397818.00	163137.00	331685.00
	कुल योग-पूँजीगत व्यय (क+ख)	135087.13	460149.00	240036.00	424626.00
5	कुल व्यय (1+2+3+4)	1941352.64	2612971.00	2363530.01	2735655.65
6	ऋण, आरक्षित निधि, जमा, अग्रिम और विप्रेषण (रेमिटेंस), अप्रदत्त ऋण:				
6क	कर्मचारी राज्य बीमा निगम सामान्य भविष्य निधि	19857.06	25000.00	25000.00	25000.00
	ग्राहकों को भुगतान	19857.06	25000.00	25000.00	25000.00
	कुल- अनफंडेड ऋण				

Financial Estimates and Performance Budget 2025-2026



STATEMENT-B EXPENDITURE					
REVISED ESTIMATES FOR THE YEAR 2024-2025					
BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 2025-2026					
	Head of Account	Actual 2023-2024	Budget Estimates 2024-2025	Revised Estimates 2024-2025	Budget Estimates 2025-2026
					(₹ in Lakhs)
29	Depreciation	4976.72	12601.00	9800.00	14147.00
II	Total – D Other Admin. Expenses	42008.97	85337.00	66746.00	77010.00
	Total Admin. Exp. (I + II)	205419.33	257823.00	245005.00	252781.20
3	Contribution to Capital Construction & Contingency Reserve Funds: -				
	A. Annual contribution to Capital Construction Fund (@ 1% of contribution income)	18315.00	0.00	20187.00	22206.00
	B. Annual contribution to Contingency Reserve Fund	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Head-4 Contributions to Capital Construction & Contingency Reserve Funds.	18315.00	0.00	20187.00	22206.00
	TOTAL EXPENDITURE ON REVENUE ACCOUNTS:	1806265.51	2152822.00	2123494.01	2311029.65
4	Expenditure on Capital Account				
(A)	Non-Project				
	i) Vehicles	0	70.00	70.00	70.00
	ii) Plant & Equipment (both medical & Non-Medical)	13610.00	51465.00	62914.00	78886.00
	iii) Furniture & Fixture	1284.00	2385.00	2650.00	2800.00
	iv) Computers	2935.00	8250.00	11100.00	11000.00
	v) Books	188.00	156.00	160.00	180.00
	vi) Medical Education Aid	0.00	5.00	5.00	5.00
	Total (A)	18017.00	62331.00	76899.00	92941.00
(B)	Projects				
	Office Building & Staff Qtrs.	932.60	10523.00	3613.00	8225.00
	Hospital & Dispensaries including Staff Qtrs.	114384.70	331090.00	152972.00	303442.00
	Medical Colleges & Staff Qtrs.	1752.83	56205.00	6552.00	20018.00
	TOTAL(B)	117070.13	397818.00	163137.00	331685.00
	Grand Total-Capital Expenditure (A+B)	135087.13	460149.00	240036.00	424626.00
5	TOTAL EXPENDITURE (1+2+3+4)	1941352.64	2612971.00	2363530.01	2735655.65
6	DEBTS, RESERVE FUNDS, DEPOSITS ADVANCES AND REMITTANCES UNFUNDED DEBT:				
6A	ESIC General Provident Fund	19857.06	25000.00	25000.00	25000.00
	Payment to Subscribers	19857.06	25000.00	25000.00	25000.00
	TOTAL-UNFUNDED DEBTS				



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

वर्ष 2024-2025 के लिए परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2025-2026 के लिए बजट प्राक्कलन विवरण-ख व्यय					
	खाता शीर्ष	वास्तविक 2023-2024	बजट प्राक्कलन 2024-2025	परिशोधित प्राक्कलन 2024-2025	बजट प्राक्कलन 2025-2026
(₹ लाख में)					
6ख	आरक्षित निधि				
(i)	निगम के कार्यालय भवनों (कर्मचारी क्वार्टरों सहित) के लिए मूल्यहास आरक्षित निधि निवेश खाता				
	वर्ष के दौरान निवेश	618.37	-15308.00	-6802.00	-8111.00
(ii)	अस्पताल एवं औषधालय भवन का मूल्यहास आरक्षित निधि (स्टाफ क्वार्टर सहित) निवेश खाता				
	वर्ष के दौरान निवेश	13823.50	-12328.00	179.00	4634.00
(iii)	चिकित्सा शिक्षा भवन के लिए मूल्यहास आरक्षित निधि				
	वर्ष के दौरान निवेश	24866.03	25308.00	27938.00	27450.00
(iv)	अन्य परिसंपत्तियां (संयंत्र और मशीनरी, फर्नीचर और वाहन) का मूल्यहास आरक्षित निधि				
	वर्ष के दौरान निवेश	58736.70	87962.00	79164.00	93009.00
(v)	स्थायी (आंशिक और पूर्ण) अपंगता हितलाभ आरक्षित निधि निवेश खाता				
	वर्ष के दौरान निवेश	136330.17	97000.00	120700.00	81700.00
(vi)	आश्रितजन हितलाभ आरक्षित निधि निवेश खाता				
	वर्ष के दौरान निवेश	108681.89	59000.00	72000.00	46400.00
(vii)	कर्मचारी राज्य बीमा निगम कोविड-19 राहत योजना आरक्षित निधि निवेश खाता				
	वर्ष के दौरान निवेश	-27424.11	-1500.00	1600.00	-300.00
(viii)	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि: पेंशन				
	वर्ष के दौरान निवेश	113563.96	57800.00	65930.00	53300.00
(ix)	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि: उपदान				
	वर्ष के दौरान निवेश	10980.66	22100.00	14800.00	13300.00
(x)	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि: छुट्टी नकदीकरण				
	वर्ष के दौरान निवेश	8792.06	29600.00	25700.00	27700.00
(xi)	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि: पेंशनभोगी चिकित्सा योजना				
	वर्ष के दौरान निवेश	264.86	1700.00	11500.00	12800.00
(xii)	कर्मचारी राज्य बीमा निगम सामान्य भविष्य निधि निवेश खाता				
	वर्ष के दौरान निवेश	2065.45	-1800.00	-2934.00	-1800.00
(xiii)	पूंजी निर्माण निधि निवेश खाता				
	वर्ष के दौरान निवेश	-86759.09	-397818.00	-142950.00	-309479.00
(xiv)	आकस्मिक आरक्षित निधि निवेश खाता				
	वर्ष के दौरान निवेश	0.00	0.00	0.00	0.00

Financial Estimates and Performance Budget 2025-2026



STATEMENT-B EXPENDITURE					
REVISED ESTIMATES FOR THE YEAR 2024-2025					
BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 2025-2026					
	Head of Account	Actual 2023-2024	Budget Estimates 2024-2025	Revised Estimates 2024-2025	Budget Estimates 2025-2026
(₹ in Lakhs)					
6B	RESERVE FUNDS				
(i)	Depreciation Reserve Fund for office buildings of the Corporation (including staff quarters) investment account				
	Investment during the year	618.37	-15308.00	-6802.00	-8111.00
(ii)	Depreciation Reserve Fund of Hospital & Dispensary Building (including staff quarters) Investment Account.				
	Investment during the year	13823.50	-12328.00	179.00	4634.00
(iii)	Depreciation reserve fund for Medical Education Building				
	Investment during the year	24866.03	25308.00	27938.00	27450.00
(iv)	Depreciation Reserve Fund of Other Assets (Plant & Machinery, Furniture & Vehicles)				
	Investment during the year	58736.70	87962.00	79164.00	93009.00
(v)	Permanent (Partial & Total) Disablement Benefit Reserve Fund Investment Account				
	Investment during the year	136330.17	97000.00	120700.00	81700.00
(vi)	Dependents Benefit Reserve Fund Investment Account				
	Investment during the year	108681.89	59000.00	72000.00	46400.00
(vii)	ESIC Covid-19 Relief Scheme reserve fund investment Account				
	Investment during the year	-27424.11	-1500.00	1600.00	-300.00
(viii)	Employees Benefit Reserve Fund: Pension				
	Investment during the year	113563.96	57800.00	65930.00	53300.00
(ix)	Employees Benefit Reserve Fund: Gratuirty				
	Investment during the year	10980.66	22100.00	14800.00	13300.00
(x)	Employees Benefit Reserve Fund: Leave Encashment				
	Investment during the year	8792.06	29600.00	25700.00	27700.00
(xi)	Employees Benefit Reserve Fund:Pensioners Medical Scheme				
	Investment during the year	264.86	1700.00	11500.00	12800.00
(xii)	ESIC General Provident Fund Investment Account				
	Investment during the year	2065.45	-1800.00	-2934.00	-1800.00
(xiii)	Capital Construction Fund Investment Account				
	Investment during the year	-86759.09	-397818.00	-142950.00	-309479.00
(xiv)	Contingency Reserve Fund Investment Account				
	Investment during the year	0.00	0.00	0.00	0.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

वर्ष 2024-2025 के लिए परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2025-2026 के लिए बजट प्राक्कलन विवरण-ख व्यय					
	खाता शीर्ष	वास्तविक 2023-2024	बजट प्राक्कलन 2024-2025	परिशोधित प्राक्कलन 2024-2025	बजट प्राक्कलन 2025-2026
(₹ लाख में)					
	कुल आरक्षित निधि:	364540.44	-48284.00	266825.00	40603.00
6ग	निक्षेप :				
	i. प्रतिभूतियों का निक्षेप	1321.61	1500.00	1200.00	1200.00
	ii. अन्य निक्षेप	4875.18	4500.00	5000.00	5000.00
	कुल जमा :	6196.79	6000.00	6200.00	6200.00
6घ	अग्रिम				
क.	स्थायी अग्रिम	3.39	117.00	105.00	117.00
ख.	निगम के कर्मचारियों को अग्रिम				
	i. स्थानांतरण पर वेतन अग्रिम	0.15	2.00	2.00	2.00
	ii. स्थानांतरण पर परिवहन भत्ते पर अग्रिम	6.49	625.00	550.00	590.00
	iii. दौरे पर परिवहन भत्ते पर अग्रिम	241.88	725.00	990.00	1200.00
	iv. छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) के लिए अग्रिम	457.61	2650.00	2450.00	2650.00
	v. मोटर वाहन क्रय करने के लिए अग्रिम	0.68	0.00	0.00	0.00
	vi. कंप्यूटर अग्रिम	279.80	1150.00	1050.00	1150.00
	vii. अन्य वाहन क्रय करने के लिए अग्रिम	0.00	0.00	0.00	0.00
	viii. गृह निर्माण अग्रिम	212.90	3400.00	3400.00	3800.00
	ix. विविध अग्रिम (उत्सव, बाढ़ एवं पंखा अग्रिम)	107.54	300.00	400.00	500.00
	कुल	1310.44	8969.00	8947.00	10009.00
ग.	अन्य अग्रिम				
	I. राज्य सरकारों/विनिर्माण अभिकरणों को प्रदत्त अग्रिम	16370.94	15000.00	16500.00	16500.00
	II. विविध	52449.15	50000.00	55000.00	55000.00
	III. विविध अग्रिम	67.90	1000.00	80.00	80.00
	कुल अग्रिम:	71508.87	74969.00	80527.00	81589.00
6ङ	धन-प्रेषण				
	नकद धन-प्रेषण (क)	1844349.19	2000000.00	2000000.00	2000000.00
	अन्य धन-प्रेषण (ख)	1948750.36	2000000.00	2000000.00	2000000.00
	अन्य धन-प्रेषण:	3793099.55	4000000.00	4000000.00	4000000.00
	ऋण, आरक्षित निधि जमा, अग्रिम एवं धन-प्रेषण (6क+6ख+6ग+6घ+6ङ):	4253892.27	4057685.00	4378552.00	4153392.00
7	कुल संवितरण:	6195244.91	6670656.00	6742082.01	6889047.65
8	कर्मचारी राज्य बीमा सामान्य आरक्षित निधि: -				

Financial Estimates and Performance Budget 2025-2026



STATEMENT-B EXPENDITURE					
REVISED ESTIMATES FOR THE YEAR 2024-2025					
BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 2025-2026					
	Head of Account	Actual 2023-2024	Budget Estimates 2024-2025	Revised Estimates 2024-2025	Budget Estimates 2025-2026
(₹ in Lakhs)					
	TOTAL RESERVE FUNDS :	364540.44	-48284.00	266825.00	40603.00
6C	DEPOSITS:				
	i. Deposits of Securities	1321.61	1500.00	1200.00	1200.00
	ii. Other Deposits	4875.18	4500.00	5000.00	5000.00
	TOTAL DEPOSITS:	6196.79	6000.00	6200.00	6200.00
6D	ADVANCES				
a.	Permanent advance	3.39	117.00	105.00	117.00
b.	Advance to employee of the Corporation				
	i. Advance of pay on transfer	0.15	2.00	2.00	2.00
	ii. Advance on TA on transfer	6.49	625.00	550.00	590.00
	iii. Advance of TA on Tour	241.88	725.00	990.00	1200.00
	iv. Advance for LTC	457.61	2650.00	2450.00	2650.00
	v. Advance for purchase of motor conveyance	0.68	0.00	0.00	0.00
	vi. Computer Advance	279.80	1150.00	1050.00	1150.00
	vii. Advance for purchase of other conveyance	0.00	0.00	0.00	0.00
	viii. House Building Advance	212.90	3400.00	3400.00	3800.00
	ix. Miscellaneous Advances (Festival Flood & Fan advances)	107.54	300.00	400.00	500.00
	Total	1310.44	8969.00	8947.00	10009.00
c.	Other Advances				
	I. Advances paid to State Govt./construction agencies.	16370.94	15000.00	16500.00	16500.00
	II. Miscellaneous	52449.15	50000.00	55000.00	55000.00
	III Special Advances	67.90	1000.00	80.00	80.00
	Total Advances:	71508.87	74969.00	80527.00	81589.00
6E	Remittances				
	Cash Remittances(a)	1844349.19	2000000.00	2000000.00	2000000.00
	Other Remittances (b)	1948750.36	2000000.00	2000000.00	2000000.00
	TOTAL REMITTANCES:	3793099.55	4000000.00	4000000.00	4000000.00
	Total-Debts, Reserve Funds Deposits, Advances and Remittances (6A+6B+6C+6D+6E):	4253892.27	4057685.00	4378552.00	4153392.00
7	TOTAL DISBURSEMENT:	6195244.91	6670656.00	6742082.01	6889047.65
8	ESI General Reserve: -				



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

वर्ष 2024-2025 के लिए परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2025-2026 के लिए बजट प्राक्कलन विवरण-ख व्यय					
	खाता शीर्ष	वास्तविक 2023-2024	बजट प्राक्कलन 2024-2025	परिशोधित प्राक्कलन 2024-2025	बजट प्राक्कलन 2025-2026
(₹ लाख में)					
	I. वर्ष के दौरान निवेश (निवल वसूली)	1023174.26	451431.00	718023.39	376301.35
	II. घटाएँ-आरक्षित निधि निवेश खाते में अंतरण	364540.44	-48284.00	266825.00	40603.00
	कर्मचारी राज्य बीमा सामान्य आरक्षित में अंतरित अधिशेष	658633.81	499715.00	451198.39	335698.35
9	अंत शेष (हाथ रोकड़)/बैंक	5902.40	2500.00	2500.00	2500.00
10	कुल योग: व्यय	6859781.12	7172871.00	7195780.40	7227246.00
क	नकद प्रेषण शब्द एक लेखा चक्र से दूसरे लेखा चक्र एवं इसी प्रकार से निधियों (नकद) के अंतरण को दर्शाता है। निगम का राजस्व भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंको के माध्यम से एकत्र किया जाता है प्राप्त अंशदान को साप्ताहिक आधार पर तेलीग्राफिक ट्रांसफर के माध्यम से खाता संख्या 1 केन्द्रीय (मुख्यालय) में अंतरित किया जाता है।				
ख	अन्य प्रेषण शब्द निगम के एक कार्यालय और दूसरे कार्यालय के बीच बही खातागत समायोजन को दर्शाता है। निगम के एक कार्यालय में होने वाले संव्यवहार और इसके दूसरे कार्यालय की बहीखाते में समायोज्य होने वाले संव्यवहार को विनियम खाते के माध्यम से अंतरित किया जाता है और इस शीर्ष के तहत प्रदर्शित किए जाते हैं।				

टी.एल. यादेन

टी.एल. यादेन
वित्त आयुक्त

Financial Estimates and Performance Budget 2025-2026



STATEMENT-B EXPENDITURE					
REVISED ESTIMATES FOR THE YEAR 2024-2025					
BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 2025-2026					
	Head of Account	Actual 2023-2024	Budget Estimates 2024-2025	Revised Estimates 2024-2025	Budget Estimates 2025-2026
(₹ in Lakhs)					
	I. Investment during the(c) year (Net of Realisation)	1023174.26	451431.00	718023.39	376301.35
	II. Deduct-transfers to reserve fund investment account	364540.44	-48284.00	266825.00	40603.00
	Surplus Transferred to ESI General Reserve	658633.81	499715.00	451198.39	335698.35
9	Closing balance (Cash in hand)/Bank	5902.40	2500.00	2500.00	2500.00
10	GRAND TOTAL EXPENDITURE	6859781.12	7172871.00	7195780.40	7227246.00
a)	The term 'Cash Remittances' denotes transfer of funds (cash) from one account circle to the other and vice versa. The revenue of the Corporation is collected through the State Bank of India and its associate banks. The contributions received are transferred weekly to the Account No.1 Central (Hqrs. Office) through telegraphic transfers.				
b)	The term 'Other Remittance' denotes book adjustments between one office of the Corporation and the other. Transactions originating in one office of the Corporation but adjustable in the books of its another office are transferred through Exchange Account and exhibited under this Head.				

T.L. Yaden
02/12/24

T.L. YADEN

FINANCIAL COMMISSIONER



वित्तीय प्राककलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

परिशिष्ट - I

31 मार्च 2023 और 2024 तक व्याप्त
और इस योजना के तहत 31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2026
तक व्याप्त किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या

क्रमांक	राज्य/क्षेत्र	कर्मचारियों की संख्या					
		31.3.2023 को	31.03.2024 को	1.4.24 से 31.3.2025 के चरण के दौरान	31.3.2025 को	1.4.2025 से 31.3.2026 के चरण के दौरान	31-3-2026 को
1	2	4		5	6	7	8
	आंध्र प्रदेश						
1	I) विजयवाड़ा	575510	594990	18385	613375	18953	632328
2	II) तिरुपति	262340	270400	8355	278755	8614	287369
3	III) विशाखापटनम	355660	341380	10549	351929	10875	362803
4	तेलंगाना	1545930					
5	असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश	306680	338430	10457	348887	10781	359668
6	बिहार	376980	418110	12920	431030	13319	444348
7	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	127660	124700	3853	128553	3972	132526
8	छत्तीसगढ़	502070	525460	16237	541697	16738	558435
	दिल्ली						
9	I) राजेंद्र प्लेस	316600	294560	9102	303662	9383	313045
10	II) नन्द नगरी	164940	157820	4877	162697	5027	167724
11	III) रोहिणी	222210	219520	6783	226303	6993	233296
12	IV) ओखला	543690	511700	15812	527512	16300	543812
13	गोवा	174580	174170	5382	179552	5548	185100
	गुजरात						
14	I) अहमदाबाद	722820	750680	23196	773876	23913	797789
15	II) वडोदरा	420860	423870	13098	436968	13502	450470
16	III) सूत	368360	451780	13960	465740	14391	480131
	हरियाणा						
17	I) फरीदाबाद	829090	888450	27453	915903	28301	944205
18	II) गुडगाँव	1036680	1067750	32993	1100743	34013	1134756
19	III) करनाल	289470	288850	10664	355764	10993	366757
20	हिमाचल प्रदेश	326520	345100	10664	355764	10993	366757
21	जम्मू एवं कश्मीर	119510	126580	3911	130491	4032	134524
22	झारखंड	452220	487560	15066	502626	15531	518157
	कर्नाटक						
23	I) बेंगलुरु	867090	867770	26814	894584	27643	922227
24	II) हुबली	352470	355490	10985	366475	11324	377799
25	III) पीन्या	455060	452430	13980	466410	14412	480822
26	IV) बोम्बसांद्रा	599130	594510	18370	612880	18938	631818
27	V) गुलबर्गा	175720	183620	5674	189294	5849	195143
28	VI) मैसूर	248260	245880	7598	253478	7832	261310
29	VII) मंगलोर	183700	185780	5741	191521	5918	197439
	केरल						
30	I) त्रिशूर	912020	146310	4521	150831	4661	155492
31	II) एर्णाकुलम	368780	359010	11093	370103	11436	381540
32	III) कोल्लम	126310	124400	3844	128244	3963	132207
33	IV) कोडिगोड	150670	157170	4857	162027	5007	167033
34	V) तिरुअनंतपुरम	119560	118750	3669	122419	3783	126202



APPENDIX - I

NUMBER OF EMPLOYEES COVERED UPTO 31ST MARCH 2023 AND 2024
AND PLANNED TO BE COVERED UNDER THE SCHEME UPTO
31ST MARCH 2025 AND 31ST MARCH, 2026

S.No.	STATE / REGION	No. of Employees					
		As on 31.3.2023	As on 31.03.2024	Phased during 01.04.24 to 31.03. 25	As on 31.3.2025	Phased during 1.4.2025 to 31.3.2026	As on 31.3.026
1	2	4		5	6	7	8
	ANDHRA PRADESH						
1	i)VIJAYAWADA	575510	594990	18385	613375	18953	632328
2	ii) TIRUPATI	262340	270400	8355	278755	8614	287369
3	iii)VISAKHAPATNA M	355660	341380	10549	351929	10875	362803
4	TELANGANA	1545930					
5	ASSAM, MEGHALYA, NAGALAND, TRIPURA, MANIPUR, MIZORAM & ARUNACHAL PRADESH	306680	338430	10457	348887	10781	359668
6	BIHAR	376980	418110	12920	431030	13319	444348
7	CHANDIGARH(U.T)	127660	124700	3853	128553	3972	132526
8	CHATTISGARH	502070	525460	16237	541697	16738	558435
	DELHI						
9	i) RAJENDER PLACE	316600	294560	9102	303662	9383	313045
10	ii)NAND NAGARI	164940	157820	4877	162697	5027	167724
11	iii) ROHINI	222210	219520	6783	226303	6993	233296
12	iv) OKHLA	543690	511700	15812	527512	16300	543812
13	GOA	174580	174170	5382	179552	5548	185100
	GUJARAT						
14	i) AHMEDABAD	722820	750680	23196	773876	23913	797789
15	ii) VADODARA	420860	423870	13098	436968	13502	450470
16	iii) SURAT	368360	451780	13960	465740	14391	480131
	HARYANA						
17	i) FARIDABAD	829090	888450	27453	915903	28301	944205
18	ii)GURGOAN	1036680	1067750	32993	1100743	34013	1134756
19	iii) KARNAL	289470	288850	10664	355764	10993	366757
20	H.P.	326520	345100	10664	355764	10993	366757
21	J & K	119510	126580	3911	130491	4032	134524
22	JHARKHAND	452220	487560	15066	502626	15531	518157
	KARNATAKA						
23	i) BANGALORE	867090	867770	26814	894584	27643	922227
24	ii) HUBLI	352470	355490	10985	366475	11324	377799
25	iii)PEENYA	455060	452430	13980	466410	14412	480822
26	iv)BOMASUNDRA	599130	594510	18370	612880	18938	631818
27	v) GULBARGA	175720	183620	5674	189294	5849	195143
28	vi) MYSORE	248260	245880	7598	253478	7832	261310
29	vii) MANGALORE	183700	185780	5741	191521	5918	197439
	KERALA						
30	i)THRISSUR	912020	146310	4521	150831	4661	155492
31	ii)ERNAKULAM	368780	359010	11093	370103	11436	381540
32	iii)KOLLAM	126310	124400	3844	128244	3963	132207
33	iv) KOZHIKODE	150670	157170	4857	162027	5007	167033
34	v)THIRUNANTHAN PURAM	119560	118750	3669	122419	3783	126202



वित्तीय प्राककलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

क्रमांक	राज्य/क्षेत्र	कर्मचारियों की संख्या					
		31.3.2023 को	31.03.2024 को	1.4.24 से 31.3.2025 के चरण के दौरान	31.3.2025 को	1.4.2025 से 31.3.2026 के चरण के दौरान	31-3-2026 को
1	2	4		5	6	7	8
	मध्य प्रदेश						
35	I) इंदौर	648810	639480	19760	659240	20371	679610
36	II) भोपाल	356740	441570	13645	455215	14066	469281
	महाराष्ट्र						
37	I) लोअर परेल	451760	427840	13220	441060	13629	454689
38	II) मरोल	685460	659790	20388	680178	21017	701195
39	III) ठाणे	680790	676540	20905	697445	21551	718996
40	IV) नागपुर	351880	361730	11177	372907	11523	384430
41	V) औरंगाबाद	275050	284160	8781	292941	9052	301992
42	VI) पुणे	1319620	1327730	41027	1368757	42295	1411051
43	VII) नासिक	235310	247920	7661	255581	7897	263478
	ओड़ीशा						
44	भुवनेश्वर	633640	695000	21476	716476	22139	738615
45	झारसुगुड़ा	197240	217020	6706	223726	6913	230639
46	पुदुचेरी, माहे, येनम	98230	101180	3126	104306	3223	107530
	पंजाब						
47	I) चंडीगढ़ (पंजाब)	465700	474100	14650	488750	15102	503852
48	II) जालंधर	292850	305400	9437	314837	9728	324565
49	III) लुधियाना	398320	393020	12144	405164	12520	417684
	राजस्थान						
50	I) जयपुर	907480	686090	21200	707290	21855	729145
51	II) उदयपुर	210080	223500	6906	230406	7120	237526
52	III) जोधपुर	187530	196150	6061	202211	6248	208459
53	IV) अलवर		282690	8735	291425	9005	300430
	तमिलनाडु						
54	I) चेन्नै	1702000	1709800	52833	1762633	54465	1817098
55	II) तिरुनेलवेली	176690	196440	6070	202510	6258	208768
56	III) सलेम	463620	525830	16248	542078	16750	558828
57	IV) कोयम्बटूर	801540	781290	24142	805432	24888	830320
58	V) मदुरै	414110	437820	13529	451349	13947	465295
59	VI) अंडमान निकोबार द्वीप	3520	5010	155	5165	160	5324
60	सिक्किम	26400	25970	802	26772	827	27600
	उत्तर प्रदेश						
61	I) कानपुर	476870	507350	15677	523027	16162	539189
62	II) वाराणसी	137910	145960	4510	150470	4650	155120
63	III) नोएडा	1205130	1257530	38858	1296388	40058	1336446
64	IV) लखनऊ	546100	602550	18619	621169	19194	640363
65	उत्तराखंड	568400	583850	18041	601891	18598	620489
	पश्चिम बंगाल						
66	I) बैरकपुर	290080	304290	9403	313693	9693	323386
67	II) कोलकाता	1241770	1320800	40813	1361613	42074	1403687
68	III) दुर्गापुर	258200	295130	9120	304250	9401	313651
	अखिल भारत	30542660	31487120	972952	32460072	1003016	33463088

Financial Estimates and Performance Budget 2025-2026



S.No.	STATE / REGION	No. of Employees					
		As on 31.3.2023	As on 31.03.2024	Phased during 01.04.24 to 31.03. 25	As on 31.3.2025	Phased during 1.4.2025 to 31.3.2026	As on 31.3.026
1	2	4		5	6	7	8
	M. P.						
35	i) INDORE	648810	639480	19760	659240	20371	679610
36	ii) BHOPAL	356740	441570	13645	455215	14066	469281
	MAHARASHTRA						
37	i) LOWER PAREL	451760	427840	13220	441060	13629	454689
38	ii) MAROL	685460	659790	20388	680178	21017	701195
39	iii) THANE	680790	676540	20905	697445	21551	718996
40	iv) NAGPUR	351880	361730	11177	372907	11523	384430
41	v) AURANGABAD	275050	284160	8781	292941	9052	301992
42	vi) PUNE	1319620	1327730	41027	1368757	42295	1411051
43	vii) NASIK	235310	247920	7661	255581	7897	263478
	ODISHA						
44	BHUBANESHWAR	633640	695000	21476	716476	22139	738615
45	JHARSUGUDA	197240	217020	6706	223726	6913	230639
46	PUDUCHERRY, MAHE & YENAM	98230	101180	3126	104306	3223	107530
	PUNJAB						
47	i) CHANDIGARH (PB)	465700	474100	14650	488750	15102	503852
48	ii) JALANDHAR	292850	305400	9437	314837	9728	324565
49	iii) LUDHIANA	398320	393020	12144	405164	12520	417684
	RAJASTHAN						
50	i) JAIPUR	907480	686090	21200	707290	21855	729145
51	ii) UDAIPUR	210080	223500	6906	230406	7120	237526
52	iii) JODHPUR	187530	196150	6061	202211	6248	208459
53	iv) ALWAR		282690	8735	291425	9005	300430
	TAMIL NADU						
54	i) CHENNAI	1702000	1709800	52833	1762633	54465	1817098
55	ii) TIRUNELVELI	176690	196440	6070	202510	6258	208768
56	iii) SALEM	463620	525830	16248	542078	16750	558828
57	iv) COIMBATORE	801540	781290	24142	805432	24888	830320
58	v) MADURAI	414110	437820	13529	451349	13947	465295
59	vi) AN ISLANDS	3520	5010	155	5165	160	5324
60	SIKKIM	26400	25970	802	26772	827	27600
	UTTAR PRADESH						
61	i) KANPUR	476870	507350	15677	523027	16162	539189
62	ii) VARANASI	137910	145960	4510	150470	4650	155120
63	iii) NOIDA	1205130	1257530	38858	1296388	40058	1336446
64	iv) LUCKNOW	546100	602550	18619	621169	19194	640363
65	UTTRAKHAND	568400	583850	18041	601891	18598	620489
	WEST BENGAL						
66	i) BARRACKPORE	290080	304290	9403	313693	9693	323386
67	ii) KOLKATA	1241770	1320800	40813	1361613	42074	1403687
68	iii) DURGAPUR	258200	295130	9120	304250	9401	313651
	ALL INDIA	30542660	31487120	972952	32460072	1003016	33463088



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

परिशिष्ट - II

प्रति व्यक्ति आय और व्यय को दर्शाते हुए विवरण

वर्ष	प्रति कर्मचारी प्रतिवर्ष अंशदान आय	राजस्व खाते पर व्यय	अंतर
2000-2001	1,608	1,306	302
2001-2002	1,676	1,397	279
2002-2003	1,840	1,488	352
2003-2004	1,961	1,564	397
2004-2005	2,306	1,602	704
2005-2006	2,421	1,577	844
2006-2007	2,782	1,503	1,279
2007-2008	3,196	1,485	1,711
2008-2009	3,115	1,711	1,404
2009-2010	2,944	2,020	924
2010-2011	3,919	2,229	1,690
2011-2012	4,449	2,637	1,812
2012-2013	4,937	3,438	1,499
2013-2014	5,679	3,883	1,796
2014-2015	6,052	4,298	1,754
2015-2016	6,054	4,400	1,654
2016-2017	6,127	4,326	1,801
2017-2018	6,258	3,542	2,716
2018-2019	7,127	3,535	3,592
2019-2020	5,370	5,331	39
2020-2021	4,956	4,949	7.43
2021-2022	5,828	6,543	-715
2022-2023	5,959.44	5,388.72	570.72
2023-2024	5,905.36	5,764.89	140.47
2024-2025 (परिशोधित प्राक्कलन)	6,408.37	6,675.99	-267.62
2025-2026 (बजट प्राक्कलन)	6,736.95	6,992.47	-255.52

टिप्पणी:

- (क) क.रा.बी. अधिनियम के तहत व्याप्ति के लिए 01.10.2006 से मज़दूरी सीमा को ₹7500 से बढ़ाकर ₹10000 किया गया है।
- (ख) क.रा.बी. अधिनियम के तहत व्याप्ति के लिए 01.05.2010 से मज़दूरी सीमा को ₹10000 से बढ़ाकर ₹15000 किया गया है।
- (ग) क.रा.बी. अधिनियम के तहत व्याप्ति के लिए 01.01.2017 से मज़दूरी सीमा को ₹15000 से बढ़ाकर ₹21000 किया गया है।



सत्यमेव जयते



APPENDIX – II

STATEMENT SHOWING PER CAPITA INCOME & EXPENDITURE

Year	Amount per annum per employee's Contribution Income	Expenditure on Revenue Account	MARGIN
2000-2001	1,608	1,306	302
2001-2002	1,676	1,397	279
2002-2003	1,840	1,488	352
2003-2004	1,961	1,564	397
2004-2005	2,306	1,602	704
2005-2006	2,421	1,577	844
2006-2007	2,782	1,503	1,279
2007-2008	3,196	1,485	1,711
2008-2009	3,115	1,711	1,404
2009-2010	2,944	2,020	924
2010-2011	3,919	2,229	1,690
2011-2012	4,449	2,637	1,812
2012-2013	4,937	3,438	1,499
2013-2014	5,679	3,883	1,796
2014-2015	6,052	4,298	1,754
2015-2016	6,054	4,400	1,654
2016-2017	6,127	4,326	1,801
2017-2018	6,258	3,542	2,716
2018-2019	7,127	3,535	3,592
2019-2020	5,370	5,331	39
2020-2021	4,956	4,949	7.43
2021-2022	5,828	6,543	-715
2022-2023	5,959.44	5,388.72	570.72
2023-2024	5,905.36	5,764.89	140.47
2024-2025 (Revised Estimates)	6,408.37	6,675.99	-267.62
2025-2026 (Budget Estimates)	6,736.95	6,992.47	-255.52

NOTES:

- Wage limit for coverage under ESI Act was increased from ₹ 7500/- to ₹ 10000/- w.e.f. 1.10.2006.
- Wage limit for coverage under ESI Act was increased from ₹ 10000/- to ₹ 15000/- w.e.f.01.05.2010.
- Wage limit for coverage under ESI Act. Has been increased from ₹ 15000/- to ₹ 21000/- w.e.f. 01.01.2017.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

परिशिष्ट - III

चिकित्सा संस्थाओं, अस्पताल एवं औषधालयों तथा कार्यालय भवनों के संबंध में आरंभ की गई पूंजी परियोजनाओं

का विवरण: परिशोधित प्राक्कलन 2024-2025 और बजट प्राक्कलन 2025-2026 में उनकी निधि अपेक्षा

क्र. सं.	परियोजना का नाम एवं स्थान	परियोजना की लागत	पिछले वर्ष 2023-24 तक का व्यय	किया गया वास्तविक व्यय 01.04.2024 से 30.9.2024 तक	निधि अपेक्षा 1.10.2024 से 31.3.2025	परिशोधित प्राक्कलन 2024-2025 (6=4+5)	बजट प्राक्कलन 2025-2026
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
							(₹ करोड़ में)
क. चिकित्सा संस्थाएं :							
1	Completion of pending auditorium interior works in existing medical college and hospital, JOKA,WB	9.35	0.78	0.00	0.93	0.93	8.42
2	Construction of PG Institute at Manicktala, Kolkata	91.20	88.35	0.00	2.85	2.85	0.00
3	Construction of PG Institute cum Medical College at JOKA, Kolkata	416.03	386.60	0.00	10.00	10.00	0.00
4	Construction of Medical College, Bihta, Patna	603.60	599.38	0.00	5.00	5.00	4.00
5	Construction of ESIC Dental College and Renovation of ESI Hospital at Pandu Nagar, Kanpur	254.80	89.42	0.00	0.05	0.05	0.00
6	Construction Of Medical College, Mgm Parel, Mumbai Ph-1	144.94	127.6	0.00	0.05	0.05	0.00
7	Construction Of Nuring College And Pg Hostel/ Staff Housing At Parel, Mumbai Ph-li	189.39	188.85	0.00	0.00	0.00	0.54
8	Construction Of Medical College , Alwar	904.08	863.93	0.00	10.00	10.00	10.00
9	Upgradation & Extension Of Esic Hospital Andheri, Mumbai	250.15	221.41	0.00	10.00	10.00	10.00
10	C/O Pg Hostel/Staff Housing For Esic Hop. At Andheri, Mumbai. (Ph-li)	61.47	57.79	0.00	3.68	3.68	0.00
11	Face Lifting/Expansion Of Esi Hospital & Construction Of Dental College Vashi Mumbai	117.72	100.48	0.00	10.00	10.00	2.54
12	Construction Of Med. College, Faridabad, Haryana.	594.49	636.84	0.00	0.00	0.00	1.20
13	Construction Of Esic Med. College At Mandi (H.P)	730.06	688.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	P G Institute Cum Medical College At Esi Hospital Basaidarapur. (Legal Arbitration Matter Under Subjudice)	485.24	454.80	0.00	0.00	0.00	0.00



सत्यमेव जयते



APPENDIX - III

DETAILS OF CAPITAL PROJECTS UNDERTAKEN IN RESPECT OF MEDICAL INSTITUTIONS, HOSPITAL & DISPENSARIES AND OFFICE BUILDINGS: THEIR FUND REQUIREMENT IN REVISED ESTIMATES 2024-2025 & BUDGET ESTIMATES 2025-2026

SI.NO	Name of The Project	Cost of Project (in Crores)	Expenditure upto Last Year 2023-24	Actual expenditure incurred from 01.04.24 to 30.09.24	Fund requirement from 1.10.24 TO 31.03.25	Revised Estimate 2024-25	Budget Estimates 2025-26
1	2	3	4	5	6	7	8
(₹ In Crores)							
(A) MEDICAL INSTITUTIONS							
1	Completion of pending auditorium interior works in existing medical college and hospital, JOKA, WB	9.35	0.78	0.00	0.93	0.93	8.42
2	Construction of PG Institute at Manicktala, Kolkata	91.20	88.35	0.00	2.85	2.85	0.00
3	Construction of PG Institute cum Medical College at JOKA, Kolkata	416.03	386.60	0.00	10.00	10.00	0.00
4	Construction of Medical College, Bihta, Patna	603.60	599.38	0.00	5.00	5.00	4.00
5	Construction of ESIC Dental College and Renovation of ESI Hospital at Pandu Nagar, Kanpur	254.80	89.42	0.00	0.05	0.05	0.00
6	Construction Of Medical College, Mgm Parel, Mumbai Ph-1	144.94	127.6	0.00	0.05	0.05	0.00
7	Construction Of Nursing College And Pg Hostel/ Staff Housing At Parel, Mumbai Ph-Ii	189.39	188.85	0.00	0.00	0.00	0.54
8	Construction Of Medical College , Alwar	904.08	863.93	0.00	10.00	10.00	10.00
9	Upgradation & Extension Of Esic Hospital Andheri, Mumbai	250.15	221.41	0.00	10.00	10.00	10.00
10	C/O Pg Hostel/Staff Housing For Esic Hop. At Andheri, Mumbai. (Ph-Ii)	61.47	57.79	0.00	3.68	3.68	0.00
11	Face Lifting/Expansion Of Esi Hospital & Construction Of Dental College Vashi Mumbai	117.72	100.48	0.00	10.00	10.00	2.54
12	Construction Of Med. College, Faridabad, Haryana.	594.49	636.84	0.00	0.00	0.00	1.20
13	Construction Of Esic Med. College At Mandi (H.P)	730.06	688.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	P G Institute Cum Medical College At Esi Hospital Basaidarapur. (Legal Arbitration Matter Under Subjudice)	485.24	454.80	0.00	0.00	0.00	0.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

क्र. सं.	परियोजना का नाम एवं स्थान	परियोजना की लागत	पिछले वर्ष 2023-24 तक का व्यय	किया गया वास्तविक व्यय 01.04.2024 से 30.9.2024 तक	निधि अपेक्षा 1.10.2024 से 31.3.2025	परिशोधित प्राक्कलन 2024-2025 (6=4+5)	बजट प्राक्कलन 2025-2026
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
							(₹ करोड़ में)
15	Renovation And Staff Pg Course At Esi Hospital Basaidarapur. (Legal Arbitration Matter Under Subjudice)	9.71	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Construction Of Esi Denatl College (1st Year), Sec-15, Rohini , New Delhi.	8.88	8.51	0.00	0.00	0.00	0.46
17	Construction Of Esi Denatl College (Ii Nd Year), Sec-15, Rohini , New Delhi.	5.45	5.37	0.00	0.00	0.00	0.06
18	Construction Of Esi Denatl College (Iii Nd Year), Sec-15, Rohini , New Delhi.	9.09	7.96	0.00	0.00	0.00	0.21
19	Construction Of Additional 500 Beds (Enhancebment Of Bed Strength From 650 To 1150 Beds) At ESIC Medical College & Hospital At Faridabad.	625	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
20	Construction Of Medical College At Paripally, Kollam, Kerala	544.26	465.31	0.00	0.00	0.00	0.15
21	Construction Of Nursing College & Hospital & 1000 Seater Auditorium At Indira Nagar	72.02	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Construction Of Para-Medical And Allied Health Science Centre At Gulbarga	308.15	286.95	0.00	0.00	0.00	7.00
23	Construction Of Med.College, Rajaji Nagar, Bangalore, Karnataka.	269.21	194.07	2.51	0.00	2.51	0.15
24	Demolition Of 335 Staff Quarters And Redevelopment Of Infrastructure At Esi Medical College And Hospital Campus Sanathnagar	6.06	0.606	0.00	5.45	5.45	0.00
25	Construction Of Esi Project Completed Hospital (Erstwhile Dental College) At Inc. Nacharam, Telangana	244.49	167.33	0.00	0.00	0.00	5.00
26	C/o Medical Collge and 500 Bedded Hosp GULBARGA	1190.88	1125	0.00	0.00	0.00	0.15
27	Construction Of P.G Institute Para Medical College For Esi At K.K Nagar Chennai	372.95	348.66	0.00	5.00	5.00	0.00
28	Construction Of Esi Medical College & Hospital At Coimbatore, Tamilnadu	563.17	528.99	0.00	0.00	0.00	0.15

Financial Estimates and Performance Budget 2025-2026



सत्यमेव जयते



Sl.NO	Name of The Project	Cost of Project (in Crores)	Expenditure upto Last Year 2023-24	Actual expenditure incurred from 01.04.24 to 30.09.24	Fund requirement from 1.10.24 TO 31.03.25	Revised Estimate 2024-25	Budget Estimates 2025-26
1	2	3	4	5	6	7	8
(₹ In Crores)							
15	Renovation And Staff Pg Course At Esi Hospital Basaidarapur. (Legal Arbitration Matter Under Subjudice)	9.71	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Construction Of Esi Denatl College (1st Year), Sec-15, Rohini , New Delhi.	8.88	8.51	0.00	0.00	0.00	0.46
17	Construction Of Esi Denatl College (Ii Nd Year), Sec-15, Rohini , New Delhi.	5.45	5.37	0.00	0.00	0.00	0.06
18	Construction Of Esi Denatl College (Iii Nd Year), Sec-15, Rohini , New Delhi.	9.09	7.96	0.00	0.00	0.00	0.21
19	Construction Of Additional 500 Beds (Enhancement Of Bed Strength From 650 To 1150 Beds) At ESIC Medical College & Hospital At Faridabad.	625	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
20	Construction Of Medical College At Paripally, Kollam, Kerala	544.26	465.31	0.00	0.00	0.00	0.15
21	Construction Of Nursing College & Hospital & 1000 Seater Auditorium At Indira Nagar	72.02	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Construction Of Para-Medical And Allied Health Science Centre At Gulbarga	308.15	286.95	0.00	0.00	0.00	7.00
23	Construction Of Med.College, Rajaji Nagar, Bangalore, Karnataka.	269.21	194.07	2.51	0.00	2.51	0.15
24	Demolition Of 335 Staff Quarters And Redevelopment Of Infrastructure At Esic Medical College And Hospital Campus Sanathnagar	6.06	0.606	0.00	5.45	5.45	0.00
25	Construction Of Esi Project Completed Hospital (Erstwhile Dental College) At Inc. Nacharam, Telangana	244.49	167.33	0.00	0.00	0.00	5.00
26	C/o Medical College and 500 Bedded Hosp GULBARGA	1190.88	1125	0.00	0.00	0.00	0.15
27	Construction Of P.G Institute Para Medical College For Esic At K.K Nagar Chennai	372.95	348.66	0.00	5.00	5.00	0.00
28	Construction Of Esic Medical College & Hospital At Coimbatore, Tamilnadu	563.17	528.99	0.00	0.00	0.00	0.15



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

क्र. सं.	परियोजना का नाम एवं स्थान	परियोजना की लागत	पिछले वर्ष 2023-24 तक का व्यय	किया गया वास्तविक व्यय 01.04.2024 से 30.9.2024 तक	निधि अपेक्षा 1.10.2024 से 31.3.2025	परिशोधित प्राक्कलन 2024-2025 (6=4+5)	बजट प्राक्कलन 2025-2026
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
(₹ करोड़ में)							
29	Construction Of Esic Medical College & Hospital at Sanath Nagar, Telangana.	676.16	514.34	0.00	0.00	0.00	0.15
	TOTAL (A)	9758.00	8233.74	2.51	63.01	65.52	200.18
(ख) अस्पतालों/औषधालयों का निर्माण/ नवीयन /उन्नयन							
1	Construction of 300 bedded Hospital at Baltikuri	187.37	178.84	0.00	0.05	0.05	0.00
2	Vertical Extension of ESI Hospital, Durgapur for additional 50 bed	28.60	26.55	0.00	2.05	2.05	0.00
3	Construction of 100 bedded Trauma Centre and Renovation of existing Hospital at Sarojini Nagar, Lucknow	101.55	92.27	0.00	16.00	16.00	10.00
4	Construction Of 300 Bedded Esi Hospital Bapunagar, Ahmedabad.	125.74	115.00	0.00	6.31	6.31	4.43
5	C/O D-34 Dispensary At Maninagar Khokhara Ahmedabad	25.00	23.25	0.00	1.75	1.75	0.00
6	Esi Model Hosp. At Jaipur.	214.36	205.68	0.00	8.68	8.68	0.00
7	Mddc & Dispensary At Colaba Mumbai	16.92	16.86	0.00	0.00	0.00	0.06
8	Construction Of Extension / Upgradation Of 50 Bedded To 100 Bedded Esi Hospital At Margao, Goa	91.52	78.21	0.00	0.00	0.00	13.31
9	Construction Of 300 Bedded Esi Hospital Kandivali	180.44	170.87	0.00	0.00	0.00	0.15
10	Constn. Of Esi Disp.Cum Diagnostic Centre At Karnal, Hr.	5.34	4.46	0.00	0.00	0.00	0.40
11	Esi Dispensary At Faridabad, Sec-15a, Hr.	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Constn. Of 100 Bedded Esi Hosp. At Manesar, Hr (Already Inaugurated.)	68.74	64.69	0.00	0.00	0.00	0.15
13	Construction Of Esi Hosp. At Baddi, H.P.	63.49	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Renovation Of Ot Block Esi Hosp. Basaidarapur. (Legal Arbitration Matter Under Subjudice)	31.30	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Renovation And Expansion Of Esi Hosp. Okhla. * (Current Figure Provided - 241.86 Cr)	266.20	201.89	0.00	0.00	0.00	0.25

Financial Estimates and Performance Budget 2025-2026



SI.NO	Name of The Project	Cost of Project (in Crores)	Expenditure upto Last Year 2023-24	Actual expenditure incurred from 01.04.24 to 30.09.24	Fund requirement from 1.10.24 TO 31.03.25	Revised Estimate 2024-25	Budget Estimates 2025-26
1	2	3	4	5	6	7	8
(₹ In Crores)							
29	Construction Of Esic Medical College & Hospital at Sanath Nagar, Telangana.	676.16	514.34	0.00	0.00	0.00	0.15
TOTAL (A)		9758.00	8233.74	2.51	63.01	65.52	200.18
(B) CONSTRUCTION / RENOVATION / UPGRADATION OF HOSPITALS/ DISPENSARIES							
1	Construction of 300 bedded Hospital at Baltikuri	187.37	178.84	0.00	0.05	0.05	0.00
2	Vertical Extension of ESI Hospital, Durgapur for additional 50 bed	28.60	26.55	0.00	2.05	2.05	0.00
3	Construction of 100 bedded Trauma Centre and Renovation of existing Hospital at Sarojini Nagar, Lucknow	101.55	92.27	0.00	16.00	16.00	10.00
4	Construction Of 300 Bedded Esi Hospital Bapunagar, Ahmedabad.	125.74	115.00	0.00	6.31	6.31	4.43
5	C/O D-34 Dispensary At Maninagar Khokhara Ahmedabad	25.00	23.25	0.00	1.75	1.75	0.00
6	Esi Model Hosp. At Jaipur.	214.36	205.68	0.00	8.68	8.68	0.00
7	Mddc & Dispensary At Colaba Mumbai	16.92	16.86	0.00	0.00	0.00	0.06
8	Construction Of Extension / Upgradation Of 50 Bedded To 100 Bedded Esi Hospital At Margao, Goa	91.52	78.21	0.00	0.00	0.00	13.31
9	Construction Of 300 Bedded Esi Hospital Kandivali	180.44	170.87	0.00	0.00	0.00	0.15
10	Constn. Of Esi Disp.Cum Diagnostic Centre At Karnal, Hr.	5.34	4.46	0.00	0.00	0.00	0.40
11	Esi Dispensary At Faridabad, Sec-15a, Hr.	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Constn. Of 100 Bedded Esi Hosp. At Manesar, Hr (Already Inaugurated.)	68.74	64.69	0.00	0.00	0.00	0.15
13	Construction Of Esi Hosp. At Baddi, H.P.	63.49	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Renovation Of Ot Block Esi Hosp. Basaidarapur. (Legal Arbitration Matter Under Subjudice)	31.30	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Renovation And Expansion Of Esi Hosp. Okhla. * (Current Figure Provided - 241.86 Cr)	266.20	201.89	0.00	0.00	0.00	0.25



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

क्र. सं.	परियोजना का नाम एवं स्थान	परियोजना की लागत	पिछले वर्ष 2023-24 तक का व्यय	किया गया वास्तविक व्यय 01.04.2024 से 30.9.2024 तक	निधि अपेक्षा 1.10.2024 से 31.3.2025	परिशोधित प्राक्कलन 2024-2025 (6=4+5)	बजट प्राक्कलन 2025-2026
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
(₹ करोड़ में)							
16	Renovation Of Esi Disp. At Nia-1, Karampura.	1.92	0.91	0.00	0.00	0.00	0.21
17	Renovation Of Esi Disp. At Mayapuri - I, New Delhi.	1.58	0.44	0.00	0.00	0.00	1.17
18	Face Lifting Interior Of Sector-24 Noida Hospital	143.17	126.00	0.00	0.00	0.00	0.25
19	C/O Central Medical Store & Refurbishment Dmd, Delhi	2.74	3.18	0.00	0.00	0.00	0.50
20	C/O Esi Dispensary At Narela	40.98	7.10	0.00	0.00	0.00	0.15
21	Stp & Etp At Rohini	1.03	0.86	0.00	0.00	0.00	0.41
22	C/O 100 Bedded Esic Hospital Gurgaon (Already Inaugurated.)	64.24	59.44	0.00	0.00	0.00	0.15
23	Construction Of 100 Bedded Esi Hospital & Staff Quarters At Tuticorin, Tamil Nadu.	138.54	42.55	13.63	27.60	41.23	54.76
24	Construction Of 100 Bedded Esi Hospital & Staff Quarters At Tirpur, Tamil Nadu.	95.13	87.18	0.00	7.95	7.95	0.00
25	Construction Of 100 Bedded Esi Hospital & Staff Quarters At Sriperumbudur Tamil Nadu.	146.45	31.47	28.41	29.56	57.97	57.01
26	Proposed Construction Of 200 Bedded Esi Hospital, Madurai Tamil Nadu Which Concept Plan Is Under Process.	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Construction of 05 Doctor Dispensary at Chakkorathukulam, Kerala	5.19	0.52	0.74	3.93	4.67	0.00
28	Constn. Of Esi Hosp. Peenya, Karnataka	115.03	105.28	0.00	0.00	0.00	7.00
29	Constn. Of Dims Building At Thiruvanthapuram, Kerala	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
30	C/O Of Esi Dispensary ,Rdd Office (Nz), Sro And Sub Store At Chalapauram Kerla	50.81	7.06	6.85	10.16	17.01	26.74
31	3 Doctor Disp. At Poruvazhy, Kollam, Kerala	2.28	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00

Financial Estimates and Performance Budget 2025-2026



सत्यमेव जयते



SI.NO	Name of The Project	Cost of Project (in Crores)	Expenditure upto Last Year 2023-24	Actual expenditure incurred from 01.04.24 to 30.09.24	Fund requirement from 1.10.24 TO 31.03.25	Revised Estimate 2024-25	Budget Estimates 2025-26
1	2	3	4	5	6	7	8
(₹ In Crores)							
16	Renovation Of Esi Disp. At Nia-1, Karampura.	1.92	0.91	0.00	0.00	0.00	0.21
17	Renovation Of Esi Disp. At Mayapuri - I, New Delhi.	1.58	0.44	0.00	0.00	0.00	1.17
18	Face Lifting Interior Of Sector-24 Noida Hospital	143.17	126.00	0.00	0.00	0.00	0.25
19	C/O Central Medical Store & Refurbishment Dmd, Delhi	2.74	3.18	0.00	0.00	0.00	0.50
20	C/O Esi Dispensary At Narela	40.98	7.10	0.00	0.00	0.00	0.15
21	Stp & Etp At Rohini	1.03	0.86	0.00	0.00	0.00	0.41
22	C/O 100 Bedded Esic Hospital Gurgaon (Already Inaugurated.)	64.24	59.44	0.00	0.00	0.00	0.15
23	Construction Of 100 Bedded Esi Hospital & Staff Quarters At Tuticorin, Tamil Nadu.	138.54	42.55	13.63	27.60	41.23	54.76
24	Construction Of 100 Bedded Esi Hospital & Staff Quarters At Tirpur, Tamil Nadu.	95.13	87.18	0.00	7.95	7.95	0.00
25	Construction Of 100 Bedded Esi Hospital & Staff Quarters At Sriperumbudur Tamil Nadu.	146.45	31.47	28.41	29.56	57.97	57.01
26	Proposed Construction Of 200 Bedded Esi Hospital, Madurai Tamil Nadu Which Concept Plan Is Under Process.	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Construction of 05 Doctor Dispensary at Chakkorathukulam, Kerala	5.19	0.52	0.74	3.93	4.67	0.00
28	Constn. Of Esi Hosp. Peenya, Karnataka	115.03	105.28	0.00	0.00	0.00	7.00
29	Constn. Of Dims Building At Thiruvanthapuram, Kerala	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
30	C/O Of Esi Dispensary ,Rdd Office (Nz), Sro And Sub Store At Chalapuram Kerla	50.81	7.06	6.85	10.16	17.01	26.74
31	3 Doctor Disp. At Poruvazhy, Kollam, Kerala	2.28	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

क्र. सं.	परियोजना का नाम एवं स्थान	परियोजना की लागत	पिछले वर्ष 2023-24 तक का व्यय	किया गया वास्तविक व्यय 01.04.2024 से 30.9.2024 तक	निधि अपेक्षा 1.10.2024 से 31.3.2025	परिशोधित प्राक्कलन 2024-2025 (6=4+5)	बजट प्राक्कलन 2025-2026
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
(₹ करोड़ में)							
32	Construction Of Hospital Rajajinagar, Bangalore, Kanataka	206.75	180.19	0.00	0.00	0.00	26.56
33	Renovation, Repair & Upgradation Of Esi Hospital At Tirupati, AP	108.94	92.24	0.00	0.00	0.00	5.00
34	Construction Of Esi Dispensary Cum Branch Office At Auto Nagar, Vijayawada, AP	6.37	5.93	0.00	0.00	0.00	0.02
35	Esi Dispensary Cum Diagnostic Centre & Staff Housing At Jeedimetla	25.90	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
36	100 Bedded Esi Hospital At Rajamahendravaram* (Previously projected in Section D)	109.30	63.99	9.12	5.00	14.12	0.00
37	100 Bedded Esi Hospital At Kakinada (A.P.) (Previously projected in Section D) * (current figure provided -114.1 cr)	102.77	95.85	0.00	11.26	11.26	0.00
38	Construction Of 100 Beds Esi Hospital At Vizianagram. (Previously projected in Section D) * (current figure provided -114.1 cr)	99.50	33.19	0.00	24.00	24.00	42.31
39	Construction Of 350 Bed+50 Sst Beds Esi Hospital At Sheelanagar, Vishakhapatnam (A.P.). (Previously projected in Section D)	384.26	96.66	13.27	54.56	67.83	153.00
40	30 Bedded Esi Hospital At Atchutapuram (A.P.). (Previously projected in Section D)	62.21	0.00	0.00	12.44	12.44	49.77
41	Demolition And Reconstruction Of 110 Bed Esi Hospital At Gunadala, Vijayawada (Semi permanent Structure). (Previously projected in Section D)	16.00	10.34	1.39	1.29	2.68	2.98
42	200 Bedded Opd Block At Esi Hospital At Sanath Nagar. (Previously projected in Section D)	211.23	175.06	0.00	16.51	16.51	10.00
43	Construction Of 50+50 Bedded Esi Hospital & Ro Office At Tirunelveli. (Tn)	56.56	41.83	0.00	0.05	0.05	0.00
44	Renovation Of Existing Hospital K.K. Nagar, Tamilnadu.	Yet to be finalized	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Financial Estimates and Performance Budget 2025-2026



SI.NO	Name of The Project	Cost of Project (in Crores)	Expenditure upto Last Year 2023-24	Actual expenditure incurred from 01.04.24 to 30.09.24	Fund requirement from 1.10.24 TO 31.03.25	Revised Estimate 2024-25	Budget Estimates 2025-26
1	2	3	4	5	6	7	8
(₹ In Crores)							
32	Construction Of Hospital Rajajinagar, Bangalore, Kanataka	206.75	180.19	0.00	0.00	0.00	26.56
33	Renovation, Repair & Upgradation Of Esi Hospital At Tirupati, AP	108.94	92.24	0.00	0.00	0.00	5.00
34	Construction Of Esi Dispensary Cum Branch Office At Auto Nagar, Vijayawada, AP	6.37	5.93	0.00	0.00	0.00	0.02
35	Esi Dispensary Cum Diagnostic Centre & Staff Housing At Jeedimetla	25.90	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
36	100 Bedded Esi Hospital At Rajamahendravaram* (Previously projected in Section D)	109.30	63.99	9.12	5.00	14.12	0.00
37	100 Bedded Esi Hospital At Kakinada (A.P.) (Previously projected in Section D) * (current figure provided -114.1 cr)	102.77	95.85	0.00	11.26	11.26	0.00
38	Construction Of 100 Beds Esi Hospital At Vizianagram. (Previously projected in Section D) * (current figure provided - 114.1 cr)	99.50	33.19	0.00	24.00	24.00	42.31
39	Construction Of 350 Bed+50 Sst Beds Esi Hospital At Sheelanagar, Vishakhapatnam (A.P.). (Previously projected in Section D)	384.26	96.66	13.27	54.56	67.83	153.00
40	30 Bedded Esi Hospital At Atchutapuram (A.P.). (Previously projected in Section D)	62.21	0.00	0.00	12.44	12.44	49.77
41	Demolition And Reconstruction Of 110 Bed Esi Hospital At Gunadala, Vijayawada (Semi permanent Structure). (Previously projected in Section D)	16.00	10.34	1.39	1.29	2.68	2.98
42	200 Bedded Opd Block At Esi Hospital At Sanath Nagar. (Previously projected in Section D)	211.23	175.06	0.00	16.51	16.51	10.00
43	Construction Of 50+50 Bedded Esi Hospital & Ro Office At Tirunelveli. (Tn)	56.56	41.83	0.00	0.05	0.05	0.00
44	Renovation Of Existing Hospital K.K. Nagar, Tamilnadu.	Yet to be finalized	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

क्र. सं.	परियोजना का नाम एवं स्थान	परियोजना की लागत	पिछले वर्ष 2023-24 तक का व्यय	किया गया वास्तविक व्यय 01.04.2024 से 30.9.2024 तक	निधि अपेक्षा 1.10.2024 से 31.3.2025	परिशोधित प्राक्कलन 2024-2025 (6=4+5)	बजट प्राक्कलन 2025-2026
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
							(₹ करोड़ में)
45	Upgradation of additional 250 bed Hospital Rajajinagar, Bangalore, Kanataka	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	Construction Of 100 Bedded Esic Hospital At Ayanavarm (Tamilnadu). (Previously projected in Section D)	302.18	250.28	0.00	5.99	5.99	0.00
47	Construction of Model Dispensary cum Diagnostic Centre with 6 beds and Branch Office at Pydibhimevaram, AP	6.76	5.99	0.00	0.00	0.00	0.77
	TOTAL (B)	4325.88	2823.20	73.41	245.14	318.55	467.51
(ग) आरओ/एसआरओ/बीओ का निर्माण/नवीनीकरण/उन्नयन							
1	Renovation And Refurbishment Of Staff Quarters At Esi Colony Sectore-56 Noida	28.14	0.00	0.00	0.05	0.05	18.00
2	Renovation Of Ro Panjim Goa	8.11	7.70	0.00	0.00	0.00	0.41
3	C/O Bo & Dispensary Waluj Aurangabad	5.23	5.14	0.00	0.00	0.00	0.02
4	C/O Bo & Dispensary Chinchwad Pune	12.97	12.55	0.00	0.00	0.00	0.05
5	Face Lifting Of Sro Bibewadi Pune	25.91	25.84	0.00	0.00	0.00	0.02
6	Sro Nagpur	11.06	11.02	0.00	0.00	0.00	0.02
7	Sro Thane Mumbai	13.38	12.41	0.00	0.00	0.00	0.03
8	Renovation Of Sro Marol Mumbai	11.62	11.42	0.00	0.00	0.00	0.02
9	Ro Lower Parel	26.22	25.12	0.00	0.00	0.00	0.03
10	Staff Quarters At Nagpur	3.78	0.70	0.00	0.00	0.00	0.05
11	Construction Of Esic Dispensary Corlim Goa	4.78	4.30	0.00	0.00	0.00	0.03
12	Construction Of 228 Nos. Of Staff Qtrs At Dn Nagar Adheri, Mumbai	148.78	51.66	16.66	15.00	31.66	55.46
13	Renovation / Modification Of Esic Ro Chandigarh	13.56	11.32	0.00	0.00	0.00	0.05
14	Esic Data Centre Rohini	4.98	4.75	0.00	0.00	0.00	0.06
15	Sro Ludhiana	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
16	Face Lifting Ro Bangalore	18.62	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
17	C/O Branch Office Ernakulam Kerala	5.65	4.08	0.00	0.00	0.00	1.50
18	Construction Of Sro Vijayawada, Ap	25.80	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00

Financial Estimates and Performance Budget 2025-2026



सत्यमेव जयते



SI.NO	Name of The Project	Cost of Project (in Crores)	Expenditure upto Last Year 2023-24	Actual expenditure incurred from 01.04.24 to 30.09.24	Fund requirement from 1.10.24 TO 31.03.25	Revised Estimate 2024-25	Budget Estimates 2025-26
1	2	3	4	5	6	7	8
(₹ In Crores)							
45	Upgradation of additional 250 bed Hospital Rajajinagar, Bangalore, Kanataka	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	Construction Of 100 Bedded Esic Hospital At Ayanavarm (Tamilnadu). (Previously projected in Section D)	302.18	250.28	0.00	5.99	5.99	0.00
47	Construction of Model Dispensary cum Diagnostic Centre with 6 beds and Branch Office at Pydibhimevaram, AP	6.76	5.99	0.00	0.00	0.00	0.77
TOTAL (B)		4325.88	2823.20	73.41	245.14	318.55	467.51
(C) CONSTRUCTION /RENOVATION/UPGRADATION OF ROs/SROs/BOs							
1	Renovation And Refurbishment Of Staff Quarters At Esi Colony Sectore-56 Noida	28.14	0.00	0.00	0.05	0.05	18.00
2	Renovation Of Ro Panjim Goa	8.11	7.70	0.00	0.00	0.00	0.41
3	C/O Bo & Dispensary Waluj Aurangabad	5.23	5.14	0.00	0.00	0.00	0.02
4	C/O Bo & Dispensary Chinchwad Pune	12.97	12.55	0.00	0.00	0.00	0.05
5	Face Lifting Of Sro Bibewadi Pune	25.91	25.84	0.00	0.00	0.00	0.02
6	Sro Nagpur	11.06	11.02	0.00	0.00	0.00	0.02
7	Sro Thane Mumbai	13.38	12.41	0.00	0.00	0.00	0.03
8	Renovation Of Sro Marol Mumbai	11.62	11.42	0.00	0.00	0.00	0.02
9	Ro Lower Parel	26.22	25.12	0.00	0.00	0.00	0.03
10	Staff Quarters At Nagpur	3.78	0.70	0.00	0.00	0.00	0.05
11	Construction Of Esic Dispensary Corlim Goa	4.78	4.30	0.00	0.00	0.00	0.03
12	Construction Of 228 Nos. Of Staff Qtrs At Dn Nagar Adheri, Mumbai	148.78	51.66	16.66	15.00	31.66	55.46
13	Renovation / Modification Of Esic Ro Chandigarh	13.56	11.32	0.00	0.00	0.00	0.05
14	Esic Data Centre Rohini	4.98	4.75	0.00	0.00	0.00	0.06
15	Sro Ludhiana	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
16	Face Lifting Ro Bangalore	18.62	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
17	C/O Branch Office Ernakulam Kerala	5.65	4.08	0.00	0.00	0.00	1.50
18	Construction Of Sro Vijayawada, Ap	25.80	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

क्र. सं.	परियोजना का नाम एवं स्थान	परियोजना की लागत	पिछले वर्ष 2023-24 तक का व्यय	किया गया वास्तविक व्यय 01.04.2024 से 30.9.2024 तक	निधि अपेक्षा 1.10.2024 से 31.3.2025	परिशोधित प्राक्कलन 2024-2025 (6=4+5)	बजट प्राक्कलन 2025-2026
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
(₹ करोड़ में)							
19	Renovation And Facelifting Of Regional Office Hyderabad, Telangana	24.35	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Renovation/Facelifting Of Existing ESIC RD Office, Sterling Road, Chennai, TN	34.50	28.43	1.42	3.00	4.42	0.00
	TOTAL (C)	443.94	275.69	18.08	18.05	36.13	82.25
नई परियोजनाएं							
(घ) अस्पताल और औषधालय							
1	Construction Of 200 Bedded Hospital At Beltola	143.22	27.77	9.07	20.00	29.07	76.15
2	Construction Of 100 Bedded Hospital At Tinsukia	135.92	13.59	13.59	13.59	27.18	108.74
3	Upgradation Of 100 Bedded To 150 Bedded Hospital At Asansol	35.92	26.51	0.00	9.41	9.41	0.00
4	Construction Of 100 Bedded Hospital At Haldia	70.12	60.23	0.00	9.89	9.89	0.00
5	Construction Of 100 Bedded Hospital At Siliguri	75.02	51.96	0.00	23.06	23.06	0.00
6	Construction Of 100 Bedded ESI Hospital At Garshyamnagar, West Bengal	154.63	0.11	0.00	15.47	15.47	50.00
7	Construction Of 30 Bedded Upgradable To 100 Bedded ESIC Hospital At Shahjahpur UP	92.49	9.30	0.00	5.00	5.00	25.00
8	Construction Of 100 Bedded Hospital At Adityapur	75.88	67.09	0.31	0.00	0.31	0.00
9	Construction Of 100 Bedded Upgraded To 200 Bedded Hospital At Ranchi	99.06	82.00	0.00	13.00	13.00	5.00
10	Construction Of 100 Bedded Hospital At Korba	56.31	56.31	0.00	0.25	0.25	0.00
11	Construction Of 150 Bedded Super Speciality Hospital At Bhubaneswar	Not Finalized	0.00	0.00	0.05	0.05	0.15
12	Construction Of 100 Bedded Hospital At Phulwarisharif	71.74	60.88	0.00	7.00	7.00	15.00
13	Construction Of 100 Bedded Hospital At Duburi	164.06	0.00	16.40	9.60	26.00	50.00

Financial Estimates and Performance Budget 2025-2026



सत्यमेव जयते



SI.NO	Name of The Project	Cost of Project (in Crores)	Expenditure upto Last Year 2023-24	Actual expenditure incurred from 01.04.24 to 30.09.24	Fund requirement from 1.10.24 TO 31.03.25	Revised Estimate 2024-25	Budget Estimates 2025-26
1	2	3	4	5	6	7	8
(₹ In Crores)							
19	Renovation And Facelifting Of Regional Office Hyderabad, Telangana	24.35	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Renovation/Facelifting Of Existing ESIC RD Office, Sterling Road, Chennai, TN	34.50	28.43	1.42	3.00	4.42	0.00
TOTAL (C)		443.94	275.69	18.08	18.05	36.13	82.25
NEW PROJECTS							
(D) HOSPITALS AND DISPENSARIES							
1	Construction Of 200 Bedded Hospital At Beltola	143.22	27.77	9.07	20.00	29.07	76.15
2	Construction Of 100 Bedded Hospital At Tinsukia	135.92	13.59	13.59	13.59	27.18	108.74
3	Upgradation Of 100 Bedded To 150 Bedded Hospital At Asansol	35.92	26.51	0.00	9.41	9.41	0.00
4	Construction Of 100 Bedded Hospital At Haldia	70.12	60.23	0.00	9.89	9.89	0.00
5	Construction Of 100 Bedded Hospital At Siliguri	75.02	51.96	0.00	23.06	23.06	0.00
6	Construction Of 100 Bedded ESI Hospital At Garshyamnagar, West Bengal	154.63	0.11	0.00	15.47	15.47	50.00
7	Construction Of 30 Bedded Upgradable To 100 Bedded ESIC Hospital At Shahjhpur UP	92.49	9.30	0.00	5.00	5.00	25.00
8	Construction Of 100 Bedded Hospital At Adityapur	75.88	67.09	0.31	0.00	0.31	0.00
9	Construction Of 100 Bedded Upgraded To 200 Bedded Hospital At Ranchi	99.06	82.00	0.00	13.00	13.00	5.00
10	Construction Of 100 Bedded Hospital At Korba	56.31	56.31	0.00	0.25	0.25	0.00
11	Construction Of 150 Bedded Super Speciality Hospital At Bhubaneswar	Not Finalized	0.00	0.00	0.05	0.05	0.15
12	Construction Of 100 Bedded Hospital At Phulwarisharif	71.74	60.88	0.00	7.00	7.00	15.00
13	Construction Of 100 Bedded Hospital At Duburi	164.06	0.00	16.40	9.60	26.00	50.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

क्र. सं.	परियोजना का नाम एवं स्थान	परियोजना की लागत	पिछले वर्ष 2023-24 तक का व्यय	किया गया वास्तविक व्यय 01.04.2024 से 30.9.2024 तक	निधि अपेक्षा 1.10.2024 से 31.3.2025	परिशोधित प्राक्कलन 2024-2025 (6=4+5)	बजट प्राक्कलन 2025-2026
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
(₹ करोड़ में)							
14	Construction Of 100 Bedded Hospital At Bhilai	114.04	87.70	0.00	16.00	16.00	12.00
15	Construction Of 100 Bedded Hospital At Raigarh	85.04	74.23	0.00	19.00	19.00	0.00
16	Construction Of 02 Doctor ESIC Dispensary And Branch Office At Gorakhpur (U.P.)	2.84	1.73	0.00	1.10	1.10	0.00
17	Construction Of 100 Bedded A&E Services At Bareilly	77.66	7.59	0.00	10.00	10.00	60.00
18	Construction Of ESIC Dispensary And BO At Plot No.B-12A, Sector 80, Noida, UP	6.07	0.60	0.00	0.50	0.50	1.00
19	02 Doctor ESIC Dispensary At Nunhai, Agra (U.P.)	2.25	0.70	0.00	1.58	1.58	0.50
20	Construction Of 5 Doctor ESIC Dispensary And BO At Sector 22, Noida, UP	5.97	1.18	0.59	1.00	1.59	3.81
21	Construction Including A & E Services For Construction Of Dispensary Cum Branch Office (DCBO) Including Boundary Wall At Gaya, Bihar	10.93	4.82	2.12	4.13	6.25	0.50
22	Construction Of 100 Bedded Hospital At Meerut, UP	135.00	0.00	0.00	15.00	15.00	50.00
23	Construction Of Regional Office And Staff Quarter At Raipur.	75.80	0.00	7.58	5.00	12.58	40.00
24	Construction Of 5 Dr Dispensary With Branch Office At Mapusa .	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	8.00
25	Construction Of 200 Bedded (Upgradable To 300)Esic Hospital, Sro & Staff Qtrs And Sro Building At Surat.	209.35	139.42	0.00	54.00	54.00	15.93
26	CONSTRUCTION OF 300 BEDDED HOSPITAL AT Nandnagar INDORE.	378.63	288.62	25.28	35.00	60.28	29.73
27	Construction Of 200 Bedded Hospital At Butibori Nagpur .	194.93	46.88	0.00	50.00	50.00	98.05
28	Construction Of 150 Bedded Hospital At North Goa.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Upgradation Of 50 To 100 Beds And Renovation Of Existing Hospital At Bibwewadi,Pune.	53.86	42.60	0.00	5.00	5.00	6.26

Financial Estimates and Performance Budget 2025-2026



Sl.NO	Name of The Project	Cost of Project (in Crores)	Expenditure upto Last Year 2023-24	Actual expenditure incurred from 01.04.24 to 30.09.24	Fund requirement from 1.10.24 TO 31.03.25	Revised Estimate 2024-25	Budget Estimates 2025-26
1	2	3	4	5	6	7	8
(₹ In Crores)							
14	Construction Of 100 Bedded Hospital At Bhilai	114.04	87.70	0.00	16.00	16.00	12.00
15	Construction Of 100 Bedded Hospital At Raigarh	85.04	74.23	0.00	19.00	19.00	0.00
16	Construction Of 02 Doctor ESIC Dispensary And Branch Office At Gorakhpur (U.P.)	2.84	1.73	0.00	1.10	1.10	0.00
17	Construction Of 100 Bedded A&E Services At Bareilly	77.66	7.59	0.00	10.00	10.00	60.00
18	Construction Of ESIC Dispensary And BO At Plot No.B-12A, Sector 80, Noida, UP	6.07	0.60	0.00	0.50	0.50	1.00
19	02 Doctor ESIC Dispensary At Nunhai, Agra (U.P.)	2.25	0.70	0.00	1.58	1.58	0.50
20	Construction Of 5 Doctor ESIC Dispensary And BO At Sector 22, Noida, UP	5.97	1.18	0.59	1.00	1.59	3.81
21	Construction Including A & E Services For Construction Of Dispensary Cum Branch Office (DCBO) Including Boundary Wall At Gaya, Bihar	10.93	4.82	2.12	4.13	6.25	0.50
22	Construction Of 100 Bedded Hospital At Meerut, UP	135.00	0.00	0.00	15.00	15.00	50.00
23	Construction Of Regional Office And Staff Quarter At Raipur.	75.80	0.00	7.58	5.00	12.58	40.00
24	Construction Of 5 Dr Dispensary With Branch Office At Mapusa .	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	8.00
25	Construction Of 200 Bedded (Upgradable To 300)Esic Hospital, Sro & Staff Qtrs And Sro Building At Surat.	209.35	139.42	0.00	54.00	54.00	15.93
26	CONSTRUCTION OF 300 BEDDED HOSPITAL AT Nandnagar INDORE.	378.63	288.62	25.28	35.00	60.28	29.73
27	Construction Of 200 Bedded Hospital At Butibori Nagpur .	194.93	46.88	0.00	50.00	50.00	98.05
28	Construction Of 150 Bedded Hospital At North Goa.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Upgradation Of 50 To 100 Beds And Renovation Of Existing Hospital At Bibvewadi,Pune.	53.86	42.60	0.00	5.00	5.00	6.26



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

क्र. सं.	परियोजना का नाम एवं स्थान	परियोजना की लागत	पिछले वर्ष 2023-24 तक का व्यय	किया गया वास्तविक व्यय 01.04.2024 से 30.9.2024 तक	निधि अपेक्षा 1.10.2024 से 31.3.2025	परिशोधित प्राक्कलन 2024-2025 (6=4+5)	बजट प्राक्कलन 2025-2026
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
							(₹ करोड़ में)
30	Construction Of 200 Bedded (Upgradable To 500 Bedded) Esic Hospital At Bibewadi, Pune.	429.25	42.92	37.79	80.00	117.79	258.54
31	Construction Of 5 Doctor Dispensary At Kundaim.	7.55	0.76	0.63	4.00	4.63	2.16
32	Construction Of 2 Doctor Dispensary And B.O. At Abu- Road.	5.91	5.16	0.00	0.75	0.75	0.00
33	C/O 4 Dr. Dispensary And Staff Quarters At Alwar	3.48	3.40	0.00	0.08	0.08	0.00
34	C/O 4 Dr. Dispensary And Staff Quarters At Chhitorgarh	Yet to be finalized	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
35	C/O 3 Dr. Dispensary And Staff Quarters At Behror	3.60	2.89	0.00	0.71	0.71	0.00
36	C/O 5 Dr. Dispensary & Staff Quarters At Sitapur Jaipur	5.45	5.34	0.00	0.11	0.11	0.00
37	Construction Of 100 Esic Hospital & 32 No. Of Staff Quarter At Ullhasnagar	102.58	41.09	20.29	20.00	40.29	31.49
38	Construction Of 30 Bedded Hospital At Bikaner, Rajasthan	41.15	37.16	0.00	3.99	3.99	0.00
39	Repair & Renovation Of Esic Hospital And Staff Quarters At Kolhapur.	37.98	9.76	2.09	10.00	12.09	16.13
40	Construction Of 100 Bedded Esi Hospital At Pithampura, Mp	124.20	0.25	12.17	30.00	42.17	83.95
41	Construction Of 5 Dr. Dispensary Cum Branch Office At Udhog Nagar, Kota, Rajasthan	7.83	2.95	1.56	3.32	4.88	0.00
42	Construction Of 3 Dr. Dispensary At Bhilwara, Rajasthan	5.25	4.53	0.00	0.72	0.72	0.00
43	Construction Of 3 Dr. Dispensary, At Bhawani Mandi, Rajasthan	4.66	3.73	0.47	0.93	1.40	0.00
44	Construction Of 3 Dr. Dispensary, At Bharatpur, Rajasthan	7.75	0.77	1.55	5.00	6.55	1.98
45	CONSTRUCTION OF 350 BEDDED (Upgradable To 500 Bedded) ESIC HOSPITAL Sanand, Gujarat	558.12	55.81	0.00	45.00	45.00	200.00
46	Construction Of 150 Bedded ESIC Hospital At Kalol, Gujarat	205.87	20.58	0.00	35.00	35.00	100.00
47	100 Bedded Hospital At Rudrapur	97.72	93.32	6.38	0.53	6.91	0.00
48	300 Bedded Hospital At Haridwar	297.63	102.58	14.45	44.40	58.85	136.20

Financial Estimates and Performance Budget 2025-2026



सत्यमेव जयते



Sl.NO	Name of The Project	Cost of Project (in Crores)	Expenditure upto Last Year 2023-24	Actual expenditure incurred from 01.04.24 to 30.09.24	Fund requirement from 1.10.24 TO 31.03.25	Revised Estimate 2024-25	Budget Estimates 2025-26
1	2	3	4	5	6	7	8
(₹ In Crores)							
30	Construction Of 200 Bedded (Upgradable To 500 Bedded) Esic Hospital At Bibewadi, Pune.	429.25	42.92	37.79	80.00	117.79	258.54
31	Construction Of 5 Doctor Dispensary At Kundaim.	7.55	0.76	0.63	4.00	4.63	2.16
32	Construction Of 2 Doctor Dispensary And B.O. At Abu- Road.	5.91	5.16	0.00	0.75	0.75	0.00
33	C/O 4 Dr. Dispensary And Staff Quarters At Alwar	3.48	3.40	0.00	0.08	0.08	0.00
34	C/O 4 Dr. Dispensary And Staff Quarters At Chhitorgarh	Yet to be finalized	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
35	C/O 3 Dr. Dispensary And Staff Quarters At Behror	3.60	2.89	0.00	0.71	0.71	0.00
36	C/O 5 Dr. Dispensary & Staff Quarters At Sitapur Jaipur	5.45	5.34	0.00	0.11	0.11	0.00
37	Construction Of 100 Esic Hospital & 32 No. Of Staff Quarter At Ullhasnagar	102.58	41.09	20.29	20.00	40.29	31.49
38	Construction Of 30 Bedded Hospital At Bikaner, Rajasthan	41.15	37.16	0.00	3.99	3.99	0.00
39	Repair & Renovation Of Esic Hospital And Staff Quarters At Kolhapur.	37.98	9.76	2.09	10.00	12.09	16.13
40	Construction Of 100 Bedded Esi Hospital At Pithampura, Mp	124.20	0.25	12.17	30.00	42.17	83.95
41	Construction Of 5 Dr. Dispensary Cum Branch Office At Udhog Nagar, Kota, Rajasthan	7.83	2.95	1.56	3.32	4.88	0.00
42	Construction Of 3 Dr. Dispensary At Bhilwara, Rajasthan	5.25	4.53	0.00	0.72	0.72	0.00
43	Construction Of 3 Dr. Dispensary, At Bhawani Mandi, Rajasthan	4.66	3.73	0.47	0.93	1.40	0.00
44	Construction Of 3 Dr. Dispensary, At Bharatpur, Rajasthan	7.75	0.77	1.55	5.00	6.55	1.98
45	CONSTRUCTION OF 350 BEDDED (Upgradable To 500 Bedded) ESIC HOSPITAL Sanand, Gujarat	558.12	55.81	0.00	45.00	45.00	200.00
46	Construction Of 150 Bedded ESIC Hospital At Kalol, Gujarat	205.87	20.58	0.00	35.00	35.00	100.00
47	100 Bedded Hospital At Rudrapur	97.72	93.32	6.38	0.53	6.91	0.00
48	300 Bedded Hospital At Haridwar	297.63	102.58	14.45	44.40	58.85	136.20



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

क्र. सं.	परियोजना का नाम एवं स्थान	परियोजना की लागत	पिछले वर्ष 2023-24 तक का व्यय	किया गया वास्तविक व्यय 01.04.2024 से 30.9.2024 तक	निधि अपेक्षा 1.10.2024 से 31.3.2025	परिशोधित प्राक्कलन 2024-2025 (6=4+5)	बजट प्राक्कलन 2025-2026
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
(₹ करोड़ में)							
49	Construction Of Esi Dispensary & B.O At Panchkula.	6.84	2.72	0.61	1.36	1.97	2.00
50	Construction Of 5 Doctor Dispensary And B.O. At Selaqui.	5.90	4.36	0.00	0.59	0.59	0.00
51	Construction Of Esi Dispensary At Mayur Vihar.	40.68	32.85	3.81	6.00	9.81	0.00
52	C/O 5 Dr. Dispensary At Imt Manesar.	5.03	0.00	0.00	0.50	0.50	0.05
53	Construction Of Diims Building At Punchkulla	8.38	5.91	0.00	0.00	0.00	1.00
54	Construction Of 30 Bedded Esi Hospital(Expandable To 100 Beddedat Kala Amb	96.17	55.08	18.11	22.98	41.09	0.00
55	Construction Of 100 Bedded Hospital And Staff Quarter At Bawal, Haryana	96.79	61.67	9.66	15.32	24.98	10.15
56	Construction Of 100 Bedded Hospital And Staff Quarter At Bahadurgarh, Haryana	96.09	43.58	18.72	25.80	44.52	9.60
57	Construction Of 100 Bedded Esic Hospital & Staff Quarter At Ompura Jammu And Kashmir	158.48	74.38	14.56	29.54	44.10	75.39
58	Construction Of 500 Bedded Esic Hospital At Manesar, Hr.	660.18	0.25	0.00	0.00	0.00	200.00
59	Construction Of 30 Bedded ESI Hospital At Leh Ladakh.	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	47.50
60	Construction Of 100 Bedded ESIC Hospital At Rohtak, Haryana	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
61	Construction Of 30 Bedded (Extendable To 100 Bed) ESIC Hospital At Rajpura, Punjab	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
62	Construction Of 100 Bedded Hospital At Doddaballapur.	94.81	90.76	0.78	9.80	10.58	7.00
63	Construction Of 200 Bedded Hospital At Bommasandra.	278.03	0.00	27.80	22.80	50.60	80.00
64	Construction Of Additional 50 Bedded Hospital Building At Devegere.	18.71	10.57	2.67	1.00	3.67	4.47

Financial Estimates and Performance Budget 2025-2026



SI.NO	Name of The Project	Cost of Project (in Crores)	Expenditure upto Last Year 2023-24	Actual expenditure incurred from 01.04.24 to 30.09.24	Fund requirement from 1.10.24 TO 31.03.25	Revised Estimate 2024-25	Budget Estimates 2025-26
1	2	3	4	5	6	7	8
(₹ In Crores)							
49	Construction Of Esi Dispensary & B.O At Panchkula.	6.84	2.72	0.61	1.36	1.97	2.00
50	Construction Of 5 Doctor Dispensary And B.O. At Selaqui.	5.90	4.36	0.00	0.59	0.59	0.00
51	Construction Of Esi Dispensary At Mayur Vihar.	40.68	32.85	3.81	6.00	9.81	0.00
52	C/O 5 Dr. Dispensary At Imt Manesar.	5.03	0.00	0.00	0.50	0.50	0.05
53	Construction Of Diims Building At Punchkulla	8.38	5.91	0.00	0.00	0.00	1.00
54	Construction Of 30 Bedded Esi Hospital(Expandable To 100 Beddedat Kala Amb	96.17	55.08	18.11	22.98	41.09	0.00
55	Construction Of 100 Bedded Hospital And Staff Quarter At Bawal, Haryana	96.79	61.67	9.66	15.32	24.98	10.15
56	Construction Of 100 Bedded Hospital And Staff Quarter At Bahadurgarh, Haryana	96.09	43.58	18.72	25.80	44.52	9.60
57	Construction Of 100 Bedded Esic Hospital & Staff Quarter At Ompura Jammu And Kashmir	158.48	74.38	14.56	29.54	44.10	75.39
58	Construction Of 500 Bedded Esic Hospital At Manesar, Hr.	660.18	0.25	0.00	0.00	0.00	200.00
59	Construction Of 30 Bedded ESI Hospital At Leh Ladakh.	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	47.50
60	Construction Of 100 Bedded ESIC Hospital At Rohtak, Haryana	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
61	Construction Of 30 Bedded (Extendable To 100 Bed) ESIC Hospital At Rajpura, Punjab	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
62	Construction Of 100 Bedded Hospital At Doddaballapur.	94.81	90.76	0.78	9.80	10.58	7.00
63	Construction Of 200 Bedded Hospital At Bommasandra.	278.03	0.00	27.80	22.80	50.60	80.00
64	Construction Of Additional 50 Bedded Hospital Building At Devegere.	18.71	10.57	2.67	1.00	3.67	4.47



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

क्र. सं.	परियोजना का नाम एवं स्थान	परियोजना की लागत	पिछले वर्ष 2023-24 तक का व्यय	किया गया वास्तविक व्यय 01.04.2024 से 30.9.2024 तक	निधि अपेक्षा 1.10.2024 से 31.3.2025	परिशोधित प्राक्कलन 2024-2025 (6=4+5)	बजट प्राक्कलन 2025-2026
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
(₹ करोड़ में)							
65	Construction Of 5 Doctor Dispensary At Enathu.	3.88	0.00	0.00	0.38	0.38	2.35
66	Construction Of 5 Doctor Dispensary At Korratty.	3.94	3.55	0.00	0.00	0.00	0.39
67	Vertical Extension Of Model Hospital At Asramam Kollam.	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
68	Construction Of Additional 50 Bedded Hospital Building At Hubli.	52.45	0.00	0.00	5.00	5.00	47.45
69	Construction Of 100 Bedded Hospital At Shivmogga	110.07	25.65	5.72	11.01	16.73	67.69
70	Construction Of 100 Bedded ESI Hospital At Bellary, Karnataka	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
71	Construction Of 100 Bedded ESI Hospital At Belagavi, Karnataka	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
72	Construction Of 100 Bedded ESI Hospital At Udupi, Karnataka	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
73	Construction Of 100 Bedded ESI Hospital At Dindigul, TN	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
74	Construction Of 100 Bedded ESI Hospital At Erode, TN	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
75	Construction Of 100 Bedded ESI Hospital At Chengalpattu, TN	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
76	Construction Of 100 Bedded ESI Hospital At Negercoil, TN	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
77	Construction Of 100 Bedded ESI Hospital At Guntur, AP	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
78	Construction Of 100 Bedded ESI Hospital At Sri City, Tirupati, AP	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
79	Construction Of 100 Bedded ESI Hospital At Kurnool, AP	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
80	Construction of 350 beds ESIC Hospital at Chakan, District- Pune.	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
81	Construction of 100 bedded ESI Hospital at Idukki, Kerala	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
82	Construction of 100 bedded ESI Hospital at Jharsuguda, Odisha	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Financial Estimates and Performance Budget 2025-2026



सत्यमेव जयते



SI.NO	Name of The Project	Cost of Project (in Crores)	Expenditure upto Last Year 2023-24	Actual expenditure incurred from 01.04.24 to 30.09.24	Fund requirement from 1.10.24 TO 31.03.25	Revised Estimate 2024-25	Budget Estimates 2025-26
1	2	3	4	5	6	7	8
(₹ In Crores)							
65	Construction Of 5 Doctor Dispensary At Enathu.	3.88	0.00	0.00	0.38	0.38	2.35
66	Construction Of 5 Doctor Dispensary At Korrtty.	3.94	3.55	0.00	0.00	0.00	0.39
67	Vertical Extension Of Model Hospital At Asramam Kollam.	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
68	Construction Of Additional 50 Bedded Hospital Building At Hubli.	52.45	0.00	0.00	5.00	5.00	47.45
69	Construction Of 100 Bedded Hospital At Shivmogga	110.07	25.65	5.72	11.01	16.73	67.69
70	Construction Of 100 Bedded ESI Hospital At Bellary, Karnataka	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
71	Construction Of 100 Bedded ESI Hospital At Belagavi, Karnataka	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
72	Construction Of 100 Bedded ESI Hospital At Udupi, Karnataka	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
73	Construction Of 100 Bedded ESI Hospital At Dindigul, TN	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
74	Construction Of 100 Bedded ESI Hospital At Erode, TN	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
75	Construction Of 100 Bedded ESI Hospital At Chengalpattu, TN	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
76	Construction Of 100 Bedded ESI Hospital At Negercoil, TN	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
77	Construction Of 100 Bedded ESI Hospital At Guntur, AP	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
78	Construction Of 100 Bedded ESI Hospital At Sri City, Tirupati, AP	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
79	Construction Of 100 Bedded ESI Hospital At Kurnool, AP	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
80	Construction of 350 beds ESIC Hospital at Chakan, District- Pune.	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
81	Construction of 100 bedded ESI Hospital at Idukki, Kerala	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
82	Construction of 100 bedded ESI Hospital at Jharsuguda, Odisha	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

क्र. सं.	परियोजना का नाम एवं स्थान	परियोजना की लागत	पिछले वर्ष 2023-24 तक का व्यय	किया गया वास्तविक व्यय 01.04.2024 से 30.9.2024 तक	निधि अपेक्षा 1.10.2024 से 31.3.2025	परिशोधित प्राक्कलन 2024-2025 (6=4+5)	बजट प्राक्कलन 2025-2026
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
							(₹ करोड़ में)
83	Construction of 100 beds (upgradable to 150 beds) ESIC Hospital at Paradeep, Odisha	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
84	Construction of 100 beds ESIC Hospital at Muzaffarpur, Bihar	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
85	DCBO at Auraiya, Uttar Pradesh	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
86	01 Doctor Dispensary at Fatehpur, UP	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
87	Dispensary cum Branch Office at Pratapgarh, UP	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
88	Construction of dispensary at Dhubri, Assam	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
89	Construction Of Branch Office At Always.	1.14	1.02	0.00	0.00	0.00	0.12
90	Construction Of 2 Dr. Dispensary, Navaikulam	5.02	3.62	0.00	0.00	0.00	1.40
91	Construction Of 2X10Mva,110/11Kv Substation For Esic Medical College At Gulburga.	23.88	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
92	Construction of 150 bedded hospital at Varanasi	141.98	117.48	0.00	0.00	0.00	0.00
93	ESI Dispensary Modinagar	1.26	1.134	0.00	0.00	0.00	0.00
94	ESI Dispensary Mirzapur	0.67	0.599	0.00	0.00	0.00	0.00
95	ESI Dispensary Chipitola, Agra	1.14	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
96	Renovation Of Existing Hospital 3Rd Floor At Aynavaram, Tamilnadu.	Yet to be finalized		0.00	0.00	0.00	0.00
97	Construction Of 3 Doctor Dispensary at Industrial Estate Rai, Sonipat	5.82	0.00	0.58	2.50	3.08	2.74
98	Construction Of 3 Doctor Dispensary at Industrial Estate Barhi, Sonipat	5.82	0.00	0.58	2.50	3.08	2.74
TOTAL (D)		9402.88	2143.64	275.92	785.25	1061.17	2366.91
Purchase of Land (E)				0.15	149.85	150.00	200.00
GRAND TOTAL AMOUNT (A + B + C + D + E)		23930.70	13476.27	370.07	1261.30	1631.37	3316.85

Financial Estimates and Performance Budget 2025-2026



सत्यमेव जयते



SI.NO	Name of The Project	Cost of Project (in Crores)	Expenditure upto Last Year 2023-24	Actual expenditure incurred from 01.04.24 to 30.09.24	Fund requirement from 1.10.24 TO 31.03.25	Revised Estimate 2024-25	Budget Estimates 2025-26
1	2	3	4	5	6	7	8
(₹ In Crores)							
83	Construction of 100 beds (upgradable to 150 beds) ESIC Hospital at Paradeep, Odisha	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
84	Construction of 100 beds ESIC Hospital at Muzaffarpur, Bihar	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
85	DCBO at Auraiya, Uttar Pradesh	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
86	01 Doctor Dispensary at Fatehpur, UP	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
87	Dispensary cum Branch Office at Pratapgarh, UP	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
88	Construction of dispensary at Dhubri, Assam	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
89	Construction Of Branch Office At Alwaye.	1.14	1.02	0.00	0.00	0.00	0.12
90	Construction Of 2 Dr. Dispensary, Navaikulam	5.02	3.62	0.00	0.00	0.00	1.40
91	Construction Of 2X10Mva,110/11Kv Substation For Esic Medical College At Gulburga.	23.88	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
92	Construction of 150 bedded hospital at Varanasi	141.98	117.48	0.00	0.00	0.00	0.00
93	ESI Dispensary Modinagar	1.26	1.134	0.00	0.00	0.00	0.00
94	ESI Dispensary Mirzapur	0.67	0.599	0.00	0.00	0.00	0.00
95	ESI Dispensary Chipitola, Agra	1.14	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
96	Renovation Of Existing Hospital 3Rd Floor At Aynavaram, Tamilnadu.	Yet to be finalized		0.00	0.00	0.00	0.00
97	Construction Of 3 Doctor Dispensary at Industrial Estate Rai, Sonipat	5.82	0.00	0.58	2.50	3.08	2.74
98	Construction Of 3 Doctor Dispensary at Industrial Estate Barhi, Sonipat	5.82	0.00	0.58	2.50	3.08	2.74
TOTAL (D)		9402.88	2143.64	275.92	785.25	1061.17	2366.91
Purchase of Land (E)				0.15	149.85	150.00	200.00
GRAND TOTAL AMOUNT (A + B + C + D + E)		23930.70	13476.27	370.07	1261.30	1631.37	3316.85



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

निष्पादन बजट 2025 -2026

परिचय

कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत की गई है।

- क) मिशन : बीमाकृत व्यक्तियों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना।
- ख) मुख्य उद्देश्य : क.रा.बी. योजना आश्रितजन हितलाभ सहित बीमारी, मातृत्व और रोजगार जनित चोट के लिए चिकित्सा और नकद हितलाभ प्रदान करती है। इसकी प्रमुख पहलों में राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना (वर्ष 2005 से बेरोजगारी हितलाभ), अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (बेरोजगारी के दौरान राहत, जून 2026 तक विस्तारित) शामिल है।
- ग) योजना का प्रशासन: इस योजना का प्रशासन कर्मचारी राज्य बीमा निगम नामक एक निगमित निकाय द्वारा किया जाता है। इसमें नियोक्ता, कर्मचारी, चिकित्सा पेशे, केंद्र और राज्य सरकारों तथा संसद का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य होते हैं। निगम के सदस्यों में से गठित स्थायी समिति कार्यपालक निकाय के रूप में कार्य करती है। चिकित्सा हितलाभ परिषद भी है जो चिकित्सा हितलाभ के प्रावधान से जुड़े मामलों में निगम को सलाह देती है। विभिन्न उप समितियाँ संबंधित क्षेत्रों के लिए स्थायी समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं।

I. सामाजिक सुरक्षा और क.रा.बी. योजना का विस्तार

नए क्षेत्रों में राज्य सरकारों के परामर्श से क.रा.बी. योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसमें आंशिक रूप से अधिसूचित जिलों को पूर्ण रूप से अधिसूचित किया गया है तथा गैर-अधिसूचित जिलों जहां योजना मौजूद नहीं है, वहां जिला मुख्यालय क्षेत्र या सबसे प्रमुख औद्योगिक केंद्र को शुरू में अधिसूचित किया गया है। इस संबंध में उपलब्धि राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्थाओं को पूरा करने पर निर्भर करती है, क्योंकि राज्यों में चिकित्सा देखभाल के प्रशासन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार के पास होती है।

वर्तमान में यह योजना 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तारित है। क.रा.बी. निगम 2.0 (जुलाई 2015) के शुभारंभ के बाद से क.रा.बी. योजना का बड़े पैमाने पर भौगोलिक विस्तार हुआ है और दिनांक 31.08.2024 तक इस योजना का विस्तार देश के 674 जिलों तक किया गया है, जिसमें 571 पूरी तरह से अधिसूचित जिले और 103 आंशिक रूप से अधिसूचित जिले शामिल हैं, जिनमें जिला मुख्यालय क्षेत्र और प्रमुख औद्योगिक केंद्र शामिल हैं। 104 जिलों को अभी अधिसूचित किया जाना शेष है।

क.रा.बी. योजना के सामाजिक सुरक्षा हितलाभों को पूरे देश में विस्तारित करने के लक्ष्य के तहत, इस योजना को लक्षद्वीप समूह सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अधिसूचित किया गया है। दिनांक 31.03.2024 तक क.रा.बी. योजना के अंतर्गत व्याप्त किए गए बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या 3.14 करोड़ है। योजना के अंतर्गत व्याप्त किए गए लाभार्थियों की संख्या 14.43 करोड़ है।

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान, देश में आर्थिक गतिविधियों में सुधार के कारण 9.73 लाख कर्मचारियों की वृद्धि होने की संभावना है। इसके अलावा, 2025-2026 के बजट अनुमानों में 10.03 लाख अतिरिक्त कर्मचारियों को व्याप्त किए जाने का अनुमान है। व्याप्त किए गए कर्मचारियों की संख्या और चिकित्सा देखभाल के हकदार बीमित व्यक्तियों की संख्या पैरा IV में दिए गए विवरण में सारणीबद्ध है।



EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION PERFORMANCE BUDGET 2025-2026

INTRODUCTION

The Employees' State Insurance Corporation is established under the Employees' State Insurance Act, 1948.

- a) Mission: To provide social security and health insurance to Insured Persons (IPs) and their families.
- b) Principle objective: The ESI Scheme provides medical and cash benefits for sickness, maternity, and employment injuries, including dependents' benefits. Key initiatives include the Rajiv Gandhi Shramik Kalyan Yojna (unemployment benefits since 2005), Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana (relief during unemployment, extended until June 2026).
- c) Administration of the scheme: The scheme is administered by a corporate body called the Employees' State Insurance Corporation. It has members representing employers, employees, the medical profession, the Central and State Governments and the Parliament. The Standing Committee, constituted from amongst the members of the Corporation, acts as the Executive Body. There is Medical Benefit Council also advises the Corporation in matters connected with the provision of medical benefit. Various sub committees submit reports to the Standing committee, for respective areas.

I. Social Security and extension of ESI Scheme

The implementation of ESI Scheme in new areas, in consultation with the State Governments, is undertaken wherein; partially notified districts are fully notified and in the non- notified districts where the scheme is not present, the District Headquarters area or most prominent industrial center is initially notified. The achievement in this regard depends on the completion of primary medical arrangements by the State Government, as the responsibility of administration of medical care in the states lies with the concerned State Government.

At present, the scheme is extended to 36 states and Union Territories. There has been a massive geographical expansion of ESI Scheme since the launch of ESIC 2.0 (July 2015) and the scheme as on 31.08.2024 has been extended to 674 districts of the country which includes 571 fully notified districts and 103 partially notified districts including district headquarters areas and prominent industrial centers. 104 districts are yet to be notified.

As part of the goal of extending the social security benefits of ESI Scheme to the entire country, the scheme has been notified in all States and Union Territories including Lakshadweep Islands also. The number of Insured Persons covered under the ESI Scheme on 31.03.2024 is 3.14 crores. The number of beneficiaries covered under Scheme is 14.43 crores.

During the Financial Year 2024-2025, it is expected there will be an increase of 9.73 Lakhs employees due to improvement in economic activity in the country. Further, in the Budget Estimates for 2025-2026, the additional number of employees estimated to be covered is 10.03 lakhs. Number of employees covered, and number of Insured Persons entitled to medical care are tabulated in the statement placed at para IV.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

यह अपेक्षा की जाती है कि दिनांक 31.03.2024 को 314.87 लाख कर्मचारियों की संख्या के अनुसार दिनांक 31.3.2025 तक कर्मचारियों की संख्या 324.60 लाख होगी। दिनांक 31.03.2026 के लिए इसी आंकड़े के 334.63 लाख होने का अनुमान है। चिकित्सा हितलाभ के लिए लाभार्थियों (बीमाकृत व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्यों) की कुल संख्या परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2024-2025 में 1566.01 लाख और बजट प्राक्कलन वर्ष 2025-2026 में 1698.81 लाख होने का अनुमान है।

वर्ष 2023-24 के दौरान व्याप्ति हेतु लक्ष्य एवं उपलब्धियां

लक्ष्य	उपलब्धियां
पूर्णतः अधिसूचित जिले	41 जिले
आंशिक रूप से अधिसूचित जिले	01 जिले
कुल व्याप्त किए गए जिले	42 जिले
व्याप्ति योग्य नए कर्मचारियों की संख्या	1,29,976

II. वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए वित्तीय प्रक्षेपण

क. राजस्व प्राप्तियां

निगम को केंद्र सरकार से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलती है। नियोक्ता और कर्मचारियों से अंशदान के रूप में प्राप्त निगम की आय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (25 ए) के तहत कर के भुगतान से मुक्त है। केंद्र सरकार द्वारा क.रा.बी. (केंद्रीय) नियमावली 1950 के नियम 51 में एक संशोधन की अधिसूचना द्वारा नियोक्ता और कर्मचारियों के अंशदान की दर को दिनांक 01.07.2019 से क्रमशः 3.25 प्रतिशत और 0.75 प्रतिशत तक परिशोधित किया गया था। ₹176/- प्रतिदिन तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को दिनांक 06.09.2019 से कर्मचारी के हिस्से का अंशदान देने की आवश्यकता नहीं है।

वास्तविक एवं अनुमानित राजस्व प्राप्तियां (₹लाखों में)

लेखा शीर्ष	वास्तविक 2023-2024	परिशोधित प्राक्कलन 2024-2025	बजट प्राक्कलन 2025-2026
अंशदान आय	1831518	2018700	2220600
ब्याज आय	743296	814346	873735
अन्य आय	50387	25350	26050
कुल राजस्व प्राप्ति:	2625201	2858396	3120385

ख. व्यय

निगम का व्यय मोटे तौर पर निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है:

क) बीमाकृत व्यक्तियों को हितलाभ पर व्यय

- चिकित्सा हितलाभ
- नकद हितलाभ और अन्य हितलाभ

ख) प्रशासनिक व्यय

- अधीक्षण / देख-रेख
- क्षेत्र कार्य
- सामान्य व्यय
- अन्य प्रशासनिक व्यय

ग) पूंजीगत व्यय जिसमें निर्माण कार्य शामिल हैं।

(ए) कार्यक्रम/गतिविधिवार (बी) उद्देश्यवार वर्गीकरण के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 और अगले वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए वित्तीय आवश्यकताओं और उनके वित्त के स्रोत का वर्णन निम्नलिखित अनुच्छेदों में किया गया है।

Financial Estimates and Performance Budget 2025-2026



It is expected that the number of employees as on 31.3.2025 will be 324.60 lakhs corresponding to 314.87 Lakhs employees on 31.03.2024. The corresponding figures for 31.03.2026 are estimated to be 334.63 lakhs. The total number of beneficiaries (insured persons and their family members) for medical benefit is estimated at 1566.01 lakhs in the Revised Estimates 2024-2025 and 1698.81 lakhs in Budget Estimates 2025-2026.

Target and Achievements for coverage during the year 2023-24

Target	Achievements
Fully Notified Districts	41 Districts
Partially Notified Districts	01 Districts
Total Districts Covered	42 Districts
No. of new employees coverable	1,29,976

II Financial projections for FY 2024-25 and 2025-26

A. Revenue Receipts

The Corporation does not receive any financial assistance from the Central Government. The income of the Corporation, received by way of contributions from employer & employees is exempted from payment of tax under Sec 10 (25A) of the Income Tax Act, 1961. The rate of contribution by employers and employees was revised to 3.25 percent and 0.75 percent respectively from 01.07.2019 by notification of an amendment to Rule 51 of the ESI (Central) Rules 1950 by the Central Govt. Employees earning wages up-to ₹176/- per day are not required to pay employee's share of contribution, effective 06.09.2019.

Actuals and projected revenue receipts (₹ in Lakhs)

Head of Account	Actuals 2023-2024	RE 2024-2025	BE 2025-2026
Contribution Income	1831518	2018700	2220600
Interest Income	743296	814346	873735
Other Income	50387	25350	26050
TOTAL REVENUE RECEIPT:	2625201	2858396	3120385

B. Expenditure

The expenditure of the Corporation is classified broadly under the following heads:

- a. Expenditure on Benefits to Insured Persons
 - (i) Medical Benefits
 - (ii) Cash Benefits and Other Benefits
- b. Admin. Expenditure
 - i. Superintendence
 - ii. Field Work
 - iii. Common Expenses
 - iv. Other Administration Expenses
- c. Capital expenditure which includes Construction work.

The financial requirements for the current financial year 2024-2025 and the next financial year 2025-2026 under (A) Programme/activity-wise (B) Object wise classification and their source of Finance are described in the following paragraphs.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

(I) कार्यक्रम / गतिविधिवार राजस्व व्यय (₹ लाखों में)

वर्गीकरण	वास्तविक 2023-2024	संशोधित प्राक्कलन 2024-2025		बजट प्राक्कलन 2025-2026	
गतिविधि					
चिकित्सा हितलाभ	1273990	1552986	L	1781054	LL
नकद हितलाभ	308283	304936	M	254598	MM
अन्य हितलाभ	258	380		390	
प्रशासनिक व्यय	205419	245005	N	252781	NN
गैर-गतिविधि					
पूँजीगत निर्माण निधि	18315	20187	O	22206	O
आकस्मिक आरक्षित निधि	0	0	OO	0	OO
कुल	1806265	2123495		2311029	
पूँजीगत व्यय					
i) कार्यालय भवन एवं स्टाफ क्वार्टर्स	932	3613		8225	
ii) अस्पताल एवं औषधालय, स्टाफ क्वार्टर सहित (भूमि क्रय की लागत सहित)	114384	152972		303442	
iii) चिकित्सा महाविद्यालय और स्टाफ क्वार्टर।	1752	6552		20018	
iv) गैर-पूँजी	18017	76899		92941	
कुल	135085	240036		424626	

(L) इसमें निम्नलिखित का प्रावधान शामिल है: -	(लाखों में)
1 राज्य सरकारों को पिछले देयता के लिए	574196
2 क.रा.बी.निगम अस्पतालों/ औषधालय के लिए	566481
3 सुपर स्पेशियलिटी उपचार के लिए	210064
4 आई टी रोल आउट	7018
5 एम ई यू डी एवं आई एम पी के लिए	2100
6 स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी)	33
7 चिकित्सा शिक्षा के लिए	116374

(LL)	इसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं:	(लाखों में)
1.	राज्य सरकारों को पिछले देयता के लिए.	680994
2.	क.रा.बी.निगम अस्पतालों/ औषधालय के लिए	634534
3.	सुपर स्पेशियलिटी उपचार के लिए	232883
4.	आई टी रोल आउट	4755
5.	एम ई यू डी एवं आई एम पी के लिए	2300
6.	स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी)	62
7.	चिकित्सा शिक्षा के लिए	123768

- (M) इसमें राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के लिए ₹ 1214 लाख और कराबीनि कोविड-19 राहत योजना निधि के लिए ₹ 5480 लाख शामिल हैं।
- (MM) इसमें राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के लिए ₹ 1311 लाख और ईएसआईसी कोविड-19 राहत योजना फंड के लिए ₹ 3280 लाख शामिल हैं।
- (N) इसमें भर्ती व्यय के लिए ₹ 250 लाख रुपये का प्रावधान शामिल है।
- (NN) इसमें भर्ती व्यय के लिए ₹ 1000 लाख रुपये का प्रावधान शामिल है।
- (O) पूँजीगत निर्माण निधि के लिए ₹ 20187 लाख तथा ₹ 22206 लाख का प्रावधान शामिल है।

Financial Estimates and Performance Budget 2025-2026



(i) Program / Activity wise Revenue expenditure (in Lakhs)

CLASSIFICATION	Actual 2023-2024	Revised Estimates 2024-2025		Budget Estimates 2025-2026	
Activity					
Medical Benefit	1273990	1552986	L	1781054	LL
Cash Benefits	308283	304936	M	254598	MM
Other Benefits	258	380		390	
Administrative Expenditure	205419	245005	N	252781	NN
Non-Activity					
Capital Construction Fund	18315	20187	O	22206	O
Contingency Reserve Fund	0	0	OO	0	OO
TOTAL	1806265	2123495		2311029	
Capital Expenditure					
i) Office Building & Staff Qtrs.	932	3613		8225	
ii) Hospital & Dispensaries including Staff Qtrs. (Including cost of purchase of land)	114384	152972		303442	
iii) Medical Colleges & Staff Qtrs.	1752	6552		20018	
iv) Non-Project	18017	76899		92941	
Total	135085	240036		424626	

(L) Includes Provision for: -		(in Lakhs)
1	Towards past liability to State Govts.	574196
2	Towards ESIC Hospitals/ Dispensary	566481
3	Towards Super Specialty Treatment	210064
4	IT Roll out	7018
5	Towards MEUD& IMP	2100
6	Swachhata Action Plan (SAP)	33
7	Towards Medical Education	116374

(LL)	Includes provision for:	(in Lakhs)
1.	Towards past liability to State Govts.	680994
2.	Towards ESIC Hospitals/ Dispensary	634534
3.	Towards Super Specialty Treatment	232883
4.	IT Roll out	4755
5.	Towards MEUD& IMP	2300
6.	Swachhata Action Plan (SAP)	62
7.	Towards Medical Education	123768

- (M) Includes ₹1214 Lakhs for Rajiv Gandhi Shramik Kalyan Yojna and ₹5480 Lakhs for ESIC COVID-19 Relief Scheme Fund.
- (MM) Includes ₹1311 Lakhs for Rajiv Gandhi Shramik Kalyan Yojna and ₹3280 Lakhs for ESIC COVID-19 Relief Scheme Fund.
- (N) Includes provision of ₹250 Lakhs for Recruitment Expenses.
- (NN) Includes provision of ₹1000 Lakhs for Recruitment Expenses.
- (O) Include provision of ₹20187 Lakhs and ₹22206 Lakhs for Capital Construction Fund.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

(OO) आकस्मिकता आरक्षित निधि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि निधि में शेष राशि पहले ही ₹7500 लाख रुपये की निर्धारित सीमा तक पहुंच चुकी है।

(II) राजस्व व्यय का उद्देश्यवार वर्गीकरण

व्यय	वास्तविक 2023-2024	संशोधित प्राक्कलन 2024-2025	बजट प्राक्कलन 2025-2026
1. लाभधिकारियों को चिकित्सा देख-रेख	1273990.00	1552986.01	1781054.45
2. नकद हितलाभ	308283.21	304936.00	254598.00
3. अन्य हितलाभ	257.92	380.00	390.00
4. वेतन एवं अन्य प्रशासनिक व्यय :			
i. वेतन (यात्रा व्यय एवं बोनस सहित)	95740.44	119281.00	123537.00
ii. लेखनसामग्री एवं फॉर्म	509.86	650.00	750.00
iii. जल एवं विद्युत् प्रभार	2637.68	3390.00	3900.00
iv. किराया, दर एवं कर	4231.65	6000.00	7000.00
v. बीमा न्यायलय एवं विधि प्रभार	543.69	1330.00	1485.00
vi. भर्ती एवं परीक्षा	617.41	250.00	1000.00
vii. विज्ञापन एवं प्रचार	1236.21	2500.00	2800.00
viii. कंप्यूटर की खरीद तथा मरम्मत एवं अनुरक्षण तथा अन्य	9490.67	10709.00	9177.00
ix. बैंक खाते बनाए रखने के लिए शुल्क और अन्य बैंक शुल्क	755.02	250.00	270.00
x. लेखा-परीक्षा शुल्क	1.58	352.00	420.00
xi. प्रशिक्षण	357.90	1150.00	1200.00
xii. टेलीफोन/ डाक प्रभार एवं "घ" श्रेणी कार्मिकों की वर्दी सहित कार्यालय के अन्य व्यय	1392.78	1650.00	1700.00
xiii. विविध/अन्य	10463.68	15341.00	18080.00
xiv. आई एस एस ए आदि को अंशदान	105.21	110.00	132.00
xv. कार्यालय भवन (स्टाफ क्वार्टर सहित) मरम्मत एवं अनुरक्षण	2944.21	10654.00	12249.00
xvi. मूल्यहास	4976.72	9800.00	14147.00
xvii. सेवानिवृत्ति हितलाभ	69414.62	61588.00	54984.20
5. पूंजीगत निर्माण निधि के लिए आवंटन	18315.00	20187.00	22206.00
कुल	1806265.51	2123190.92	2327029.65

III. पूंजीगत व्यय (लाखों में)

	वास्तविक 2023-2024	संशोधित प्राक्कलन 2024-2025	बजट प्राक्कलन 2025-2026
क. कार्यालय भवन (स्टाफ क्वार्टर सहित)	932.60	3613.00	8225.00
ख. अस्पताल एवं औषधालय भवन (स्टाफ क्वार्टर सहित)	114384.70	152972.00	303442.00
ग. चिकित्सा शिक्षा परियोजनाएं	1752.83	6552.00	20018.00
घ. अन्य परिसंपत्तियाँ (अन्य गैर-परियोजना व्यय)	18017.00	76899.00	92941.00
कुल	135087.13	240036.00	424626.00

(अनुलग्नक-II में दिया गया विवरण व्यय के मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्रति व्यक्ति व्यय का भार दर्शाता है)

Financial Estimates and Performance Budget 2025-2026



(OO) No provision has been made for the Contingency Reserve Fund as the balance in the Fund has already reached the prescribed ceiling of ₹ 7500 Lakhs.

(ii) Object wise classification of Revenue expenditure

Expenditure	Actual 2023-2024	Revised Estimates 2024-2025	Budget Estimates 2025-2026
1. Medical care to beneficiaries	1273990.00	1552986.01	1781054.45
2. Cash Benefit	308283.21	304936.00	254598.00
3. Other Benefits	257.92	380.00	390.00
4. Salaries and other Admn. Expenditure:			
i. Salaries (including travelling expenses and bonus)	95740.44	119281.00	123537.00
ii. Stationery & Forms	509.86	650.00	750.00
iii. Water & Elect. Charges	2637.68	3390.00	3900.00
iv. Rent, Rates & Taxes	4231.65	6000.00	7000.00
v. Insurance Courts and Legal Charges	543.69	1330.00	1485.00
vi. Recruitment & Examination	617.41	250.00	1000.00
vii. Advertisement & Publicity	1236.21	2500.00	2800.00
viii. Purchase and R & M of Computers & others	9490.67	10709.00	9177.00
ix. Charges for maintaining Bank Accounts and other bank charges	755.02	250.00	270.00
x. Audit Fees	1.58	352.00	420.00
xi. Training	357.90	1150.00	1200.00
xii. Other office expenses including telephone / postage charges and liveries to Gr. 'D' Staff	1392.78	1650.00	1700.00
xiii. Miscellaneous/Others	10463.68	15341.00	18080.00
xiv. Contribution to ISSA etc.	105.21	110.00	132.00
xv. Repair & maintenance of office building (including staff quarters)	2944.21	10654.00	12249.00
xvi. Depreciation	4976.72	9800.00	14147.00
xvii. Retirement benefits	69414.62	61588.00	54984.20
5. Allocation to Capital Construction Fund	18315.00	20187.00	22206.00
Total	1806265.51	2123190.92	2327029.65

iii. Capital Expenditure (in lakhs)

	Actual 2023-2024	Revised Estimates 2024-2025	Budget Estimates 2025-2026
a) Office Buildings (including staff quarters)	932.60	3613.00	8225.00
b) Hospital & Dispensary Buildings (including staff quarters)	114384.70	152972.00	303442.00
c) Medical Education Projects	1752.83	6552.00	20018.00
d) Other Assets (Other Non-Project Expenditure)	18017.00	76899.00	92941.00
Total	135087.13	240036.00	424626.00

(The Statement in Annexure-II shows the incidence of per-capita expenditure under the main heads of expenditure).



वित्तीय प्राककलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

III. बीमित व्यक्तियों को हितलाभ के लिए प्राप्त भौतिक निष्पादन

क. चिकित्सा सेवाएँ

क.रा.बी.योजना बीमाकृत व्यक्तियों एवं उनके परिवारों को व्यापक चिकित्सा हितलाभ देती है, जो क.रा.बी.योजना/क.रा.बी.निगम अस्पतालों और औषधालयों के माध्यम से प्रदान की जाती है।

सभी क.रा.बी.योजना/क.रा.बी.निगम अस्पतालों और उनके उपभावनों में बिस्तरों की कुल संख्या को बढ़ाकर वर्ष 2025-26 के अंत तक 33,373 बिस्तरों तक बढ़ाने की उम्मीद है।

(I) कर्मचारी राज्य बीमा निगम

निगम के पास अब विभिन्न राज्यों में 59 आदर्श/ क.रा.बी.निगम अस्पताल (ओडीसी सहित) हैं, जिनकी सूची निम्नलिखित है।

दिनांक 31.3.2024 से आदर्श/ क.रा.बी.निगम अस्पताल (ओडीसी सहित)

क्र.सं.	राज्य	क.रा.बी.निगम अस्पताल का नाम	बिस्तरों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	काकीनाडा	0
2	असम	बेलतोला, गुवाहाटी	85
3		तिनसुकिया	20
4	बिहार	बिहटा	330
5		फुलवारिशारिफ, बिहार	50
6	चंडीगढ़ (केंद्र शासित प्रदेश)	रामदरबार	70
7	छत्तीसगढ़	कोरबा	0
8		रायपुर	50
9		भिलाई	0
10		रायगढ़	0
11	दिल्ली	बसाईदारापुर	600
12		झिलमिल	300
13		ओखला	350
14		रोहिणी	280
15	गुजरात	बापूनगर	300
16		अंकलेश्वर	100
17		नरोडा	50
18		वापी	100
19	हरियाणा	फरीदाबाद अस्पताल एवं चिकित्सा महाविद्यालय	920
20		गुरुग्राम	150
21		मानेसर	100
22	हिमाचल प्रदेश	बद्दी	100
23	जम्मू एवं कश्मीर	बड़ी ब्रहामना	50
24	झारखण्ड	आदित्यपुर	50
25		नामकुम, रांची	50
26		मेथान	0
27	कर्नाटक	राजाजीनगर, बंगालुरु	530
28		गुलबर्गा	470
29		पीन्या	150
30	केरल	आश्रामम, कोल्लम	200
31		एजुकोन	150
32		उद्योगमंडल	114
33	मध्य प्रदेश	इंदौर	300
34		भोपाल	40
35	महाराष्ट्र	अंधेरी	230
36		बिब्वेवाडी	120
37		कोल्हापुर	30
38	ओडिशा	अनुगुल	50
39		राउरकेला	50



III. Physical performance achieved for Benefits to Insured persons

A. Medical services

The ESI Scheme provides comprehensive medical benefits to insured persons and their families, administered through ESIS/ESIC hospitals and dispensaries.

The total number of beds across all ESIS/ESIC hospitals and annexes is expected to rise to 33,373 beds by the end of 2025-26.

(i) ESIC

The Corporation now has 59 model/ESIC hospitals (including ODCs) in various states as listed below.

Model/ESIC Hospitals (Including ODCs) as on 31.3.2024

S.No.	State	Name of the ESIC Hospital	No. of (Commissioned Beds)
1.	Andhra Pradesh	Kakinada	0
2	Assam	Beltola, Guwahati	85
3		Tinsukia	20
4	Bihar	Bihta	330
5		Phuwarisharif, Patna	50
6	Chandigarh (UT)	Ramdarbar,	70
7	Chhattisgarh	Korba	0
8		Raipur	50
9		Bhilai	0
10		Raigarh	0
11	Delhi	Basaidarapur	600
12		Jhilmil	300
13		Okhla	350
14		Rohini	280
15	Gujarat	Bapunagar	300
16		Ankleswar	100
17		Naroda	50
18		Vapi	100
19	Haryana	Faridabad Hospital & MC	920
20		Gurgaon	150
21		Manesar	100
22	Himachal Pradesh	Baddi	100
23	Jammu & Kashmir	Bari Brahmana	50
24	Jharkhand	Adityapur	50
25		Namkum, Ranchi	50
26		Maithan	0
27	Karnataka	Rajajinagar, Bangalore	530
28		Gulbarga	470
29		Peenya	150
30	Kerala	Asramam, Kollam	200
31		Ezhukone	150
32		Udyogamandal	114
33	Madhya Pradesh	Indore	300
34		Bhopal	40
35	Maharashtra	Andheri	230
36		Bibvewadi	120
37		Kolhapur	30
38	Odisha	Angul	50
39		Rourkela	50



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

क्र.सं.	राज्य	क.रा.बी.निगम अस्पताल का नाम	बिस्तरों की संख्या
40	पंजाब	लुधियाना	300
41	राजस्थान	अलवर	240
42		भिवाड़ी	50
43		जयपुर	300
44		उदयपुर	100
45		बिकानेर	30
46		कोटा	60
47		तमिलनाडू	के.के.नगर, चेन्नई*
48	तिरुनेलवेली		100
49	तिरुपूर		0
50	तेलांगना	एस.एस.सनतनगर	150
51		सनतनगर	800
52	उत्तर प्रदेश	बरैली	50
53		जज्माऊ, कानपुर	50
54		नोयडा	300
55		साहिबाबाद	150
56		सरोजिनीनगर, लखनऊ	75
57		वाराणसी	150
58	उत्तराखण्ड	रूद्रपुर	50
59	पश्चिम बंगाल	जोका	510
		कुल	10919

वर्ष 2024 में, क.रा.बी. निगम ने मैथन, भिलाई, रायगढ़, तिरुपुर, काकीनाडा और काला अंब में छह नए अस्पतालों के संचालन द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया। फरीदाबाद, केके नगर, वापी, अलवर चिकित्सा महाविद्यालय और बिहटा चिकित्सा महाविद्यालय में बिस्तरों की संख्या को बढ़ाया गया। आईसीयू और एचडीयू सुविधाओं को मजबूत किया गया और 25 अस्पतालों में अति विशिष्ट सेवाएं शुरू की गईं। 42 अस्पतालों में कीमोथेरेपी इकाइयाँ स्थापित की गईं और छह चिकित्सा महाविद्यालयों में 5जी -सक्षम एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। सुविधा बढ़ाने के लिए ओ पी डी पंजीकरण के लिए AAA+ ऐप को अपग्रेड किया गया। ब्लड बैंकों और डायलिसिस सुविधाओं के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए, जबकि क.रा.बी. निगम संस्थानों में पर्याप्त कर्मचारी सुनिश्चित करने के लिए नए मानव संसाधन मानदंडों को मंजूरी दी गई। क.रा.बी. निगम ने अपनी 174वीं बैठक में प्रत्येक जिले में प्राथमिक देखभाल सेवा के लिए क.रा.बी. निगम की उपस्थिति को चिह्नित करने के लिए प्रत्येक जिले में एक औषधालय सह शाखा कार्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। हालांकि, संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, क.रा.बी. निगम ने उन जिलों में औषधालय सह शाखा कार्यालयों को खोलने का फैसला किया है, जहां कोई क.रा.बी. औषधालय नहीं है, एवं जहां 10 किलोमीटर के दायरे में बीमाकृत व्यक्ति की जनसंख्या 3000 या उससे अधिक है। वर्तमान में, 105 औषधालय सह शाखा कार्यालय काम कर रहे हैं और 59 औषधालय सह शाखा कार्यालयों को अभी चालू किया जाना है।

Financial Estimates and Performance Budget 2025-2026



S.No.	State	Name of the ESIC Hospital	No. of (Commissioned Beds)
40	Punjab	Ludhiana	300
41	Rajasthan	Alwar	240
42		Bhiwadi	50
43		Jaipur	300
44		Udaipur	100
45		Bikaner	30
46		Kota	60
47	Tamilnadu	K.K. Nagar, Chennai*	915
48		Tirunelveli	100
49		Tiruppur	0
50	Telangana	S.S. Sanathnagar	150
51		Sanathnagar	800
52	Uttar Pradesh	Bareilly	50
53		Jajmau, Kanpur	50
54		Noida	300
55		Sahibabad	150
56		Sarojinagar, Lucknow	75
57		Varanasi	150
58	Uttarakhand	Rudrapur	50
59	West Bengal	Joka	510
		Total	10919

In 2024, ESIC expanded healthcare services by operationalizing six new hospitals in Maithan, Bhilai, Raigarh, Tirupur, Kakinada, and Kala Amb. Beds were increased in Faridabad, KK Nagar, Vapi, Alwar Medical College, and Bihta Medical College. ICU and HDU facilities were strengthened, and super-specialty services were started in 25 hospitals. Chemotherapy units were set up in 42 hospitals and 5G-enabled ambulance service was launched in six medical colleges. The AAA+ app was upgraded for OPD registration to enhance convenience. Guidelines were framed for blood banks and dialysis facilities, while new HR norms were approved to ensure adequate staffing in ESIC institutions. The ESI Corporation in its 174th meeting has approved setting up of a DCBO in every district to mark the presence of ESIC for primary care service in each district. However, to ensure optimal utilization of resources, ESIC decided to open DCBOs in districts which have no ESI Dispensary, having an IP population of 3000 or more within a radius of 10 KM. Presently, 105 DCBOs are functioning and 59 DCBOs are yet to be made operational.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

चिकित्सा हितलाभ पर वास्तविक एवं अनुमानित व्यय (लाखों में)

लेखा शीर्ष	वास्तविक आंकड़े 2020-2021	वास्तविक आंकड़े 2021-2022	वास्तविक आंकड़े 2022-2023	वास्तविक आंकड़े 2023-2024	संशोधित प्राक्कलन 2024-2025	बजट प्राक्कलन 2025-2026
चिकित्सा हितलाभों पर व्यय:						
राज्य सरकार को भुगतान	392644	452122	393549	470574	574196	680994
चिकित्सा देखभाल सुविधाएं प्रदान करने पर प्रत्यक्ष रूप से किया गया व्यय	560420	641122	766485	803416	978790	1100060
कुल	953064	1093244	1160034	1273990	1552986	1781054

प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत एम-ईयूडी, एम-आईएमपी टाई-अप अस्पताल और निजी टाई-अप अस्पतालों का विवरण

चिकित्सा सुविधा का प्रकार	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार (संख्या में)	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार (संख्या में)
औषधालय सह शाखा कार्यालय	96	105
एम-ईयूडी	20	20
एम-आईएमपी	927	863
प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत टाई-अप अस्पताल	2546	2836

(II) कर्मचारी राज्य बीमा योजना

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्ति (आईपी) और उनके परिवार के सदस्य उचित चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने के हकदार हैं। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अनुसार, लाभार्थियों को प्राथमिक और द्वितीयक चिकित्सा देखभाल प्रदान करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंपी गई है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अस्पतालों, औषधालयों और अन्य चिकित्सा संस्थानों के साथ टाई-अप व्यवस्था सहित एक बड़े बुनियादी ढांचे के माध्यम से लाभाधिकारियों को चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाती है।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, निगम ने राज्य सरकारों के साथ एक समझौता किया है और इसलिए, बीमित व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों की चिकित्सा देखभाल पर होने वाला व्यय कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 58(3) के प्रावधान के तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) और राज्य सरकारों के बीच 7:1.2836 के अनुपात में साझा किया जाता है।

दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार, 165 (2023-24 के दौरान 4 जोड़े गए) अस्पताल और 1590 (2023-24 के दौरान 16 जोड़े गए) औषधालय राज्य सरकार द्वारा संचालित थे।

'ऑन अकाउंट भुगतान नीति' के तहत कर्मचारी राज्य बीमा लाभाधिकारियों को चिकित्सा सेवाओं का पर्याप्त प्रावधान करने के लिए राज्य सरकारों की सुविधा के लिए, संशोधित प्राक्कलन 2024-2025 और बजट प्राक्कलन 2025-2026 के लिए क्रमशः पूर्वोत्तर राज्यों (असम को छोड़कर सिक्किम सहित) के लिए ₹ 350 लाख और ₹ 400 लाख का एएफए सहित राज्य कर्मचारी राज्य बीमा योजना/सोसायटी के लिए ₹ 574196 लाख और ₹ 680994 लाख का आवंटन किया गया है।



Actuals and Projected Expenditure on Medical Benefit (in Lakhs)

Head of Account	Actuals 2020- 2021	Actuals 2021-2022	Actuals 2022- 2023	Actuals 2023- 2024	RE 2024-2025	BE 2025-2026
i. Expenditure on Medical Benefits:						
ii. Payment to State Govt.	392644	452122	393549	470574	574196	680994
iii. Expenditure incurred directly on providing medical care facilities	560420	641122	766485	803416	978790	1100060
TOTAL	953064	1093244	1160034	1273990	1552986	1781054

Details of m-EUDs, m-IMPs, tie-up hospitals

Type of medical arrangement	As on 31.03.2023 (In numbers)	As on 31.03.2024 (In numbers)
DCBOs	96	105
m-EUDs	20	20
m-IMPs	927	863
Tie-up hospitals	2546	2836

(ii) ESIS

Under the ESI Scheme, Insured Persons (IPs) and members of their family are entitled to receive reasonable medical care. As per the ESI Act, 1948, State Governments have been entrusted the responsibility for providing primary and secondary medical care to beneficiaries. Medical Care to beneficiaries is provided through a large infrastructure comprising ESI Scheme hospitals, dispensaries and tie-up arrangements with other medical institutions.

Keeping in view the provisions of ESI Act, the Corporation entered into an agreement with State Governments and therefore, the expenditure on medical care to Insured Persons and members of their family is shareable between the Employees' State Insurance Corporation (ESIC) and State Governments under provision of Section 58(3) of ESI Act in the ratio of 7:1.

As on 31.03.2024, there were 165 number of hospitals (4 added during 2023-24) and 1590 dispensaries (16 added during 2023-24) run by the state government.

In order to facilitate State Governments for making adequate provision of medical services to ESI beneficiaries under the 'On Account Payment Policy', an allocation of ₹ 574196 Lakh and ₹ 680994 Lakh has been made towards State ESI Scheme/Society, including an AFA of ₹ 350 Lakh and ₹ 400 Lakh for Northeastern States (including Sikkim except Assam), for Revised Estimates 2024-2025 and Budget Estimates 2025-2026 respectively.



(iii) कर्मचारी राज्य बीमा निगम की नई पहल

1. राज्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों / सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से गैर-कार्यान्वित और आंशिक रूप से कार्यान्वित जिलों में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लाभार्थियों के लिए चिकित्सा सेवाओं के प्रावधान के लिए नीति तैयार की जा रही है, ताकि जहां कर्मचारी राज्य बीमा योजना/ कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सेवाएं व्यवहार्य नहीं हैं, वहां राज्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों / प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से अपने लाभार्थियों को चिकित्सा देखभाल प्रदान की जा सके। इसके अलावा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र / प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नकद हितलाभ के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम के बीमाकृत व्यक्ति को प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य भी करेंगे।
2. कर्मचारी राज्य बीमा प्रणाली में स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने और गुणवत्ता मूल्यांकन मापदंडों को मानकीकृत करने के उपाय के रूप में कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं में गुणवत्तापूर्ण सुधार के लिए सेवा स्तर बेंचमार्क को कार्यान्वित किया जा रहा है। तदनुसार, अस्पतालों के नियमित निरीक्षण और ग्रेडिंग के तंत्र के माध्यम से कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पतालों का आकलन करने के लिए सेवा स्तर बेंचमार्क तैयार किए गए हैं। इससे स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली की निगरानी, योजना और समग्र दक्षता में सुधार होगा।
3. कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वितीयक और तृतीयक चिकित्सा देखरेख के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के साथ अखिल भारतीय स्तर पर अभिसरण की कार्यनीति भी बना रहा है। यह कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 13 करोड़ से अधिक बीमाकृत व्यक्तियों और उनके परिवारों को एक व्यापक और सुलभ चिकित्सा देखभाल प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता का एक हिस्सा है। इस नीति के अंतर्गत, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लाभार्थियों की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के साथ नामिकागत 30,000 से अधिक अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच होगी, जिससे पूरे भारत में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखरेख सुनिश्चित होगी। यह अभिसरण सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम (पीएसयू), सार्वजनिक और निजी अस्पतालों के बीच के अंतर को समाप्त कर देगा, जिससे लाभार्थियों को इस संबंध में उपचार लागत पर वित्तीय सीमा के बिना किसी भी नामिकागत अस्पताल में उपचार कराने की अनुमति मिलेगी। “अखिल भारत आधार पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के साथ कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अभिसरण कार्यक्रम के तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लाभार्थियों को चिकित्सा देखरेख का प्रावधान” कार्यसूची को दिनांक 08.10.2024 को आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 194वीं बैठक के समक्ष रखा गया और चर्चा के अनुसार अनुमोदित किया गया।
4. महाविद्यालय: दिनांक 31.08.2023 को आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 191^{वीं} बैठक में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा निर्धारित प्रतिमानकों के अधीन नए कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दिया गया। यह निर्णय जूनियर रेजिडेंट और सीनियर रेजिडेंट चिकित्सकों की तैनाती के माध्यम से लाभार्थियों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए योग्य चिकित्सा जनशक्ति की कमी को कम करने में सहायता करने के लिए लिया गया था।
यह क.रा.बी.अधिनियम की धारा 59वीं के अंतर्गत चिकित्सा शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा चिकित्सा क्षेत्रों, व्यावसायिक रोगों में अनुसंधान करने तथा चिकित्सकों और परा-चिकित्सकों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्यों के अनुरूप है। इसके अलावा, चिकित्सा शिक्षा में बीमाकृत व्यक्तियों के बच्चों के लिए समावेशिता को बढ़ावा देना है क्योंकि बीमाकृत व्यक्तियों/ कामगारों के बच्चों के लिए चिकित्सा महाविद्यालयों में सीटें उद्दिष्ट हैं और रेफरलों को कम करना है, व्यापक विशेषज्ञताओं/ अति विशेषज्ञताओं में आंतरिक (इन-हाउस) गुणवत्ता सेवाओं का विकास करना है ताकि लाभार्थी की संतुष्टि और सुविधा को बढ़ाया जा सके।

वर्तमान में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 8 चिकित्सा महाविद्यालय अलवर-(राजस्थान), बिहटा-(बिहार), फरीदाबाद - (हरियाणा), गुलबर्गा - (कर्नाटक), जोका - (पश्चिम बंगाल), के.के.नगर - (तमिलनाडु), राजाजी नगर - (कर्नाटक) और सनत नगर - (तेलंगाना), 2 दंत्य महाविद्यालय रोहिणी - (दिल्ली) और गुलबर्गा -(कर्नाटक) है।



(iii) ESIC Medical Services New Initiatives

1. Policy for provision of Medical services to ESIC Beneficiaries in non-implemented and partially implemented districts through State PHCs/CHC's is under formulation to impart medical care to its beneficiaries through State CHCs/PHCs wherever ESIS/ESIC services is not viable. Apart from this, CHCs/PHCs will also undertake issuance of certification to ESIC Insured person for cash benefits.
2. Implementation of Service level Benchmarks for quality improvement in ESIC Healthcare facilities is being undertaken as a measure to improve the quality of healthcare services in ESI system and to standardize the quality assessment parameters. Accordingly, service level benchmarks have been designed to assess ESIC hospitals through a mechanism of regular inspection and grading of hospitals. This will improve surveillance, planning and overall efficiency of the healthcare system.
3. ESIC has strategizing a Pan India convergence with Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY) for secondary and tertiary medical care. This is a part of the commitment of the Government to provide a comprehensive and accessible medical care to the 13 Crore plus ESIC Insured Persons and their families. Under this policy, ESIC beneficiaries will have access to medical facilities at more than 30,000 hospitals empanelled with AB-PMJAY, ensuring quality healthcare across India. This convergence will eliminate the distinction between government, PSU, Public and private hospitals, allowing beneficiaries to receive treatment in any empanelled hospital without financial ceiling on treatment costs in this regard. Agenda of "Provision of Medical care to ESIC Beneficiaries under convergence program of ESIC with Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojna (AB-PMJAY) on Pan-India basis" was placed before the 194th meeting of the ESI Corporation meeting held on 08.10.2024 and approved as per discussion held.
4. Medical Colleges. The 191st ESI Corporation meeting held on 31.08.2023, accorded in-principle approval for setting up of new ESIC medical colleges subject to norms prescribed by the National Medical Commission and ESIC. The decision was taken to help reduce shortage of qualified medical manpower to provide medical services to beneficiaries through deployment of Junior Residents and Senior Resident doctors.

This is in line with the objectives of setting up of medical education institutions under Section 59B of the ESI Act and carrying out research in medical fields, occupational diseases and training to medics and para-medics. Besides, promoting inclusivity to the wards of Insured Persons in medical education as specified seats in medical colleges are earmarked for the wards of Insured Persons / workers and reducing referrals, developing in-house quality services in broad specialties / super specialties so as to increase the beneficiary satisfaction and convenience.

At present, ESIC has 8 medical colleges Alwar (Rajasthan), Bhita (Bihar), Faridabad (Haryana), Gulbarga (Karnataka), Joka (West Bengal), K K Nagar (Tamil Nadu), Rajaji Nagar (Karnataka) and Sanath Nagar (Telangana), 2 dental colleges Rohini (Delhi) and Gulbarga (Karnataka).




वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

देश भर में एकरूपता लाने के लिए निम्नलिखित स्थानों पर चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने पर विचार करने का प्रस्ताव किया गया:

मौजूदा कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पतालों में
प्रस्तावित कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सा महाविद्यालय

क्र.सं.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल	सीटों की संख्या
1.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान, बसईदारापुर (दिल्ली)	100
2.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल नरोडा-बापू नगर, अहमदाबाद (गुजरात)	प्रारम्भ में 50 सीटें, जिन्हें बढ़ाकर 100 किया जा सकेगा
3.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल इंदौर (मध्य प्रदेश)	100
4.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल अंधेरी (महाराष्ट्र)	50
5.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल जयपुर (राजस्थान)	50
6.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल लुधियाना (पंजाब)	50
7.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल गुवाहाटी- बेलतला (असम)	50
8.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल नोएडा (उत्तर प्रदेश)	50
9.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल रांची (झारखंड)	50
10 .	कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	50

10 नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए परिशोधित प्राक्कलन में ₹ 303.10 लाख तथा बजट प्राक्कलन में ₹ 30000 लाख का बजटीय प्रावधान किया गया है।



ख. नकद हितलाभ और अन्य हितलाभ

नकद हितलाभ एवं अन्य हितलाभों पर वास्तविक एवं अनुमानित व्यय (₹ लाखों में)

लेखाशीर्ष	वास्तविक 2020-2021	वास्तविक 2021-2022	वास्तविक 2022-2023	वास्तविक 2023-2024	परिशोधित प्राक्कलन 2024-2025	बजट प्राक्कलन 2025-2026
नकद हितलाभ	276188	492417	280467	308283	304936	254598
अन्य हितलाभ	339	271	252	258	380	390
कुल	276527	492688	280719	308541	305316	254988

Financial Estimates and Performance Budget 2025-2026




In order to have a uniformity across the country, establishing of medical colleges was proposed to be considered in the following locations:

Proposed ESIC Medical Colleges in existing ESIC Hospitals

S.No	ESIC Hospital	No of Seats
1.	ESIC PGIMSR Basaidarapur (Delhi)	100
2.	ESICH Naroda-Bapu Nagar, Ahmedabad (Gujarat)	Initially 50 seats, scalable to 100
3.	ESICH Indore (Madhya -Pradesh)	100
4.	ESICH Andheri (Maharashtra)	50
5.	ESICH Jaipur (Rajasthan)	50
6.	ESICH Ludhiana (Punjab)	50
7.	ESICH Guwahati-Beltola (Assam)	50
8.	ESICH Noida (Uttar Pradesh)	50
9.	ESICH Ranchi (Jharkhand)	50
10.	ESIC Hospital Varanasi (Uttar Pradesh)	50

A Budgetary provision of ₹ 303.10 lakhs in RE and ₹ 30000 lakhs for BE is provided for the establishment of 10 new Medical Colleges.



B. Cash benefits and other benefits

Actuals and projected expenditure on cash benefit & other benefits (₹ in Lakhs)

Head of Account	Actuals 2020-2021	Actuals 2021-2022	Actuals 2022-2023	Actuals 2023-2024	RE 2024-2025	BE 2025-2026
Cash Benefits	276188	492417	280467	308283	304936	254598
Other Benefits	339	271	252	258	380	390
TOTAL	276527	492688	280719	308541	305316	254988



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

(i) नकद हितलाभ

कर्मचारी राज्य बीमा निगम बीमाकृत व्यक्तियों (आईपी) को बीमारी और उसके परिणामस्वरूप मजदूरी की हानि, रोजगार चोट के कारण निःशक्तता और मृत्यु, मातृत्व में संरक्षित करने जैसी आकस्मिकताओं के दौरान हितलाभ प्रदान करने तथा बीमाकृत व्यक्तियों और उनके परिवारों को चिकित्सा देखरेख प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

हितलाभ प्रभाग मुख्यालय बीमाकृत कामगारों और उनके आश्रितजनों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा और नकद हितलाभ प्रदान करने के लिए समर्पित है। यह बीमाकृत व्यक्तियों (आईपी) और उनके आश्रितजनों के लिए नकद हितलाभ से संबंधित नीतियों को तैयार करने और उनकी समीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है। इस प्रभाग द्वारा विकसित पहल और नीतियां देशभर में कार्यबल के एक बड़े हिस्से और उनके परिवार के सदस्यों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं।

मुख्य उद्देश्य

- नकद हितलाभ : यह प्रभाग यह सुनिश्चित करता है कि बीमाकृत व्यक्तियों और उनके आश्रितजनों को बीमारी, मातृत्व, निःशक्तता और रोजगार संबंधी चोटों के कारण मृत्यु के दौरान नकद हितलाभ के लिए आसान और परेशानी-रहित पहुंच प्राप्त हो।
- नीतियों का निर्माण/समीक्षा : हितलाभ प्रभाग समय-समय पर नकद हितलाभ से संबंधित नई योजनाएं और नीतियां तैयार करता है, साथ ही बीमाकृत व्यक्तियों और उनके आश्रितजनों के लिए मौजूदा नीतियों की समीक्षा भी करता है।
- सेवानिवृत्त बीमाकृत व्यक्तियों के लिए योजनाएं तैयार करना : प्रभाग आवश्यकतानुसार सेवानिवृत्त बीमाकृत व्यक्तियों और उनके विवाहिती के लिए भी योजनाएं विकसित करता है।
- जागरूकता और शिक्षा: प्रभाग कर्मचारी राज्य बीमा निगम ढांचे के अंतर्गत उपलब्ध विभिन्न हितलाभों और सेवाओं के बारे में पणधारियों को शिक्षित करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करता है।

कुल मिलाकर, हितलाभ प्रभाग कामगारों का ज्यादा कल्याण करने तथा उनकी नकद हितलाभों तक आसान और परेशानी-रहित पहुंच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बीमाकृत व्यक्तियों और लाभार्थियों तक हितलाभ सेवाओं की पहुंच और सुचारू वितरण के लिए, निगम के पास दिनांक 31.03.2024 तक 24 क्षेत्रीय कार्यालय, 41 उप क्षेत्रीय कार्यालय, 610 शाखा कार्यालय और 105 औषधालय-सह-शाखा कार्यालय हैं।

विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत नकद हितलाभों का व्यय

	वास्तविक 2023-2024		परिशोधित प्राक्कलन 2024-2025		बजट प्राक्कलन 2025-2026	
	कर्मचारियों की भारत औसत संख्या (लाखों में)	राशि (लाख रुपये में)	कर्मचारियों की भारत औसत संख्या (लाखों में)	राशि (लाख रुपये में)	कर्मचारियों की भारत औसत संख्या (लाखों में)	राशि (लाख रुपये में)
क) प्रावधानों सहित स्थायी हितलाभ						
स्थायी निःशक्तता हितलाभ	310.14	103032.50	315.01	84959.00	329.61	45785.00
आश्रितजन हितलाभ	310.14	99435.95	315.01	91762.00	329.61	71217.00
क.रा.बी.निगम कोविड-19 राहत योजना	310.14	0.00	315.01	5480.00	329.61	3280.00
ख) अस्थायी हितलाभ						
बीमारी हितलाभ	310.14	43218.34	315.01	50862.00	329.61	55597.00
विस्तारित बीमारी हितलाभ	310.14	6508.67	315.01	7734.00	329.61	8469.00
मातृत्व हितलाभ	310.14	42898.47	315.01	48695.00	329.61	53292.00
अस्थायी निःशक्तता हितलाभ	310.14	9603.76	315.01	10685.00	329.61	11702.00



(i) Cash benefits

ESIC is committed to provide benefits to Insured Persons (IPs) during contingencies of sickness and consequent loss of wages, disablement and death due to employment injuries, maternity and to provide medical care to Insured Persons and their families.

The Benefit Division Headquarters is dedicated to delivering comprehensive social security and cash benefits to insured workers and their dependents. It is responsible for formulating and reviewing policies related to cash benefits for insured persons (IPs) and their dependents. The initiatives and policies developed by this division significantly affect a large section of the workforce and their family members across the country.

Key objectives

- Cash Benefits:** The division ensures that insured persons and their dependents have easy and hassle-free access to cash benefits during periods of sickness, maternity, disability, and death resulting from employment-related injuries.
- Framing / Reviewing of Policies:** The Benefit Division periodically formulates new schemes and policies related to cash benefits, as well as reviews existing policies for insured persons and their dependents.
- Framing of Schemes for Retired Insured Persons:** The division also develops schemes for retired insured persons and their spouses as needed.
- Awareness and Education:** The division actively initiates efforts to educate stakeholders about the various benefits and services available under the ESIC framework.

Overall, the Benefit Division plays a crucial role in enhancing the welfare of workers and ensuring easy and hassle-free access to cash benefits. In order to have outreach and smooth delivery of benefits services to IPs and beneficiaries, the Corporation has 24 Regional Offices, 41 Sub Regional Office, 610 Branch Offices and 105 Dispensary cum Branch Offices as on 31.03.2024.

Expenditure under different categories of cash benefits

	Actual 2023-2024		Revised Estimates 2024-2025		Budget Estimates 2025-2026	
	Weighted average of No. of employee s (in lakhs)	Amount (Rs. in lakhs)	Weighted average of No. of employee s (in lakhs)	Amount (Rs. in lakhs)	Weighted average of No. of employee s (in lakhs)	Amount (Rs. in lakhs)
a) Permanent Benefits with Provisions						
Permanent Disablement Benefit	310.14	103032.50	315.01	84959.00	329.61	45785.00
Dependants' Benefit	310.14	99435.95	315.01	91762.00	329.61	71217.00
ESIC COVID-19 Relief Scheme	310.14	0.00	315.01	5480.00	329.61	3280.00
b) Temporary Benefits						
Sickness Benefit	310.14	43218.34	315.01	50862.00	329.61	55597.00
Extended Sickness Benefit	310.14	6508.67	315.01	7734.00	329.61	8469.00
Maternity Benefit	310.14	42898.47	315.01	48695.00	329.61	53292.00
Temporary Disablement Benefit	310.14	9603.76	315.01	10685.00	329.61	11702.00
Funeral Expenses	310.14	2852.49	315.01	3132.00	329.61	3486.00




वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

	वास्तविक 2023-2024		परिशोधित प्राक्कलन 2024-2025		बजट प्राक्कलन 2025-2026	
	कर्मचारियों की भारत औसत संख्या (लाखों में)	राशि (लाख रुपये में)	कर्मचारियों की भारत औसत संख्या (लाखों में)	राशि (लाख रुपये में)	कर्मचारियों की भारत औसत संख्या (लाखों में)	राशि (लाख रुपये में)
अंत्येष्टि खर्च	310.14	2852.49	315.01	3132.00	329.61	3486.00
राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना	310.14	671.22	315.01	1214.00	329.61	1311.00
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना	310.14	61.81	315.01	413.00	329.61	459.00
कुल	310.14	308283.21	315.01	304936.00	329.61	254598.00

(II) अन्य हितलाभ

इस गतिविधि में चिकित्सा बोर्ड और चिकित्सा अपील अधिकरण के सदस्यों को शुल्क का भुगतान, पुनर्वास भत्ता और वाहन शुल्क का भुगतान, बीमाकृत व्यक्तियों को मजदूरी के नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति, जब उन्हें चिकित्सा निर्देशी, चिकित्सा बोर्ड या चिकित्सा अपीली अधिकरण के समक्ष पेश होने की आवश्यकता होती है, शामिल होता है। इस प्रकल्पित राशि में, वर्ष में एक बार जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए वाहन भत्ते के भुगतान के लिए प्रति लाभार्थी ₹100/- का भुगतान भी शामिल है।




Financial Estimates and Performance Budget 2025-2026



	Actual 2023-2024		Revised Estimates 2024-2025		Budget Estimates 2025-2026	
	Weighted average of No. of employee s (in lakhs)	Amount (Rs. in lakhs)	Weighted average of No. of employee s (in lakhs)	Amount (Rs. in lakhs)	Weighted average of No. of employee s (in lakhs)	Amount (Rs. in lakhs)
Rajiv Gandhi Shramik Kalyan Yojna	310.14	671.22	315.01	1214.00	329.61	1311.00
Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojna	310.14	61.81	315.01	413.00	329.61	459.00
TOTAL	310.14	308283.21	315.01	304936.00	329.61	254598.00

(ii) Other Benefits

This activity includes the payment of fees to the members of Medical Boards and Medical Appeal Tribunals, rehabilitation allowance and payment of conveyance charges, compensation for loss of wages to insured persons when they are required to appear before Medical Referee, Medical Board or Medical Appellate Tribunal. The amount projected also covers payment of ₹ 100 per beneficiary for payment of conveyance allowances for submission of life certificate once in a year.





वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

ग. प्रशासनिक

(i) निर्देशन, अधीक्षण और क्षेत्र कार्य

योजना का समग्र प्रशासन और क्रियान्वयन 24 क्षेत्रीय कार्यालयों और 41 उप-क्षेत्रीय कार्यालयों के समन्वय से किया जाता है।

क्षेत्रीय कार्यालयों/ उप क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए प्रशासनिक व्यय (लाख में)

लेखा शीर्ष	वास्तविक 2020- 2021	वास्तविक 2021-2022	वास्तविक 2022- 2023	वास्तविक 2023-2024	परिशोधित प्राक्कलन 2024- 2025	बजट प्राक्कलन 2025-2026
स्थापना व्यय:	115561	93219	93570	163411	178258	175771
अन्य प्रशासनिक व्यय	31559	39572	39316	42008	66747	77010
कुल	147120	132791	132886	205419	245005	252781

इस शीर्ष के अंतर्गत बजट आबंटन निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और अन्य स्थापना-संबंधी व्ययों के संबंध में है। यह दिनांक 31.03.2024 तक कुल संस्वीकृत संख्या 20,412 (चिकित्सा अधिकारियों और कर्मचारियों को छोड़कर) में से 12,966 अधिकारियों और कर्मचारियों की वर्तमान कर्मचारी संख्या पर आधारित है। नए क्षेत्रों में योजना के विस्तार के परिणामस्वरूप अपेक्षित किसी अतिरिक्त पद को मौजूदा कर्मचारियों की पुनः तैनाती और नई भर्ती से भरे जाने की संभावना है।

घ. पूंजीगत निर्माण कार्य

पूंजीगत निर्माण कार्यों पर वास्तविक एवं प्रकल्पित व्यय (₹ लाख में)

लेखा शीर्ष	वास्तविक 2020-2021	वास्तविक 2021-2022	वास्तविक 2022-2023	वास्तविक 2023-2024	परिशोधित प्राक्कलन 2024-2025	बजट प्राक्कलन 2025-2026
कार्यालय भवन (स्टाफ क्वार्टर्स सहित)	211.49	3693.32	51.36	932.60	3613.00	8225.00
अस्पताल और औषधालय (स्टाफ क्वार्टर्स सहित)	25867.94	44267.47	75723.63	114384.70	152972.00	303442.00
चिकित्सा शिक्षा परियोजनाएं	4182.83	1401.15	2.26	1752.83	6552.00	20018.00
कुल	42651.38	49361.94	75777.25	117070.13	163137.00	331685.00

(परिशिष्ट-III में दिए गए विवरण में परियोजनाओं के लिए बजट आवश्यकता को दर्शाया गया है, जो प्रगति पर हैं।)



C. Administrative

(i). Direction, Superintendence and Field work

The overall administration and delivery of the scheme is coordinated by 24 Regional Offices and 41 Sub Regional Offices.

Administrative expenditure for ROs/SROs (in lakhs)

Head of Account	Actuals 2020-2021	Actuals 2021-2022	Actuals 2022-2023	Actuals 2023-2024	RE 2024-2025	BE 2025-2026
Establishment Expenses:	115561	93219	93570	163411	178258	175771
Other Administrative Expenditure	31559	39572	39316	42008	66747	77010
TOTAL	147120	132791	132886	205419	245005	252781

The budget allocation under the establishment head covers the salaries and other establishment-related expenses for the officers and staff of the Corporation. It is based on the current staff strength of 12,966 officers and staff, out of the total sanctioned strength of 20,412 as of 31.03.2024 (excluding medical officers and staff). Any additional posts required due to the extension of the Scheme to new areas will likely be filled through the redeployment of existing staff and new recruitment.

D. Capital Construction Work

Actuals and projected expenditure on Capital Construction Works (₹ in Lakhs)

Head of Account	Actuals 2020-2021	Actuals 2021-2022	Actuals 2022-2023	Actuals 2023-2024	RE 2024-2025	BE 2025-2026
Office Building (including staff quarters)	211.49	3693.32	51.36	932.60	3613.00	8225.00
Hospitals & Dispensaries (including staff quarters)	25867.94	44267.47	75723.63	114384.70	152972.00	303442.00
Medical Education Projects	4182.83	1401.15	2.26	1752.83	6552.00	20018.00
TOTAL	42651.38	49361.94	75777.25	117070.13	163137.00	331685.00

(The statements at Appendix-III indicate the budget requirement of projects, which are in progress.)



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

(i) अस्पताल बिस्तर परिवर्धन के लिए पूंजीगत निर्माण कार्यक्रम की स्थिति

प्रतिमानकों के अनुसार बिस्तरों की स्वीकार्य संख्या दिनांक 31.03.2024 के अनुसार (बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या के आधार पर)	74412
पहले से निर्मित अस्पतालों और उपभवनों में बिस्तरों की संख्या (सितंबर, 2024)	26879 एवं 849 उपभवन
निर्माणाधीन अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या (सितंबर, 2024)	4580
निर्माण के लिए पहले से सहमति प्राप्त अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या	9630

(ii) औषधालयों के लिए पूंजीगत निर्माण कार्यक्रम की स्थिति

i. वर्तमान में निर्माण के लिए पात्र औषधालयों की संख्या	1590
ii. पैनल क्षेत्र में अपेक्षित औषधालय भवनों की संख्या	927
कुल (i) + (ii)	2517
iii. निर्मित औषधालयों की संख्या (सितंबर, 2024 तक)	425
उन औषधालय की संख्या, जिनका निर्माण अभी किया जाना है	2092

(iii) उपर्युक्त (क) और (ख) मामलों में वित्तीय परिव्यय (₹ लाख में)

i. निर्मित परियोजनाएं/निर्माणाधीन परियोजनाएं	
सितंबर, 2024 तक संस्वीकृत की गई राशि	1790952 लाख (अस्पताल और चिकित्सा संस्थाएं+नई परियोजनाएं+कार्यालय भवन सहित)
सितंबर, 2024 तक दी गई राशि	1384634 लाख (अस्पताल और चिकित्सा संस्थाएं+नई परियोजनाएं+कार्यालय भवन सहित)
शेष देयता (क)	406318 लाख (क)
ii. निर्माण की जाने वाली परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त देयता	
क. अस्पताल बिस्तर: 33373 बिस्तर * 125 लाख (बिस्तरों की संख्या x प्रत्येक बिस्तर की लागत) (ख)	4171875 लाख (ख)
ख. औषधालय: 2092 * 200 लाख (औषधालयों की संख्या x प्रत्येक औषधालय की लागत) (ग)	503400 लाख
ग. कार्यालय भवन और स्टाफ क्वार्टर के लिए परिव्यय	
i. सितंबर, 2024 तक संस्वीकृत की गई राशि	1790952 लाख
ii. सितंबर, 2024 तक दी गई राशि	1384634 लाख
iii. शेष देयता (घ)	406318 लाख
कुल देयता (क+ख+ग)	4996343 लाख

निर्माण उप समिति निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति और साथ ही निर्मित अस्पतालों को शुरू करने के लिए भी आवधिक समीक्षा करती है।

इ. सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आईसीटी)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सेवा वितरण और सुव्यवस्थित प्रशासनिक कार्यों में वृद्धि के लिए डिजिटल परिवर्तन को अपनाया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्लिकेशन के प्रारंभ होने से बीमाकृत व्यक्ति तथा नियोक्ता और अधिक आसानी से सेवाओं का लाभ ले सकते हैं।

Financial Estimates and Performance Budget 2025-2026



(i) Position of capital construction program for addition of hospital beds

i.	No. of beds admissible as per norms (on the basis of No. of Insured Persons) as on 31-03-2024	74412
ii.	No. of beds in hospitals & annexes already constructed (Sept., 2024)	26879 and 849 Annexes
iii.	No. of beds in hospitals under construction (Sept., 2023)	4580
iv.	No. of beds in hospitals already agreed for construction	9630

(ii) Position of capital construction program for dispensaries

i.	No. of dispensaries at present eligible for construction	1590
ii.	No. of dispensary buildings that may be required in panel areas	927
	TOTAL (i) + (ii)	2517
iii.	No. of dispensaries constructed (up-to September, 2024)	425
iv.	No. of dispensaries yet to be constructed	2092

(iii) Financial outlay in case of (i) & (ii) above (₹ In Lakhs)

i.	Projects constructed / under construction	
	Amount sanctioned up-to September, 2024	1790952 (Including Hos. And Medical Institutions+New Projects +Office building)
	Amount released up-to September, 2024	1384634 (Including Hospital and Medical Institutions +New Projects + office building)
	Balance Liability (A)	406318
ii.	Futuristic liability for Projects to be constructed	
a.	Hospital beds: 33373 beds *125 Lakhs (No. of beds X cost of each bed) (B)	4171625
b.	Dispensaries: 2092*200 Lakhs (No. of dispensaries x cost of each dispensary) (C)	418400
c.	Outlay for office building and staff quarters	
	i) Amount sanctioned up-to Sept. 2024	1790952
	ii) Amount released up-to Sept. 2024	1384634
	iii) Balance Liability (D)	406318
	Total Liability (A+B+C)	4996343

The Construction Sub-Committee carries out a periodical review on the progress made in projects under construction and the commissioning of the constructed hospitals.

E. Information and Communication Technology (ICT)

ESIC has embraced digital transformation to enhance service delivery and streamline administrative functions. The introduction of online platforms and mobile applications has empowered insured persons and employers to access services more conveniently.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

पहल:

- क. एए+मोबाइल एप्लिकेशन संवर्धन: एप्लिकेशन में अब बीमाकृत व्यक्तियों का वैयक्तिक विवरण हितलाभों की हकदारी, और अंशदान विवरण उपलब्ध है।
- ख. आधार एकीकरण: आधार प्रमाणीकरण के साथ एकीकरण के कारण बीमाकृत व्यक्ति निर्बाध रूप से हितलाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- ग. घर से नमूना संग्रह: कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने विभिन्न स्थानों पर वार्षिक स्वास्थ्य जांच के लिए घर से नमूना संग्रह सेवाओं का विस्तार किया है तथा आगे और विस्तार करने की योजना है।
- घ. साइबर सुरक्षा उपाय: कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने डाटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एनआईसी और एमईआईटीवाई दिशानिर्देशों के अनुरूप मजबूत साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए हैं।

IV. कार्य निष्पादन और किए गए कार्य

कार्य निष्पादन और किए गए कार्य से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़े

क्र.सं.	सूचना की प्रकृति	वास्तविक 2023-2024	परिशोधित प्राक्कलन 2024-2025	बजट प्राक्कलन 2025-2026
1.	व्याप्त कर्मचारियों की संख्या (लाख में)	314.87	324.60	334.63
2.	चिकित्सा देखभाल के लिए पात्र बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या (लाख में)	372.06	403.61	437.83
3.	परिवार के सदस्यों की संख्या (लाख में) जिन तक चिकित्सा देखभाल विस्तारित की गई है			
	क. बीमाकृत व्यक्तियों रहित	1071.53	1162.40	1260.97
	ख. बीमाकृत व्यक्तियों सहित	1443.59	1566.01	1698.81
4.	(क) निर्मित अस्पतालों की संख्या (वास्तविक आंकड़े)	165	183	190
	सामान्य	157	175	182
	क्षयरोग	8	8	8
	(ख) उप भवनों की संख्या	42	42	42
	सामान्य	27	27	27
	क्षयरोग	15	15	15
	कुल [(क) तथा (ख)]	207	225	232
5.	अस्पतालों और उप भवनों में बिस्तरों की संख्या (वास्तविक आंकड़े)			
	क) अस्पतालों में	28479	30809	32559
	सामान्य	26429	28759	30509
	क्षय रोग	2050	2050	2050
	ख) उप भवनों में	849	849	849
	सामान्य	520	520	520
	क्षय रोग	329	329	329
	कुल [(क) तथा (ख)]	29328	31658	33408
6.	निर्माणाधीन बिस्तरों की संख्या: (वास्तविक आंकड़े)	4580	5510	6105
7.	उपचार पाने वाले रोगियों की संख्या:			
	क. कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पतालों में भर्ती मामलों की संख्या (लाख में)	66.83	86.96	113.16



Initiatives:

- AAA+ Mobile App Enhancements: The app now offers personal details, entitlement to benefits, and contribution details for insured persons.
- Aadhaar Integration: Integration with Aadhaar authentication allows insured persons to access benefits seamlessly.
- Home Sample Collection: ESIC has expanded home sample collection services for annual health check-ups at various location with plans to expand further.
- Cybersecurity Measures: ESIC has implemented robust cybersecurity protocols in line with NIC and MeitY guidelines to ensure data security.

IV. Performance and work handled

Statistical data relating to performance and work handled

Sl. No.	Nature of Information	Actual 2023-2024	Revised Estimates 2024-2025	Budget Estimates 2025-2026
1.	Number of employees covered (in lakhs)	314.87	324.60	334.63
2.	No. of Insured Persons entitled to medical care (in Lakhs)	372.06	403.61	437.83
3.	Number of family members to whom medical care has been extended (in Lakhs)			
	a. Excluding the IPs	1071.53	1162.40	1260.97
	b. Including the IPs	1443.59	1566.01	1698.81
4.	(a) Number of hospitals Constructed (Actual figure)	165	183	190
	General	157	175	182
	T.B (Tuberculosis)	8	8	8
	(b) No. of annexes	42	42	42
	General	27	27	27
	T.B.	15	15	15
	TOTAL [(a) & (b)]	207	225	232
5.	Number of beds Constructed in Hospitals and Annexes: (Actual figure)			
	a) In Hospitals	28,529	30,859	32,609
	General	26,479	28,809	30,559
	T.B.	2,050	2,050	2,050
	b) In annexes	849	849	849
	General	520	520	520
	T.B.	329	329	329
	TOTAL [(a) & (b)]	29,378	31,708	33,458
6.	Number of beds under construction: (Actual figure)	4,380	5,510	6,105
7.	Number of patients treated:			
	a. Number of cases admitted in ESIC Hospitals	66.83	86.96	113.16



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

क्र.सं.	सूचना की प्रकृति	वास्तविक 2023-2024	परिशोधित प्राक्कलन 2024-2025	बजट प्राक्कलन 2025-2026
	ख. औषधालयों में उपस्थिति (बीमाकृत व्यक्ति एवं पारिवारिक सदस्य दोनों) (लाख में)			
	i. नए मामले	345.81	287.86	283.33
	ii. पुराने मामले	292.47	299.85	307.42
8.	नकद हितलाभ के लिए पात्र कर्मचारियों की संख्या (लाख में)	314.87	324.60	334.63
9.	आश्रितजन हितलाभ पाने वाले आश्रितजनों की संख्या (वास्तविक आंकड़ें)	110802.00	106225.00	101837.00
10.	राजस्व प्राप्तियाँ (₹ लाख में)	2625201.46	2858396.00	3120385.00
11.	राजस्व व्यय (₹ लाख में)	1806265.51	2123494.01	2311029.65
12.	कार्यालय, औषधालय और अस्पताल तथा चिकित्सा महाविद्यालय भवनों के निर्माण पर पूंजीगत व्यय (लाख में)	117070.13	163137.00	331685.00

क. वर्ष 2023-2024 के वास्तविक और 2023-2024 के परिशोधित प्राक्कलन के बीच अंतर

क्र.सं.	सूचना की प्रकृति	परिशोधित प्राक्कलन 2023-2024	वास्तविक 2023-2024	अंतर (परिशोधित प्राक्कलन से वास्तविक)
	2.	3.	4.	5.
	व्याप्त कर्मचारियों की संख्या (लाख में)	334.81	314.87	-19.94
	चिकित्सा देखभाल पाने वाले पारिवारिक सदस्यों की संख्या (लाख में)	379.19	372.06	-7.13
	राजस्व प्राप्तियाँ (₹ लाख में)	2863771.00	2625201.46	-238569.54
	राजस्व व्यय (₹ लाख में)	1913583.00	1806265.51	-107317.49
	स्टाफ क्वार्टर सहित कार्यालयों, औषधालयों तथा अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालय भवनों के निर्माण के लिए पूंजीगत व्यय (₹ लाख में)	149430.00	117070.13	-32359.87

नोट:-

- ईआरपी आंकड़ों की समीक्षा के कारण परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2023-2024 (334.81 लाख) से 2023-2024 में कर्मचारियों की संख्या घटकर 314.87 लाख हो गई है।
- राजस्व व्यय में बचत मुख्य रूप से बीमांकक द्वारा संबंधित निधियों के मूल्यांकन के आधार पर पेंशन और पीएमएस आरक्षित निधि के अंतर्गत प्रावधानों के परिशोधन के कारण है।
- पूंजीगत व्यय में बचत मुख्य रूप से अस्पतालों और औषधालयों के निर्माण और नवीकरण के लिए अनुमानित व्यय में कम व्यय के कारण है।

Financial Estimates and Performance Budget 2025-2026



Sl. No.	Nature of Information	Actual 2023-2024	Revised Estimates 2024-2025	Budget Estimates 2025-2026
	(in lakhs)			
	b.Attendance at dispensaries (both insured persons and family members) (in lakhs)			
	i. New Cases	345.81	287.86	283.33
	ii. Old Cases	292.47	299.85	307.42
8.	Number of employees eligible for cash benefits (in lakhs)	314.87	324.60	334.63
9.	Number of dependents in receipt of dependants' benefits (Actual figure)	1,10,802.00	1,06,225.00	1,01,837.00
10.	Revenue Receipts (₹ in Lakhs)	26,25,201.46	28,58,396.00	31,20,385.00
11.	Revenue Expenditure (₹ in Lakhs)	18,06,265.51	21,23,494.01	23,11,029.65
12.	Capital expenditure for construction of buildings for offices, dispensaries and hospitals& Medical College (₹ in Lakhs)	1,17,070.13	1,63,137.00	3,31,685.00

A. Variation between actual for 2023-2024 and the revised estimates for 2023 - 2024.

	Nature of Information	Revised Estimates 2023-2024	Actual 2023-2024	Variation (Actual from Revised Estimates)
	2.	3.	4.	5.
	Number of employees covered (in Lakhs)	334.81	314.87	-19.94
	Number of family members to whom medical care has been extended (in Lakhs)	379.19	372.06	-7.13
	Revenue Receipts (₹ in lakhs)	28,63,771.00	26,25,201.46	-2,38,569.54
	Revenue Expenditure (₹ In Lakhs)	19,13,583.00	18,06,265.51	-1,07,317.49
	Capital Expenditure for construction of buildings for offices, dispensaries and hospitals& Medical College (including staff Qtrs.) (₹ in Lakhs)	1,49,430.00	1,17,070.13	-32,359.87

Note:-

- There has been decreased in number of employees from RE 2023- 2024 (334.81 Lakhs) to 314.87 Lakhs in 2023-2024 due to review of ERP data.
- Saving in Revenue Expenditure is mainly on account of revision of provisions under Pension, and Pensioners Medical Scheme (PMS) Reserve Funds on the basis of valuation of respective funds by Actuary.
- Saving in capital expenditure is mainly on account of lesser outgo in projected expenditure for the construction and renovation of hospitals and dispensaries.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

ख. वर्ष 2024-2025 के परिशोधित प्राक्कलनों और 2024-2025 के मूल बजट प्राक्कलनों के बीच अंतर

क्र. सं.	सूचना की प्रकृति	बजट प्राक्कलन 2024-2025	परिशोधित प्राक्कलन 2024-2025	अंतर (बजट प्राक्कलन से परिशोधित प्राक्कलन) (4)-(3)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	क. व्याप्त कर्मचारियों की संख्या (लाख में)	367.02	324.60	-42.42
	ख. बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या (लाख में)	419.23	403.61	-15.62
2.	परिवार के सदस्यों की संख्या (लाख में) जिन तक चिकित्सा देखभाल विस्तारित की गई है			
	क. बीमाकृत व्यक्तियों रहित	1207.39	1162.40	-44.99
	ख. बीमाकृत व्यक्तियों सहित	1626.63	1566.01	-60.62
3.	राजस्व प्राप्तियाँ (₹ लाख में)	3130470.00	2858396.00	-272074.00
4.	राजस्व व्यय (₹ लाख में)	2152822.00	2123494.01	-29327.99
5.	पूँजीगत व्यय (₹ लाख में)	397818.00	163137.00	-234681.00

नोट: -

- क. वर्ष 2023-24 के परिशोधित प्राक्कलन में कर्मचारियों की संभावित संख्या में कमी ईआरपी आंकड़ों की समीक्षा के कारण है।
- ख. देश में आर्थिक गतिविधियों में सुधार के कारण राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि होने की संभावना है।
- ग. राजस्व व्यय में बचत मुख्यतः बीमांकक द्वारा संबंधित निधियों के मूल्यांकन के आधार पर पेंशन, उपदान और छुट्टी नकदीकरण आरक्षित निधि के अंतर्गत उपबंधों में परिशोधन के कारण है।
- घ. पूँजीगत व्यय में बचत अस्पतालों और औषधालयों के निर्माण और नवीकरण के लिए संभावित व्यय से कम व्यय के कारण हुई है।

स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी)

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशों के अनुपालन में स्व.का.यो. से संबंधित व्यय की बुकिंग एवं निगरानी के लिए एक अलग बजट शीर्ष बनाया गया है। इस शीर्ष में परिशोधित अनुमान 2024-25 एवं बजट प्राक्कलन 2025-2026 में क्रमशः ₹ 133 लाख एवं ₹ 171 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

लिंग बजटिंग (जेन्डर बजटिंग)

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशों के अनुपालन में, क.रा.बी. निगम लिंग एवं बाल बजट प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। क.रा.बी. योजना के अंतर्गत सभी बजट शीर्षों में, बजट प्राक्कलन 2024-25 और बजट प्राक्कलन 2025-2026 में महिलाओं के लिए अनुमानित बजट प्रावधान क्रमशः ₹ 591897 लाख और ₹ 648434 लाख है। लिंग और बाल बजट का विस्तृत बजट शीर्षवार आबंटन क्रमशः बजट प्राक्कलन 2024-25 और वर्ष 2025-2026 के बजट प्राक्कलन के स्पष्टात्मक ज्ञापन के पैरा संख्या 10 और 18 में दिया गया है।

बैंक प्रभार

बैंक प्रभार में बजट प्राक्कलन 2024-25 के मुकाबले परिशोधित प्राक्कलन 2024-25 में बैंक शुल्क 82 प्रतिशत कम कर दिए गए हैं। यह बचत समझौतों की नए सिरे से समीक्षा के कारण हुई है, जिससे मुख्य रूप से भुगतान लेनदेन शुल्क शून्य हो गया है

Financial Estimates and Performance Budget 2025-2026



B. Variation between Revised Estimates for 2024-2025 and the original Budget estimates for 2024-2025.

Sl. No.	Nature of Information	Budget Estimates 2024-2025	Revised Estimates 2024-2025	Variation (BEs and REs) (4) - (3)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	a. Number of employees covered (in Lakhs)	367.02	324.60	-42.42
	b. Number of Insured Persons (in Lakhs)	419.23	403.61	-15.62
2.	Number of family members to whom medical care has been extended (in Lakhs)			
	a. Excluding the IPs	1,207.39	1,162.40	-44.99
	b. Including the IPs	1,626.63	1,566.01	-60.62
3.	Revenue Receipts (₹ in Lakhs)	31,30,470.00	28,58,396.00	-27,2,074.00
4.	Revenue Expenditure (₹ In Lakhs)	21,52,822.00	21,23,494.01	-29,327.99
5.	Capital Expenditure (₹ in Lakhs)	3,97,818.00	1,63,137.00	-2,34,681.00

Note: -

- Decrease in the projected number of employees in RE 2024-25 is on account of review of ERP data.
- The shortfall is due to the fact that in many of the States the minimum wages have gone above the wage limit of ₹21000 resulting, in hire income Employees moving out of ₹21000 ceiling.
- Saving in Revenue Expenditure is mainly on account of revision of provisions under Pension, Gratuity and Leave Encashment Reserve Funds on the basis of valuation of respective funds by Actuary.
- Savings in capital expenditure is on account of lesser outgo in projected expenditure for construction and renovation of hospitals and dispensaries.

Swachhata Action Plan (SAP)

In pursuance of Ministry of Labour and Employment, Government of India directions, a separate budget head for the purpose of booking and monitoring the expenditure related to SAP has been created. Under this head a budget provision has been made for ₹ 133 Lakhs and ₹171 Lakhs in the Revised Estimate 2024-25 and Budget Estimates for the year 2025-2026 respectively.

Gender Budgeting

As per the directions of Ministry of Labour and Employment, Government of India, ESIC Gender & Child Budget Cell has been constituted. Across all budget heads under ESI Scheme, an approximate budget provision for female have been worked out at ₹ 591897.00 Lakh and ₹ 648434.00 Lakh in the Revised Estimates 2024-25 and Budget Estimates 2025-2026 respectively. The detailed budget head wise allocation of Gender and Child Budget is provided at Para No. 10 and 18 of Explanatory Memorandum to the Revised Estimates 2024-25 and Budget Estimates for the year 2025-2026 respectively.

Bank Charges

Bank Charges have been reduced by 82 percent in the RE 2024-25 against BE 2024-25. This saving has accrued because of a fresh review of the agreements thereby primarily making payment transaction charges to **NIL**.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

VI. तुलन पत्र

दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का सारांश निम्नानुसार है :

शीर्ष	लाख में	शीर्ष	लाख में
देयता		परिसंपत्तियाँ	
क.रा.बी. सामान्य आरक्षित निधि (व्यय से आय का आधिक्य)	12584442	स्थायी परिसंपत्तियाँ	1824178
आरक्षित निधियाँ चालू देयता	4164405 523995	चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण ,अग्रिम	594386
प्रतिभूति जमा	6339	उद्दिष्ट/अक्षयनिधि से निवेश	4137868
भविष्य निधि आदि में ऐसी जमा राशियां जिनके दावेदार नहीं हैं।	0.00	क.रा.बी. सामान्य आरक्षित निधि का रोकड़ शेष तथा निवेश	10722749
कुल :	17279181	कुल :	17279181



VI. Balance Sheet

A summary of the Balance Sheet as on 31-03-2024 is as below:

Heads	In Lakhs	Heads	In Lakhs
LIABILITIES		ASSETS	
ESI General Reserve (Excess of Income over Expenditure)	12584442	Fixed Assets	1824178
Reserve Funds	4164405	Current assets, loans, advances	594386
Current Liabilities	523995		
Deposit of Securities	6339	Investment from earmarked/ endowment fund	4137868
Unclaimed deposits in Provident Fund etc.	0.00	Cash Balance and investment of ESI General Reserve	10722749
TOTAL:	17279181	TOTAL:	17279181



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

संलग्नक - 1

दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा योजन के अंतर्गत (1) व्याप्त कर्मचारियों (2) बीमाकृत व्यक्तियों/ परिवार एककों, बीमाकृत महिलाओं तथा लाभार्थियों की संख्या का राज्यवार सूचक विवरण एवं दिनांक 31.03.2023 को कर्मचारियों की संख्या में अंतर

क्र.सं.	राज्य	(1) व्याप्त कर्मचारियों (2) बीमाकृत व्यक्तियों / परिवार एककों की संख्या	बीमाकृत महिलाओं की संख्या	लाभार्थियों की कुल संख्या	दिनांक 31.03.23 एवं 31.03.24 को कर्मचारियों की संख्या में अंतर
1.	2.	3.	4.	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	594990	203671	2635762	19480
	i. विजयवाड़ा	679320			
	ii. तिरुपति	270400 303440	90157	1177347	8060
	iii. विशाखापटनम	341380 403870	93078	1567016	-14280
2.	तेलंगाना	1553610 1873530	489642	7269296	7680
3.	असम, मेघालय ,मिजोरम, मणिपुर , नागालैंड ,त्रिपुरा एवं अरुणाचल प्रदेश	338430 378290	71830	1467765	31750
4.	सिक्किम	25970 27850	8260	108058	-430
5.	बिहार	418110 450640	43804	1748483	41130
6.	चंडीगढ़ , संघ शासित क्षेत्र	124700 155250	28010	602370	-2960
7.	छत्तीसगढ़	525460 576840	69622	2238139	23390
8.	दिल्ली				
	i राजेन्द्र प्लेस	294560 373960	48603	1450965	-22040
	ii रोहिणी	219520 257840	30787	1000419	-2690
	iii ओखला	511700 669820	69478	2598902	-31990
	iv नन्द नगरी	157820 191060	23107	741313	-7120
9.	गोवा	174170 216510	45050	840059	-410
10.	गुजरात				
	i.अहमदाबाद	750680 878670	120830	3409240	27860
	ii. वडोदरा	423870 519350	54826	2015078	3010
	iii. सूरत	451780 484580	63530	1880170	83420



ANNEXURE – I

STATEMENT SHOWING STATE-WISE POSITION OF NUMBER OF (1) COVERED EMPLOYEES (2) INSURED PERSONS / FAMILY UNITS, INSURED WOMEN AND NUMBER OF BENEFICIARIES UNDER EMPLOYEES' STATE INSURANCE SCHEME AS ON 31-03-2024 AND DIFFERENCE IN NO. OF EMPLOYEES TO BE COVERED BY 31.03.2023

Sl. No.	State	No. of (1) Covered employees (2) Insured persons / Family unit	No. of Insured women	Total no. of beneficiaries	Difference in No. of employees covered as in 31.03.2023 and 31.03.2024
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Andhra Pradesh	594990	203671	2635762	19480
	i. Vijayawada	679320			
		270400	90157	1177347	8060
	ii. Tirupati	303440			
		341380	93078	1567016	-14280
	iii. Visakhapatnam	403870			
2.	Telangana	1553610	489642	7269296	7680
		1873530			
3.	Assam, Meghalaya, Mizoram, Manipur Nagaland, Tripura & Arunachal Pradesh	338430	71830	1467765	31750
		378290			
4.	Sikkim	25970	8260	108058	-430
		27850			
5.	Bihar	418110	43804	1748483	41130
		450640			
6.	Chandigarh U.T	124700	28010	602370	-2960
		155250			
7.	Chhattisgarh	525460	69622	2238139	23390
		576840			
8.	Delhi				
	i Rajender Place	294560	48603	1450965	-22040
		373960			
	ii Rohini	219520	30787	1000419	-2690
		257840			
	iii Okhla	511700	69478	2598902	-31990
		669820			
	iv Nandnagari	157820	23107	741313	-7120
		191060			
		174170			
9.	Goa	216510	45050	840059	-410
10.	Gujarat				
	i.Ahmedabad	750680	120830	3409240	27860
		878670			
	ii. Vadodara	423870	54826	2015078	3010
		519350			
	iii. Surat	451780	63530	1880170	83420
		484580			



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

क्र.सं.	राज्य	(1) व्याप्त कर्मचारियों (2) बीमाकृत व्यक्तियों / परिवार एककों की संख्या	बीमाकृत महिलाओं की संख्या	लाभार्थियों की कुल संख्या	दिनांक 31.03.23 एवं 31.03.24 को कर्मचारियों की संख्या में अंतर
1.	2.	3.	4.	5	6
11.	हरियाणा				
	(i) फरीदाबाद	888450 1093460	148814	4242625	59360
	(ii) गुरुग्राम	1067750 1479750	175341	5741430	31070
	(iii) करनाल	288850 324520	42348	1259138	-620
12.	हिमाचल प्रदेश	345100 410860	68548	1594137	18580
13.	जम्मू एवं कश्मीर	126580 147310	23601	571563	7070
14.	झारखण्ड	487560 517950	67355	2009646	35340
15.	कर्नाटक				
	i. बैंगलुरु	867770 1069980	316476	4151522	680
	ii. हुबली	355490 382490	98041	1484061	3020
	iii. पीप्या	452430 552580	191625	2144010	-2630
	iv. बोम्मसंद्रा	594510 753600	226591	2923968	-4620
	v. गुलबर्गा	183620 201700	30042	782596	7900
	vi. मैसूर	245880 279410	106705	1084111	-2380
	vii. मेंगलूर	185780 199500	85450	774060	2080
16.	केरल				
	(i) तृशूर	146310 159210	74273	617735	-390
	(ii) एर्णाकुलम	359010 410820	160468	1593982	-9770
	(iii) कोल्लम	124400 135160	79236	524421	-1910
	(iv) कोषिकोड	157170 167930	75973	651568	6500
	(v) तिरुवनंतपुरम	118750 133350	59239	517398	-810
17.	मध्य प्रदेश				
	(i) इंदौर	639480 753910	122692	2925171	-9330
	(ii) भोपाल	441570 461730	72718	1791512	84830
18.	महाराष्ट्र				
	i. लोअर परेल	427840 522430	89000	2027028	-23920
	ii. मरोल	659790 813110	149533	3154867	-25670
	iii. ठाणे	676540 816680	125838	3168718	-4250
	iv. नागपुर	361730 398500	49176	1546180	9850

Financial Estimates and Performance Budget 2025-2026



Sl. No.	State	No. of (1) Covered employees (2) Insured persons / Family unit	No. of Insured women	Total no. of beneficiaries	Difference in No. of employees covered as in 31.03.2023 and 31.03.2024
1.	2.	3.	4.	5.	6.
11.	Haryana				
	(i) Faridabad	888450 1093460	148814	4242625	59360
	(ii) Gurugram	1067750 1479750	175341	5741430	31070
	(iii) Karnal	288850 324520	42348	1259138	-620
12.	Himachal Pradesh	345100 410860	68548	1594137	18580
13.	Jammu & Kashmir	126580 147310	23601	571563	7070
14.	Jharkhand	487560 517950	67355	2009646	35340
15.	Karnataka				
	(i) Bangalore	867770 1069980	316476	4151522	680
	(ii) Hubli	355490 382490	98041	1484061	3020
	(iii) Peenya	452430 552580	191625	2144010	-2630
	(iv) Bommasandra	594510 753600	226591	2923968	-4620
	(v) Gulbarga	183620 201700	30042	782596	7900
	(vi) Mysore	245880 279410	106705	1084111	-2380
	(vii) Mangalore	185780 199500	85450	774060	2080
16.	Kerala				
	(i) Thrissur	146310 159210	74273	617735	-390
	(ii) Ernakulum	359010 410820	160468	1593982	-9770
	(iii) Kollam	124400 135160	79236	524421	-1910
	(iv) Kozhikode	157170 167930	75973	651568	6500
	(v) Thiruvananthapuram	118750 133350	59239	517398	-810
17.	Madhya Pradesh				
	(i) Indore	639480 753910	122692	2925171	-9330
	(ii) Bhopal	441570 461730	72718	1791512	84830
18.	Maharashtra				
	i. Lower Parel	427840 522430	89000	2027028	-23920
	ii. Marol	659790 813110	149533	3154867	-25670
	iii. Thane	676540 816680	125838	3168718	-4250
	iv. Nagpur	361730 398500	49176	1546180	9850



वित्तीय प्राककलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

क्र.सं.	राज्य	(1) व्याप्त कर्मचारियों (2) बीमाकृत व्यक्तियों / परिवार एककों की संख्या	बीमाकृत महिलाओं की संख्या	लाभार्थियों की कुल संख्या	दिनांक 31.03.23 एवं 31.03.24 को कर्मचारियों की संख्या में अंतर
1.	2.	3.	4.	5	6
	v. औरंगाबाद	284160 341540	43511	1325175	9110
	vi. पुणे	1327730 1686600	263974	6544008	8110
	vii. नासिक	247920 291600	37750	1131408	12610
19.	ओडिशा				
	i. भुवनेश्वर	695000 746230	86707	2895372	61360
	ii. झारसुगोड़ा	217020 236160	24011	916301	19780
20.	पुदुच्चेरी, माहे और येणम	101180 116080	44433	450390	2950
21.	पंजाब				
	i. चंडीगढ़ (पंजाब)	474100 570630	107501	2214044	8400
	ii. जालंधर	305400 343510	79032	1332819	12550
	iii. लुधियाना	393020 471330	81497	1828760	-5300
22.	राजस्थान				
	i. जयपुर	686090 812160	112711	3151181	-221390
	ii. उदयपुर	223500 261610	36604	1015047	13420
	iii. जोधपुर	196150 228250	30755	885610	8620
	iv. अलवर	282690 363570	39976	1410652	282690
23.	तमिलनाडु				
	i. चेन्नई	1709800 2098010	701947	8140279	7800
	ii. तिरुनेलवेली	196440 215640	90896	836683	19750
	iii. सेलम	525830 579520	194508	2248538	62210
	iv. कोयम्बतूर	781290 984280	387761	3819006	-20250
	v. मदुरै	437820 494030	224334	1916836	23710
	vi. अंडमान निकोबर द्वीप समूह	5010 5610	1064	21767	1490
24.	उत्तर प्रदेश				
	i. कानपुर	507350 561930	59940	2180288	30480
	ii. वाराणसी	145960 157190	15656	609897	8050
	iii. नोएडा	1257530 1586560	232153	6155853	52400
	iv. लखनऊ	602550 649170	70745	2518780	56450
25.	उत्तराखण्ड	583850 731250	117275	2837250	15450

Financial Estimates and Performance Budget 2025-2026



सत्यमेव जयते



Sl. No.	State	No. of (1) Covered employees (2) Insured persons / Family unit	No. of Insured women	Total no. of beneficiaries	Difference in No. of employees covered as in 31.03.2023 and 31.03.2024
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	v. Aurangabad	284160 341540	43511	1325175	9110
	vi. Pune	1327730 1686600	263974	6544008	8110
	vii. Nasik	247920 291600	37750	1131408	12610
19.	Odisha				
	i. Bhubaneswar	695000 746230	86707	2895372	61360
	ii. Jharsuguda	217020 236160	24011	916301	19780
20.	Puducherry, Mahe & Yenam	101180			
		116080	44433	450390	2950
21.	Punjab				
	i Chandigarh (Pb)	474100 570630	107501	2214044	8400
	ii Jalandhar	305400 343510	79032	1332819	12550
	iii Ludhiana	393020 471330	81497	1828760	-5300
22.	Rajasthan				
	i Jaipur	686090 812160	112711	3151181	-221390
	ii Udaipur	223500 261610	36604	1015047	13420
	iii Jodhpur	196150 228250	30755	885610	8620
	iv Alwar	282690 363570	39976	1410652	282690
23.	Tamil Nadu				
	i. Chennai	1709800 2098010	701947	8140279	7800
	ii. Tirunelveli	196440 215640	90896	836683	19750
	iii. Salem	525830 579520	194508	2248538	62210
	iv. Coimbatore	781290 984280	387761	3819006	-20250
	v. Madurai	437820 494030	224334	1916836	23710
	vi. AN Islands	5010 5610	1064	21767	1490
24.	Uttar Pradesh				
	i. Kanpur	507350 561930	59940	2180288	30480
	ii. Varanasi	145960 157190	15656	609897	8050
	iii. Noida	1257530 1586560	232153	6155853	52400
	iv. Lucknow	602550 649170	70745	2518780	56450
25.	Uttarakhand	583850 731250	117275	2837250	15450



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

क्र.सं.	राज्य	(1) व्याप्त कर्मचारियों (2) बीमाकृत व्यक्तियों / परिवार एककों की संख्या	बीमाकृत महिलाओं की संख्या	लाभार्थियों की कुल संख्या	दिनांक 31.03.23 एवं 31.03.24 को कर्मचारियों की संख्या में अंतर
1.	2.	3.	4.	5	6
26.	पश्चिम बंगाल				
	i. कोलकाता	1320800 1428470	188508	5542646	79030
	ii. बैरकपुर	304290 322570	43346	1251572	14210
	iii. दुर्गापुर	295130 295830	22346	1147820	36930
	अखिल भारत	31487120 37206090	7532009	144359629	872850

Financial Estimates and Performance Budget 2025-2026



Sl. No.	State	No. of (1) Covered employees (2) Insured persons / Family unit	No. of Insured women	Total no. of beneficiaries	Difference in No. of employees covered as in 31.03.2023 and 31.03.2024
1.	2.	3.	4.	5.	6.
26.	West Bengal				
	i. Kolkata	1320800 1428470	188508	5542646	79030
	ii. Barrackpore	304290 322570	43346	1251572	14210
	iii. Durgapur	295130 295830	22346	1147820	36930
	ALL INDIA	31487120 37206090	7532009	144359629	872850



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

संलग्नक - II

कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रति व्यक्ति अंशदान आय व विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत व्यय

(राशि रु. में)

		वास्तविक 2021-2022	वास्तविक 2022-2023	वास्तविक 2023-2024	परिशोधित प्राक्कलन 2024-2025	बजट प्राक्कलन 2025-2026
	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	अंशदान आय	5828.11	5599.44	5905.36	6408.37	6736.95
II.	व्यय					
1.	हितलाभ :					
क)	नकद हितलाभ :					
	बीमारी हितलाभ	141.33	145.66	139.35	161.46	168.67
	विस्तारित बीमारी हितलाभ	22.15	22.40	20.99	24.55	25.69
	मातृत्व हितलाभ	142.72	143.13	138.32	154.58	161.68
	अस्थायी निःशक्तता हितलाभ	44.65	38.20	30.97	33.92	35.50
	स्थायी निःशक्तता हितलाभ	0.00	222.09	332.21	269.70	138.90
	आश्रितजन हितलाभ	1299.80	108.19	320.61	291.30	216.06
	अंत्येष्टि व्यय	15.87	10.60	9.20	9.94	10.58
	राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना	8.54	5.25	2.16	3.85	3.98
	अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना	8.58	2.07	0.20	1.31	1.39
	क.रा.बी. निगम कोविड-19 राहत योजना	190.98	262.84	0.00	17.40	9.95
	अन्य हितलाभ	1.03	0.86	0.83	1.21	1.18
	कुल नकद हितलाभ	1875.66	961.29	994.83	969.23	773.59
ख)	चिकित्सा हितलाभ पर व्यय (निगम का अंश)	4161.96	3972.38	4107.72	4929.26	5403.44
2.	प्रशासनिक व्यय	505.53	455.05	662.33	777.77	766.90
	कुल प्रति व्यक्ति व्यय (II)	6543.16	5388.72	5746.89	6676.95	6943.93
	अंशदान आय में अंतर	(715.05)	570.72	140.48	(268.59)	(206.98)



ANNEXURE - II

EMPLOYEES' STATE INSURANCE SCHEME PER CAPITA INCOME FROM CONTRIBUTION AND EXPENDITURE UNDER DIFFERENT HEADS

(Amount in ₹)

		Actual 2021-2022	Actual 2022-2023	Actual 2023-2024	Revised Estimates 2024- 2025	Budget Estimates 2025-2026
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Contribution Income	5828.11	5599.44	5905.36	6408.37	6736.95
II.	Expenditure					
1.	Benefits:					
a)	Cash Benefit:					
	Sickness Benefit	141.33	145.66	139.35	161.46	168.67
	Extended Sickness Benefit	22.15	22.40	20.99	24.55	25.69
	Maternity Benefit	142.72	143.13	138.32	154.58	161.68
	Temporary Disablement Benefit	44.65	38.20	30.97	33.92	35.50
	Permanent Disablement Benefit	0.00	222.09	332.21	269.70	138.90
	Dependant's Benefit	1299.80	108.19	320.61	291.30	216.06
	Funeral Expenses	15.87	10.60	9.20	9.94	10.58
	Rajiv Gandhi Shramik Kalyan Yojna	8.54	5.25	2.16	3.85	3.98
	Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojna	8.58	2.07	0.20	1.31	1.39
	ESIC Covid -19 Relief Scheme	190.98	262.84	0.00	17.40	9.95
	Other Benefits	1.03	0.86	0.83	1.21	1.18
	TOTAL CASH BENEFIT	1875.66	961.29	994.83	969.23	773.59
b)	Expenditure on Medical Benefit (Corporation's Share)	4161.96	3972.38	4107.72	4929.96	5403.44
2.	Administrative Expenditure	505.53	455.05	662.33	777.77	766.90
	TOTAL PER CAPITA EXPENDITURE (II)	6543.16	5388.72	5764.89	6676.95	6943.93
	Margin in Contribution Income	(715.05)	570.72	140.48	(268.59)	(206.98)



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

संलग्नक-III

मौजूदा बुनियादी ढांचे को राज्य सरकारों को सौंपना / एमबीबीएस पाठ्यक्रम की शुरुआत: कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा चिकित्सा शिक्षा के संदर्भ में समीक्षा निर्णय के कारण (i) कोयंबटूर, तमिलनाडु; (ii) परिपल्ली, केरल और मंडी, हिमाचल प्रदेश के प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालयों को संबंधित राज्य सरकारों को सौंप दिया गया है, जिन्होंने अपने-अपने स्थानों पर चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किए हैं और एमबीबीएस पाठ्यक्रम की शुरुआत की है।

क्र.सं.	(क) क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय
1.	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, फरीदाबाद (हरियाणा)
2.	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, राजाजी नगर, बेंगलुरु (कर्नाटक)
3.	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गुलबर्गा (कर्नाटक)
4.	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, सनतनगर, हैदराबाद (तेलंगाना)
5.	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, के के नगर, तमिलनाडु
6.	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जोका, कोलकाता
7.	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहटा, बिहार (बिहार)
8.	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, अलवर, (राजस्थान)
	(ख) क.रा.बी. - स्नातकोत्तर संस्थाएं
1.	क.रा.बी.- पीजीआईएमएसआर अंधेरी, मुंबई (आग लगने की घटना के कारण वर्तमान में बंद कर दिया गया है)
2.	क.रा.बी.- पीजीआईएमएसआर बसईदारापुर, दिल्ली
	(ग) दंत्य महाविद्यालय
1.	क.रा.बी.निगम दंत्य महाविद्यालय, रोहिणी (दिल्ली)
2.	क.रा.बी.निगम दंत्य महाविद्यालय, गुलबर्गा (कर्नाटक)
	(घ) नर्सिंग महाविद्यालय
1.	क.रा.बी.निगम नर्सिंग महाविद्यालय, इंदिरानगर, बेंगलुरु (कर्नाटक)
2.	क.रा.बी.निगम नर्सिंग महाविद्यालय, गुलबर्गा, बेंगलुरु
	(ङ) परा चिकित्सा संस्था
1.	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गुलबर्गा (कर्नाटक)
	(च) अति विशिष्टता पाठ्यक्रम
1.	क.रा.बी.निगम- पीजीआईएमएसआर बसईदारापुर - दिल्ली
2.	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, सनतनगर
3.	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, राजाजी नगर, बेंगलुरु
4.	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, फरीदाबाद, हरियाणा
	(छ) ब्रॉड स्पेशलिटी में डीएनबी पाठ्यक्रम
1.	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, सनतनगर, हैदराबाद (तेलंगाना)
2.	क.रा.बी.निगम अस्पताल, रोहिणी (दिल्ली)
3.	क.रा.बी.निगम अस्पताल, नोएडा (उत्तर प्रदेश)
4.	क.रा.बी.निगम अस्पताल, ओखला, दिल्ली
5.	क.रा.बी.निगम अस्पताल, झिलमिल, दिल्ली
6.	क.रा.बी.निगम अस्पताल, नंदानगर, इंदौर (मध्यप्रदेश)
7.	क.रा.बी.निगम अस्पताल, जयपुर (राजस्थान)
8.	क.रा.बी.निगम अस्पताल, बापूनगर (गुजरात)
9.	क.रा.बी.निगम अस्पताल, लुधियाना (पंजाब)
10.	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहटा, (बिहार)
11.	क.रा.बी.निगम अस्पताल, वाराणसी



Annexure-III



Note: Transfer of existing infrastructure to State Government/Starting MBBS Courses: Due to the review decision by ESIC regarding the Medical Education, proposed Medical Colleges at (i) Coimbatore, Tamilnadu; (ii) Paripally, Kerla and Mandi; Himachal Pradesh have been transferred to the respective State Governments who have established the Medical Colleges and started MBBS course at their location.

SI No.	(A) ESIC Medical Colleges
1.	ESIC Medical College & Hospital, Faridabad (Haryana)
2.	ESIC Medical College & Hospital, Rajaji Nagar, Bangalore (Karnataka)
3.	ESIC Medical College & Hospital, Gulbarga (Karnataka)
4.	ESIC Medical College & Hospital, Sanathnagar, Hyderabad (Telengana)
5.	ESIC Medical College & Hospital, K.K. Nagar, Tamilnadu
6.	ESIC Medical College & Hospital, Joka, Kolkata
7.	ESIC Medical College & Hospital, Bihta, Bihar (Bihar)
8.	ESIC Medical College & Hospital, Alwar, (Rajasthan)
	(B) ESI-Post Graduate-Institutes
1.	ESI-PGIMSR Andheri, Mumbai (presently discontinued due to fire incident)
2.	ESI-PGIMSR, BASSAIDARAPUR, DELHI
	(C) Dental Colleges
1.	ESIC Dental College, Rohini (Delhi)
2.	ESIC Dental College, Gulbarga (Karnataka)
	(D) Nursing College
1.	ESIC Nursing College, Indiranagar, Bangalore (Karnataka)
2.	ESIC Nursing College, Gulbarga (Bangalore)
	(E) Paramedical Institute
1.	ESIC Medical College & Hospital, Gulbarga (Karnataka)
	(F) Superspeciality Course
1.	ESIC-PGIMSR Basaidarapur-Delhi
2.	ESIC Medical College & Hospital, Sanathnagar
3.	ESIC Medical College & Hospital, Rajajinagar, Bangalore
4.	ESIC Medical College & Hospital, Faridabad, Haryana
	(G) DNB Courses in Broad Speciality
1.	ESIC Medical College & Hospital, Sanathnagar, Hyderabad (Telengana)
2.	ESIC Hospital, Rohini, Delhi
3.	ESIC Hospital, Noida (UP)
4.	ESIC Hospital, Okhla, Delhi
5.	ESIC Hospital, Jhilmil, Delhi
6.	ESIC Hospital, Nandnagari, Indore (MP)
7.	ESIC Hospital, Jaipur, (Rajasthan)
8.	ESIC Hospital, Bapunagar (Gujrat)
9.	ESIC Hospital, Ludhiana (Punjab)
10.	ESIC Medical College & Hospital, Bihta, (Bihar)
11.	ESIC Hospital, Varanasi





वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

निष्पादन एक झलक में






PERFORMANCE AT A GLANCE






वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026





सत्यमेव जयते





वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2025-2026

क.रा.बी. निगम - पिछले पांच वर्षों का वित्तीय विवरण						
						(₹ लाख में)
लेखा-शीर्ष	वास्तविक 2020-2021	वास्तविक 2021-2022	वास्तविक 2022-2023	वास्तविक 2023-2024	परिशोधित प्राक्कलन 2024-2025	
i)	अंशदान	1378779	1530898	1740305	1831518.45	2018700.00
ii)	ब्याज	597384	623438	674508	743296.15	814346.00
iii)	किराया, दरें तथा कर	491	1204	5547	7409.12	7600.00
iv)	चिकित्सा हितलाभ के निमित्त दिल्ली राज्य सरकार का अंश जो प्रारंभ में निगम द्वारा वहन किया गया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v)	शुल्क, जुर्माना एवं जब्तियां	3116	4393	799	5381.54	6150.00
vi)	चिकित्सा शिक्षा प्राप्ति	3582	3094	5658	6566.74	7100.00
vii)	विविध	125780	34392	41518	31029.46	4500.00
	कुल राजस्व प्राप्ति :	2109132	2197419	2468335	2625201.46	2858396.00
ख.	राजस्व व्यय					
क)	हितलाभ :					
i)	चिकित्सा हितलाभ :	953063	1093244	1160034	1273990.04	1552986.01
ii)	नकद हितलाभ :	276188	492417	280467	308283.21	304936.00
iii)	अन्य हितलाभ :	339	271	252	257.92	380.00
	कुल हितलाभ :	1229590	1585932	1440754	1582531.18	1858302.01
ख)	प्रशासनिक व्यय	147120	132791	132886	205419.33	245005.00
ग)	पूँजीगत निर्माण हेतु प्रावधान	0.00	0.00	0.00	18315.00	20187.00
	कुल राजस्व व्यय (क+ख+ग)	1376710	1718723	1573640	1806265.51	2123494.01
ग	पूँजीगत व्यय					
i)	निगम के कार्यालय (स्टाफ क्वार्टर्स सहित)	212	3693	51	932.60	3613.00
ii)	अस्पताल एवं औषधालय	25868	44267	75723	114384.70	152972.00
iii)	चिकित्सा शिक्षा परियोजना	4182	1401	2	1752.83	6552.00
iv)	अन्य परिसंपत्तियां	12389	54433	18666	18017.00	76899.00
	कुल पूँजीगत व्यय	42651	103794	94443	135087.13	240036.00
	कुल व्यय (ख+ग)	1419361	1822518	1668083	1923335.44	2363530.01
	राजस्व व्यय से राजस्व आय की अधिकता	155676	478695	894695	818935.95	734901.99

Financial Estimates and Performance Budget 2025-2026



सत्यमेव जयते



E.S.I.C. – FINANCIALS OF LAST FIVE YEARS						
						(₹ in Lakhs)
	Head of Account	Actuals 2020-2021	Actuals 2021-2022	Actuals 2022-2023	Actuals 2023-2024	RE 2024-2025
	i) Contribution	1378779	1530898	1740305	1831518.45	2018700.00
	ii) Interest	597384	623438	674508	743296.15	814346.00
	iii) Rent, Rates & Taxes	491	1204	5547	7409.12	7600.00
	iv) Delhi State Govts. Share towards medical benefit initially incurred by the Corporation.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	v) Fees, Fines & Forfeiture	3116	4393	799	5381.54	6150.00
	vi) Medical Education Receipts	3582	3094	5658	6566.74	7100.00
	vii) Miscellaneous	125780	34392	41518	31029.46	4500.00
	TOTAL REVENUE RECEIPT:	2109132	2197419	2468335	2625201.46	2858396.00
B.	REVENUE EXPENDITURE					
a)	BENEFITS:					
i)	Medical Benefits:	953063	1093244	1160034	1273990.04	1552986.01
ii)	Cash Benefits:	276188	492417	280467	308283.21	304936.00
iii)	Other Benefits:	339	271	252	257.92	380.00
	Total Benefits:	1229590	1585932	1440754	1582531.18	1858302.01
b)	ADMINISTRATIVE EXPENDITURE	147120	132791	132886	205419.33	245005.00
c)	Provision for Capital Construction	0.00	0.00	0.00	18315.00	20187.00
	TOTAL REVENUE EXPENDITURE (a+b+c)	1376710	1718723	1573640	1806265.51	2123494.01
C	CAPITAL EXPENDITURE					
i)	Offices of the Corporation (with staff quarters)	212	3693	51	932.60	3613.00
ii)	Hospitals & Dispensaries	25868	44267	75723	114384.70	152972.00
iii)	Medical Education Projects	4182	1401	2	1752.83	6552.00
iv)	Other Assets	12389	54433	18666	18017.00	76899.00
	TOTAL CAPITAL EXPENDITURE	42651	103794	94443	135087.13	240036.00
	TOTAL EXPENDITURE (B+C)	1419361	1822518	1668083	1923335.44	2363530.01
	EXCESS OF REVENUE INCOME OVER REVENUE EXPENDITURE	155676	478695	894695	818935.95	734901.99



क.रा.बी.नि
ESIC

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation

श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय
भारत सरकार

Ministry of Labour & Employment
Government of India

Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110 002

Toll Free No. 1800-11-2526

Website: www.esic.gov.in

www.esic.gov.in [f @esichq](https://www.facebook.com/esichq) [X @esichq](https://twitter.com/esichq) [@esichq](https://www.youtube.com/channel/UC...) [@esichq](https://www.linkedin.com/company/esichq) [@esichq](https://www.instagram.com/esichq) [@esichq](https://www.youtube.com/channel/UC...) [f @esichq](https://www.facebook.com/esichq) [@esichq](https://www.instagram.com/esichq) [in @esichq](https://www.linkedin.com/company/esichq)

FOLLOW US ON



(Scan QR Code)